

वार्षिक लेखा ANNUAL ACCOUNTS 2023-2024



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
TRIPURA UNIVERSITY

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा - 799022, भारत
Suryamaninagar, Tripura-799022, India

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

सूर्यमणिनगर

त्रिपुरा (पश्चिम) -799022



वार्षिक लेखा

2023-2024

(1 अप्रैल, 2023 - 31 मार्च, 2024)





त्रिपुरा विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

सूर्यमणिनगर-799022

प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक लेखा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार के द्वारा जारी पत्र क्र. 29-4/2012-आईएफडी, दिनांक 17 अप्रैल, 2015 के अनुसार निर्धारित दिशानिर्देशों का पूरी तरह अनुसरण कर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है।

देबाशीष पाल

(देबाशीष पाल)

वित्त अधिकारी

त्रिपुरा विश्वविद्यालय



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

वार्षिक लेखा 2023-2024

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	I-XX
1	विश्वविद्यालय मुख्य लेखा	
1.1	तुलन पत्र	1-3
1.2	आय एवं व्यय लेखा	5-7
1.3	तुलन पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनुसूचियाँ	9-64
1.4	आय एवं व्यय खाते का अंश निर्मित करने वाली अनुसूचियाँ	65-84
1.5	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	85-92
1.6	अकस्मिक देनदारियाँ एवं लेखा टिप्पणियाँ	93-96
1.7	प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा	97-100
2	भविष्य निधि लेखा	
2.1	तुलन पत्र	103
2.2	आय एवं व्यय लेखा	104
2.3	प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा	105
3	भविष्य निधि लेखा (राज्य अंश)	
3.1	तुलन पत्र	109
3.2	आय एवं व्यय लेखा	110
3.3	प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा	111
4	राष्ट्रीय पेंशन योजना (टायर -I)	
4.1	तुलन पत्र	115
4.2	आय एवं व्यय लेखा	116
4.3	प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा	117
5	दूरस्थ शिक्षा निदेशालय	
5.1	तुलन पत्र	121
5.2	आय एवं व्यय लेखा	122-123
5.3	प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा	124-125
5.4	स्थिर परिसंपत्तियाँ	126
5.5	सावधि जमा का विवरण	127
5.6	अग्रिम का विवरण	128-130





लेखा परीक्षा प्रतिवेदन





SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

एएमजी-II-ए/एसएआर/टीयू/एजीटी/2023-24/251

AMG-II-A/SAR/TU/AGT/2023-24/251

दिनांक/Dated: 09-01-2025

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा का कार्यालय, त्रिपुरा, अगरतला
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT),
TRIPURA, AGARTALA
पिन/PIN-790006 फ़ैक्स/Fax:381-2350158
ईमेल/email : agautripura@cag.gov.in

प्रति,
कुलसचिव,
त्रिपुरा विश्वविद्यालय,
सूर्यमणिनगर, अगरतला
त्रिपुरा पश्चिम
पिन- 799022

विषय : त्रिपुरा विश्वविद्यालय के लिए वर्ष 2023-24 के लेखा पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं वर्ष 2023-24 के लिए त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला के लेखा का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) प्रबंधन पत्र के साथ आपकी अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज रहा हूँ।

परीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण अनुसरित होगा।

धन्यवाद,

भवदीय,
हस्ताक्षरित-

संलग्नक: जैसा कहा गया है।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/एएमजी-II





भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कुलसचिव, त्रिपुरा विश्वविद्यालय सूर्यमणिनगर त्रिपुरा के लेखा के लिए 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

हमने त्रिपुरा विश्वविद्यालय (त्रिविवि), सूर्यमणिनगर का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(कर्तव्य,शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अनुसार 31 मार्च 2024 तक की संलग्न बैलेन्स शीट के लेखा, इस समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियों और देनदारियों के लेखा का परीक्षण किया। ये वित्तीय विवरण त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा के प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ हैं। हमारी जिम्मेदारी तो हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा पद्धति से समरूपता लेखा मानक, और प्रकटन प्रतिमानकों इत्यादि के संबंध में लेखा व्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सी&एजी) की टिप्पणी शामिल है। वित्तीय लेनदेन पर आधारित लेखा परीक्षा प्रेक्षण अधिनियम, नियम एवं विनियम (सम्पत्ति एवं विनियमन) तथा कार्यकुशलता और कार्यनिष्पादन के पहलुओं को, यदि कोई हैं, तो शामिल कर लेखा टिप्पणियाँ अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/सी ए जी लेखा रिपोर्ट में दी गई हैं।

3. हमने अपना लेखा परीक्षण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुसार हम लेखा परीक्षण की योजना बनाकर कार्य करते हैं और उचित आश्वासन लेते हैं कि वित्तीय विवरण में वास्तविक रूप से कोई त्रुटि न हो। लेखा परीक्षा परीक्षण के आधार पर लेखा को साक्ष्यों के सहयोग से वित्तीय विवरणों का प्रकटन किया जाता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा प्रभावी आकलन के साथ ही वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे विचारों को उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर हम प्रतिवेदन देते हैं कि

- i. हमारे लेखा परीक्षा के लिए सभी सूचनायें एवं स्पष्टीकरण जो कि हमारी जानकारी के अनुसार आवश्यक हैं उन्हें प्राप्त कर लिया है।
- ii. इस रिपोर्ट में शामिल बैलेन्स शीट और आय-व्यय लेखा/ प्राप्तियों एवं अदायगियों का विवरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रं. 29-4/1012-FD दिनांक 17 अप्रैल 2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार बनाया गया है।
- iii. हमारे विचार से त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा द्वारा रखी गई लेखा पुस्तिकायें एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों का समुचित रूप से रखरखाव किया गया जिन्हें कि लेखा परीक्षा हेतु हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया।



iv) हम आगे प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं कि :

ए. तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

निधि का अनुप्रयोग

अचल परिसंपत्ति

जारी पूँजीगत कार्य (अनुसूची-4) रु. 80.79 करोड़

ए.1. इसके अंतर्गत मे. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) को “परियोजना कार्य त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला में फेज-II निर्माण(भाग-1)” हेतु भुगतान किया गया 41.08 करोड़ तथा एसीपीएल को परामर्श अधिभार के रूप में दिया गया 3.36 करोड़ रुपये (कुल 44.44 करोड़ रुपये) शामिल है। कार्य 2018 में पूरा हो चुका है और संपत्ति तब से प्रयोग में है तथापि यह कार्य पूँजीगत नहीं किया जा सका है क्योंकि भुगतान का अंतिम बिल अभी भी विलंबित है।

जैसा कि भौतिक परिसंपत्ति का निर्माण पूरा हो चुका है तथा यह वर्ष 2018-19 से प्रयोग में आ रही है। अतः इसे पूँजीगत किया जाना चाहिए एवं इस पर मूल्यहास की भी गणना की जानी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप “टैजिबल परिसंपत्ति” में 44.44 करोड़ का अंडरस्टेटमेंट तथा “चालू पूँजीगत कार्य” में इसी राशि का ओवरस्टेटमेंट है। पूर्ण किये गये कार्य के उप मर्दों के विवरण तथा इन घटकों के प्रयोग में आने की निश्चित तिथि की अनुपलब्धता के कारण इन घटकों के मूल्यहास की गणना नहीं हो पाई जिससे मूल्य हास और पूर्ववर्ती मूल्यहास भी अंडरस्टेटमेंट है।

निधि का अनुप्रयोग

ऋण, अग्रिम एवं जमा(अनुसूची 8)- 40.12 करोड़ रुपये

कर्मचारियों को अग्रिम(गैर ब्याज धारित) (अनुसूची 8 ए)- 1.81 करोड़ रुपये

ए.2 इसके अंतर्गत कर्मचारियों को दिये गये कुल 47.60 लाख रुपये शामिल हैं जो एक एक वर्ष से अधिक समय से गैरसमायोजित रखा हुआ है। यह देखा गया है कि 8.18 लाख अग्रिम जो 25 कर्मचारियों को दिया गया था अभी भी वर्ष के अंत में असमायोजित है जबकि वे या तो सेवानिवृत्त हो चुके या निधन हो चुका है अथवा विश्वविद्यालय छोड़ चुके हैं। इसलिए विश्वविद्यालय 47.60 लाख रुपये के गैर समायोजित अग्रिम की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए साथ ही सेवानिवृत्त हो चुके या निधन हो चुका है अथवा विश्वविद्यालय छोड़ चुके कर्मचारियों से 8.18 लाख रुपये से के वसूली हेतु विशेष ध्यान दें जिनके अग्रिम की वसूली के अवसर बहुत कम हैं।

**तुलन पत्र (बैलेंस शीट)****निधि के स्रोत****वर्तमान देनदारियाँ एवं प्रावधान(अनुसूची-3) 356.13 करोड़ रुपये**

ए.3 इसमें वर्ष 2023-24 के रखे गये विभिन्न व्यय के 0.25 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं। जिसके भुगतान अगले वर्ष किये जाने हैं। जिसके कारण “वर्तमान देनदारियाँ एवं प्रावधान” के अंतर्गत 0.25 करोड़ रुपये का अंडरस्टेटमेंट दर्ज है तथा इसी राशि का अंडरस्टेटमेंट व्यय में भी है।

निधि का अनुप्रयोग**अचल परिसंपत्तियाँ****मूर्त परिसंपत्तियाँ (अनुसूची -4) - 294.82 करोड़ रुपये**

ए.4 इसमें “ट्रांसफॉर्मर”(21.19 लाख रुपये) तथा एक “वाटर प्यूरीफायर” सिस्टम (3.90 लाख) की खरीद एवं वर्ष 2023-24 में पूँजीकरण शामिल है। ट्रांसफॉर्मर “विद्युत संस्थापन एवं उपकरण” की श्रेणी में आता है तथा इसका मूल्यहास दर 5 प्रतिशत है जबकि वाटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम “कार्यालय उपकरण” के अंतर्गत आता है जिसका मूल्यहास दर 7.5 प्रतिशत है। तथा दोनो परिसंपत्तियों के मूल्यहास की गणना विश्वविद्यालय द्वारा 10 प्रतिशत की दर से की गई है। जिसके कारण अचल परिसंपत्ति में 1.16 लाख रुपये का अंडरस्टेटमेंट दर्ज है तथा इसी राशि कॉर्पस/पूँजीगत निधि में मूल्यहास और डेफिसिट में ओवरस्टेटमेंट दर्ज है।

बी. आय एवं व्यय लेखा - शून्य**सी. सामान्य - शून्य****डी. अनुदान सहायता**

वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरण के अनुसार विश्वविद्यालय ने भारत सरकार से अनुदान सहायता के रूप में 11317 लाख रुपये विभिन्न मद में प्राप्त किये हैं। कुल उपलब्ध 11531 लाख रुपये में (आरंभिक अधिशेष 214 लाख) कुल 10397 लाख (जिसमें 104 लाख रुपये का अनुदान शामिल है जिसे भारत सरकार को गैरप्रयुक्त अनुदान के रूप में वापस किया जा चुका है) अनुप्रयुक्त हुए हैं तथा 1134 लाख रुपये बाकी हैं।

ई. प्रबंधन पत्र

ऐसी कमियाँ जो लेखा परीक्षा में समाहित नहीं हैं, उसे पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से आवश्यक सुधार/ आवश्यक कार्रवाई हेतु त्रिपुरा विश्वविद्यालय के संज्ञान में लाया गया है।

5. पूर्व के परिच्छेदों में दिए गए हमारे पर्यवेक्षणों के आधार पर हम प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए यह घोषणा करते हैं कि तुलन पत्र (बैलेंस शीट) तथा आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं अदायगी लेखा जो कि इस प्रतिवेदन से संबंधित हैं, वह लेखा पुस्तिकाओं से मेल रखता है।



6. हमारे विचार से और हमारे सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार दर्शाया गया वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और लेखा टिप्पणियों तथा उपर कहे गये महत्वपूर्ण मुद्दों के विषय और इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुलग्नक में दिये अन्य मुद्दों के साथ पढ़ें जो भारत में समान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप स्पष्ट और सत्य दृष्टिकोष प्रस्तुत करते हैं।

ए. जहां तक त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला की बैलेंस शीट का प्रश्न है तो यह 31 मार्च, 2024 तक के लिए है।

बी. जहां तक आय-व्यय लेखा से संबंधित डेफिसिट का संबंध है, वह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए है।

कृते एवं के द्वारा

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(हस्ताक्षरित)

(रानेन्दु सरकार)

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), त्रिपुरा

दिनांक : 09 जनवरी, 2024

स्थान : अगरतला



संलग्नक

आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली का लेखा परीक्षा मूल्यांकन का सारांश इस प्रकार से है :

1. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

- (i) विश्वविद्यालय ने अपना स्वयं का लेखा मैनुअल नहीं तैयार किया है।
- (ii) विश्वविद्यालय ने अपना स्वयं का आंतरिक नियंत्रण मैनुअल नहीं तैयार किया है।
- (iii) लेखा तैयार करते समय कुछ निश्चित व्यय की देनदारियाँ नहीं विचार की गई हैं।
- (iv) इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 19 निष्क्रिय बैंक खाते उपलब्ध हैं।
- (v) कर्मिकों को दिए गए 47.60 लाख रुपये अग्रिम एक वर्ष से अधिक समय से गैर समायोजित हैं। जिसमें से 8.18 लाख रुपये 25 ऐसे कर्मचारियों के पास लंबित है जिनका या तो निधन हो चुका है या रिटायर्ड हो चुके हैं अथवा विश्वविद्यालय छोड़ चुके हैं।

2. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

- (i) आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल नहीं तैयार किया गया है।
- (ii) जैसा विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया कि वहाँ कोई लेखा-परीक्षा स्कंध नहीं है। वर्ष 2023-24 के दौरान कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

3. अचल परिसंपत्तियों एवं वस्तुसूचियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली

अचल परिसंपत्तियों एवं वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन 10 अप्रैल 2024 को विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गठित समिति द्वारा किया गया। तथापि समिति द्वारा केवल अचल परिसंपत्तियों एवं उपभोज्य सामग्री का विवरण मात्र एकत्र किया गया। समिति गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद रिपोर्ट जमा करने हेतु दिये गये 30 दिन बीतने के बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं जमा की गई है। का यह अनुसूची 7 से यह अधिसूचित है कि वस्तुसूची की गणना नहीं की गई अतः तथ्य नहीं दर्शाये जा गये हैं।

4. विधिक देनदारियों के भुगतान में नियमितता:

विश्वविद्यालय अपनी सभी विधिक देनदारियों के भुगतान में नियमित है।

(हस्ताक्षरित)

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी





SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

एएमजी-II-ए/एसएआर/टीयू/एजीटी/2023-24/253

AMG-II-A/SAR/TU/AGT/2023-24/253

दिनांक/Dated: 09-01-2025

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा का कार्यालय, त्रिपुरा, अगरतला
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT),
TRIPURA, AGARTALA

पिन/PIN-790006 फैक्स/Fax:381-2350158

ईमेल/email : agautripura@cag.gov.in

प्रति,
कुलसचिव,
त्रिपुरा विश्वविद्यालय,
सूर्यमणिनगर, अगरतला
त्रिपुरा, पिन-799022,

विषय: मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला के वार्षिक-लेखा पर प्रबंधन का पत्र।

महोदय,

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला के लेखा के लेखा परीक्षा का प्रमाणन कार्य इस कार्यालय द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षण(कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत लिया गया। इस पत्र के साथ नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अंतिम टिप्पणियों के साथ एक पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की गई है। एसएआर में जारी लेखा परीक्षा टिप्पणियों के अतिरिक्त लेखा परीक्षा ने 02 बिन्दु दर्ज किये हैं जिन पर प्रबंधन के कार्यवाही की जरूरत है ताकि वार्षिक लेखा निर्माण के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन हो सके।

संलग्नक: जैसा ऊपर कहा गया है।

भवदीय,

(हस्ताक्षरित)

वरिष्ठ उप महालेखाकार(एएमजी-II)





प्रबंधन पत्र का संलग्नक

1. 0.32 करोड़ रुपये की राशि का व्यय जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में हुआ है इसे त्रुटिपूर्ण रूप से विभिन्न मदों के विभिन्न व्यय में वर्तमान वर्ष में दर्शाया गया है जबकि इन्हें “पूर्वावधि व्यय” के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। इसके कारण पूर्वावधि व्यय में 32 लाख रुपये का अंडरस्टेटमेंट दर्ज है तथा संबंधित विवरण में 18.10 लाख रुपये की राशि का “एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट शुल्क” मद में, 9.27 लाख रुपये का “रिपेयर एवं मेंटेनेंस” मद में 1.90 लाख रुपये का “टीए/डीए(विशेषज्ञ) व्यय” मद में, 0.54 लाख रुपये का “चिल्ड्रेन एजुकेशन एलाउन्स” मद में, 0.23 लाख रुपये का “चिकित्सा प्रतिपूर्ति” मद में तथा 0.16 लाख रुपये का “अकस्मिक व्यय” मद में “ओवरस्टेटमेंट दर्ज हुआ है।
2. ऋण/अग्रिम एवं जमा (अनसूची -8) मद में 10.89 लाख रुपये की राशि “एडवांस ऑन कैपिटल एकाउन्ट - सिविल वर्क्स” शामिल है। दस्तावेजों की जाँच करने पर लेखा प्रेक्षण में पाया गया कि कुल 46 लाख रुपये की राशि इस मद से “जारी पूँजीगत कार्य” मद में स्थानांतरित किये गये हैं। तथापि प्रेक्षण के अनुसार इसे इस मद में न होकर “एडवांस ऑन कैपिटल एकाउन्ट-सिविल वर्क्स” में होना चाहिए। इसके कारण “एडवांस ऑन कैपिटल एकाउन्ट - सिविल वर्क्स” मद में 0.46 करोड़ रुपये का अंडरस्टेटमेंट दर्ज है तथा इसी राशि का ओवरस्टेटमेंट से “जारी पूँजीगत कार्य” मद में दर्ज है।

(हस्ताक्षरित)

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी





तुलन पत्र





त्रिपुरा विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र

(राशि, रु. में)			
विवरण	अनुसूची संख्या	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
निधि का स्रोत			
कॉर्पस निधि / पूंजीगत निधि	1	989,912,143.61	1,260,205,014.78
नामित (डेजिगनेटेड)/ निर्धारित (अर्माकड) / अक्षय (इंडोमेंट) निधि	2	4,310,958.98	3,710,590.98
चल देयताएं एवं प्रावधान	3	3,561,301,299.42	2,815,978,716.34
कुल		4,555,524,402.01	4,079,894,322.10
निधि-अनुप्रयोग			
अचल परिसंपत्ति	4		
मूर्त परिसंपत्ति		2,066,218,585.15	2,072,640,455.15
अमूर्त परिसंपत्ति		15,945,289.19	12,013,220.19
चालू पूंजीगत कार्य		807,869,371.00	731,940,371.00
अर्माकड/ इंडोमेंट निधि से निवेश	5		
दीर्घ कालिक		1,388,848.85	1,329,562.85
अल्प कालिक		-	-
निवेश - अन्य	6	-	-
चल परिसंपत्ति	7	1,262,937,023.50	925,110,928.73
ऋण / अग्रिम एवं जमा	8	401,165,284.32	336,859,784.18
कुल		4,555,524,402.01	4,079,894,322.10
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	23	-	-
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा टिप्पणी	24	-	-





आय एवं व्यय लेखा





त्रिपुरा विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

31 मार्च, 2023 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि, रु. में)			
विवरण	अनु.सं.	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
आय			
अकादमिक प्राप्ति	9	181,811,283.88	146,019,519.65
अनुदान / सहायिकी	10	904,619,253.00	858,074,930.00
निवेश से आय	11	42,769,095.64	42,448,074.26
अर्जित ब्याज	12	9,194,767.00	5,920,953.00
अन्य आय	13	9,065,967.42	2,562,350.56
पूर्वावधि आय	14	1,479,600.00	-
कुल (ए)		1,148,939,966.94	1,055,025,827.47
व्यय			
कार्मिक-भुगतान एवं लाभ (स्थापना व्यय)	15	1,326,201,665.28	1,625,783,594.00
अकादमिक व्यय	16	36,885,649.00	34,851,897.00
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	17	94,957,329.00	72,325,660.00
परिवहन व्यय	18	2,980,778.00	2,874,771.00
मरम्मत एवं रखरखाव	19	10,806,759.48	22,165,556.00
वित्तीय लागत	20	21,601.35	133,110.74
अन्य व्यय	21	-	-
पूर्वावधि व्यय	22	-	-
मूल्यहास	4	113,923,016.00	116,341,670.00
कुल(बी)		1,585,776,798.11	1,874,476,258.74
व्यय पर आय की अधिकता संबंधी अधिशेष (ए-बी)		-436,836,831.17	-819,450,431.27
नामित निधि को/ से हस्तांतरित			
भवन निधि			
आधिक्य(सरप्लस)/ घाटा (डेफिसिट) के अधिशेष को पूंजीगत निधि में ले लिया गया		-436,836,831.17	-819,450,431.27
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	23		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा टिप्पणी	24		





तुलन पत्र का अंश
निर्मित करने वाली अनुसूचियाँ





त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)
तुलन पत्र का अंश निर्मित करने वाली अनुसूचियाँ
अनुसूची 1- कॉर्पस/पूँजीगत निधि

(राशि, रु. में)		
विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में अधिशेष	1,260,205,014.78	2,013,622,937.43
जोड़ : कॉर्पस/ पूँजीगत निधि में योगदान (दूरस्थ शिक्षा निदेशालय निधि से)	-	-
जोड़ : यूजीसी, भारत सरकार तथा राज्य सरकार से अनुदान, पूँजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त सीमा तक (अनुसूची 10)	124,655,900.00	74,995,772.00
जोड़ : अर्मावड निधि से खरीदी गई परिसंपत्ति (अनुसूची - 2)	-	-
जोड़ : प्रायोजित परियोजनाओं से खरीदी गई परिसंपत्ति जहां स्वामित्व संस्थान में निहित है	44,245,106.00	7,065,132.09
जोड़ : दान की संपत्ति / उपहार प्राप्त	-	-
जोड़ : अन्य योग (नोट- 1)	7,377,200.00	8,223,604.00
जोड़ : अन्य योग (नोट- 2)	119,231.00	298,016.00
जोड़ : अन्य योग (नोट- 3)	10,000.00	911,800.00
जोड़ : अन्य योग (नोट- 4)	2,000.00	73,701.00
घटाव : अन्य कटौतियाँ (नोट-5)	-4,598,132.00	-119,230.75
घटाव : अन्य कटौतियाँ (नोट-6)	-5,466,000.00	-40,000.00
घटाव : अन्य कटौतियाँ (नोट-7)	-111,286.00	-
जोड़ : अन्य योग (नोट- 8)	309,941.00	-
घटाव : अन्य वापसी राशि को कॉर्पस/ पूँजीगत निधि के साथ समायोजित किया गया (नोट-7)	-	-25,376,285.72
घटाव : इंडोमेंट निधि में हस्तांतरित	-	-
जोड़ : व्यय पर आय की अधिकता / (घाटा) आय एवं व्यय लेखा में स्थांतरित	-436,836,831.17	-819,450,431.27
वर्ष के अंत में अधिशेष	989,912,143.61	1,260,205,014.78

टिप्पणी:

1. छात्र से प्राप्त 73,77,200.00 रुपये का विकास शुल्क "अन्य योग" के माध्यम से "कॉर्पस/कैपिटल फंड" में जोड़ा गया है 2. वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान उपकरण शीर्ष के तहत 9,53,847.00 रुपये के कंप्यूटर और सहायक उपकरण गलती से बुक किए गए थे और 7.5% (उपकरण) के बजाय 20% (कंप्यूटर और सहायक उपकरण) पर मूल्यहास लगाया गया था और इसलिए कॉर्पस फंड 1,19,231.00 रुपये से अधिक बताया गया था और इसे इस वर्ष सुधार किया गया था। 3. रु. 10,000.00 की धारित कटौती के साथ बहुत लंबे समय से उसी शेष वर्ष के रूप में आगे बढ़ाया गया है और "कॉर्पस फंड" के साथ समायोजित किया गया है। 4. 2,000.00 रुपये की राज्य निधि से प्राप्ति को बहुत लंबे समय से उसी शेष वर्ष के रूप में आगे बढ़ाया गया है और "कॉर्पस फंड" के साथ समायोजित किया गया है। 5. "अनुसूची-8" में यथा उल्लिखित रु. 45,98,132.00 के "पूँजी खाते पर अग्रिम" को "संचित/पूँजी निधि" के साथ समायोजित किया गया है क्योंकि यह राशि 1 वर्ष से अधिक समय से अग्रिम की गई है। 6. कुल 2,14,21,000.00 रुपये के अनुदान के प्रारंभिक शेष में से 54,66,000.00 रुपये (वित्त वर्ष 2019-2020 से संबंधित निधि) कॉर्पस निधि में तथा 30.10.2023 को 1,04,61,000 रुपये यूजीसी को हस्तांतरित किए गए हैं। 7. "अनुसूची-8" को "त्यौहार अग्रिम" से 1,11,286.00 रुपये कॉर्पस/पूँजी निधि में समायोजित किये गये। 8. वेतन- एसटी / एससी / ओबीसी 2,400 रुपये, वेतन- एलआईसी (एसएएल) 2,62,619 रुपये, वेतन - बैंक- ऋण- रिकवरी- ओटीएच 12,922 रुपये और वेतन- फेस्ट्रकोव (एसओई) 32,000 रुपये "अनुसूची - 3" को वैधानिक देनदारियों (वेतन) के कॉर्पस / कैपिटल फंड के साथ समायोजित किया गया है।



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)
अनुसूची 2 - नामित/उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि

(राशि, रु. में)				
विवरण	निधि वार ब्रेकअप		योग	
	कार्मिक कल्याण निधि	वृत्तिदान निधि	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
ए				
ए) प्रारंभिक अधिशेष	503,878.50	3,206,712.48	3,710,590.98	3,494,090.98
बी) वर्ष के दौरान योग	80,000.00	400,000.00	480,000.00	80,140.00
सी) निधियों के निवेश से आय		77,490.00	77,490.00	83,830.00
डी) निवेश / अग्रिम पर संचित ब्याज			-	-
ई) बचत खाता पर ब्याज	11,524.00	64,848.00	76,372.00	57,530.00
एफ) अन्य योग (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
योग (ए)	595,402.50	3,749,050.48	4,344,452.98	3,715,590.98
बी				
निधि के उद्देश्यों के लिए उपयोगिता/ व्यय				
i) पूंजीगत व्यय	-	-	-	-
ii) राजस्व व्यय		33,494.00	33,494.00	5,000.00
योग (बी)	-	33,494.00	33,494.00	5,000.00
सी				
अनुसूची 3 (ए) को स्थानांतरित एवं प्रायोजित परियोजना के रूप में मान्य	-			
योग (सी)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में समापन अधिशेष (ए-बी-सी)	595,402.50	3,715,556.48	4,310,958.98	3,710,590.98
प्रतिनिधित्व				
नकद एवं बैंक अधिशेष	433,102.50	2,326,707.63	2,759,810.13	2,298,728.13
निवेश	-	1,388,848.85	1,388,848.85	1,060,661.85
स्रोत पर कर कटौती	-	-	-	
ब्याज संचित परन्तु, देय नहीं				12,198.00

टिप्पणी :

कार्मिक कल्याण निधि" के रु. 4,33,102.50 के समापन अधिशेष का एक भाग निम्न बैंक खाते में रखा गया है।

ए) टीयू वेतन खाता (36) खाता सं. (36885772495)

162,300.00

योग रु. में

162,300.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

अनुसूची 2ए-वृत्तिदान निधि

(राशि, रु. में)											
1 क्र.सं.	2 वृत्तिदान निधि का नाम	आरंभिक अधिशेष		वर्ष के दौरान योग		कुल योग		व्यय	समापन अधिशेष		
		3 वृत्तिदान	4 संचयी ब्याज	5 वृत्तिदान	6 संचयी ब्याज	7 वृत्तिदान (3+5)	8 संचयी ब्याज (4+6)	9	10 वृत्तिदान	11 संचयी ब्याज	12 योग (10+11)
1	बी. देब स्मारक पुरस्कार निधि	145,251.00	369,712.04	-	19,911.00	145,251.00	389,623.04	-	145,251.00	389,623.04	534,874.04
2	पी. एल. प्रभा स्मारक शोध फेलो	306,271.00	454,165.02	-	33,021.00	306,271.00	487,186.02	25,000.00	306,271.00	462,186.02	768,457.02
3	निहारकना दत्ता चौधुरी छात्रवृत्ति	476,824.85	1,134,864.57	-	66,889.00	476,824.85	1,201,753.57		476,824.85	1,201,753.57	1,678,578.42
4	टीयू-केन्द्रीय ग्रंथालय मेरिट छात्रवृत्ति	269,287.00	50,337.00	-	8,563.00	269,287.00	58,900.00		269,287.00	58,900.00	328,187.00
5	एस ए मेमोरियल छात्रवृत्ति			400,000.00	13,954.00	400,000.00	13,954.00	8,494.00	400,000.00	5,460.00	405,460.00
	योग	1,197,633.85	2,009,078.63	400,000.00	142,338.00	1,597,633.85	2,151,416.63	33,494.00	1,597,633.85	2,117,922.63	3,715,556.48



त्रिपुरा विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

संलग्नक - ए/1 डेजिग्नेटेड/उद्दिष्ट /वृत्तिदान निधि

विवरण	वर्तमान वर्ष (राशि, रु. में)					
	बी. देब स्मारक पुरस्कार निधि	पी.एल. प्रभा स्मारक शोध फेलो निधि	निहारकना दत्ता चौधुरी छात्रवृत्ति	टीयू-केन्द्रीय ग्रंथालय उत्कृष्टता छात्रवृत्ति	एस ए मेमोरियल छात्रवृत्ति	योग
I. बचत खाते में						
एसबीआई खाता सं. -10333227135 (राज्य अवधि)		446,624.02				446,624.02
एसबीआई खाता सं.- 10333227282 (राज्य अवधि)			1,085,000.57			1,085,000.57
एसबीआई खाता सं.- 10333227486 (राज्य अवधि)	389,623.04					389,623.04
सिराजुद्दीन अहमद ट्रस्ट फंड बैंक खाता नं. 41471530037					405,460.00	405,460.00
योग (ए)	389,623.04	446,624.02	1,085,000.57		405,460.00	2,326,707.63
II. जमा खाते में						-
सावधि निवेश खाता सं.- 30483264095 (राज्य अवधि)	145,251.00					145,251.00
सावधि निवेश खाता सं.- 30483460317 (राज्य अवधि)		49,460.00				49,460.00
सावधि निवेश खाता सं.- 30631094444 (राज्य अवधि)		76,530.00				76,530.00
सावधि निवेश खाता सं.- 30483265033 (राज्य अवधि)			593,577.85			593,577.85
सावधि निवेश खाता सं.- 30633371279 (राज्य अवधि)		195,843.00				195,843.00
सावधि निवेश खाता - 41918281881 (टीयू-केन्द्रीय ग्रंथालय उत्कृष्टता छात्रवृत्ति)				328,187.00		328,187.00
योग (बी)	145,251.00	321,833.00	593,577.85	328,187.00		1,388,848.85
महायोग (ए+बी)	534,874.04	768,457.02	1,678,578.42	328,187.00		3,715,556.48



त्रिपुरा विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

अनुसूची 3- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
ए. वर्तमान देनदारियां		
1. कार्मिकों का जमा	-	-
2. विद्यार्थियों का जमा	3,870,200.00	4,350,600.00
3. विविध लेनदार		
ए) सामग्री एवं सेवा के लिए	6,224,341.00	4,893,642.00
बी) अन्य	15,729,386.66	13,415,616.66
4. जमा - अन्य		
ए) अग्रिम धन		
बी) सुरक्षा जमा राशि	41,330,716.10	42,567,817.10
5. सांविधिक देनदारियां (जीपीएफ टीडीएस डब्ल्यूसी टैक्स-सीपीएफ-जीआईएस-एनपीएस)		
सांविधिक देनदारियां (वेतन)	15,798,425.10	15,991,168.38
समूह बीमा	286,393.00	243,308.00
श्रम अधिभार	725,721.00	416,482.00
वृत्ति कर	294,228.00	68,698.00
सीजीएसटी @1%	27,670.00	
एसजीएसटी @1%	169,586.00	
आईजीएसटी @2%	264,687.00	
ए) अतिदेय		
बी) अन्य		
कर्मचारी भविष्य निधि (टीएसईसीएल)	32,648.00	5,383.00
टीडीएस देय	799,733.00	912,050.00
रोका गया कटौती		10,000.00
अन्य वसूली		
6. अन्य चल देनदारियां		
ए) वेतन	47,339,352.00	36,807,494.00
बकाया वेतन एवं पेंशन	-	-
सुरक्षा प्रहरियों का बकाया वेतन	-	-
सफाई कार्मिकों का बकाया वेतन	59,652,192.92	96,270,331.20
बी) प्रायोजित परियोजना के मद में प्राप्तियां (अनुसूची - 3ए)		



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
सी) प्रायोजित अध्येतावृत्ति एवं छात्रवृत्ति के मद में प्राप्तियां (अनुसूची - 3बी)	1,812,065.64	864,027.00
डी) अप्रयुक्त अनुदान (अनुसूची - 3सी)	113,431,000.00	21,447,000.00
ई) अग्रिम अनुदान	-	-
एफ) अन्य निधि	-	-
जी) अन्य देनदारियां		
एनईसी निर्माण खाते में ब्याज	1,389.00	1,349.00
पीएमएमएमएमएमटीटी खाता में ब्याज - देनदारी	321,713.00	321,713.00
शिक्षकों का बकाया मानदेय		1,345,000.00
प्रो-राटा सेवानिवृत्ति लाभ	39,230,958.00	37,431,016.00
राज्य निधि से प्राप्त		2,000.00
ओवर ड्रान बैंक अधिशेष (आरबीआई खाता)	166,153,412.00	0.00
अग्रिम ट्यूशन शुल्क	7,449,100.00	8,114,025.00
समूह योग (ए)	520,944,917.42	285,478,720.34
बी) प्रावधान		
1. ग्रेच्युटी	202,749,924.00	157,722,931.00
2. सेवानिवृत्ति पेंशन	2,566,553,391.00	2,080,146,771.00
3. संचित अवकाश नकदीकरण	271,053,067.00	292,630,294.00
4. ट्रेड वारंटीज/क्लेम्स	-	-
5. अन्य (उल्लिखित)	-	-
समूह योग (बी)	3,040,356,382.00	2,530,499,996.00
महायोग (ए+बी)	3,561,301,299.42	2,815,978,716.34

टिप्पणी :

1. अप्रयुक्त अनुदान 6(डी) को अगले वर्ष के लिए प्राप्त अनुदान में शामिल किया जाएगा
2. 10,000.00 रुपये की धारित कटौती के साथ बहुत लंबे समय से वर्ष दर वर्ष उसी अधिशेष राशि के रूप में आगे बढ़ाया गया है और "कॉर्पस फंड" के साथ समायोजित किया गया है।
3. राज्य निधि से प्राप्त 2,000.00 रुपये को बहुत लंबे समय से वर्ष दर वर्ष उसी शेष राशि के रूप में आगे बढ़ाया गया है और "कॉर्पस फंड" के साथ समायोजित किया गया है।
4. 74,49,100.00 रुपये की ट्यूशन फीस जो अप्रैल, 24 से जून '24 की अवधि के लिए छात्रों से प्राप्त की गई थी, उसे देनदारी के रूप में मान्यता दी गई है।



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)
अनुसूची 3(ए) प्रायोजित परियोजनाएं

(राशि रु. में)

1 क्र.सं.	2 परियोजना का नाम	प्रारंभिक अधिशेष		5 प्राप्तियां / वसूली	6 योग	7 वर्ष के दौरान व्यय	समापन अधिशेष	
		3. क्रेडिट	4. डेबिट				8. क्रेडिट	9. डेबिट
1	एआरएफआई परियोजना	3,820,272.00	-	2,081,931.00	5,902,203.00	4,097,666.72	1,804,536.28	-
2	सीएसआईआर (डॉ. एस. एस. सिंह)	64,784.00	-	-	64,784.00	-	64,784.00	-
3	सीएसआईआर परियोजना (प्रताप चंद्र आचार्या)	158,751.00	-	-	158,751.00	80,862.00	77,889.00	-
4	सीएसआईआर परियोजना (सुरोचिता बसु)	80,371.84	-	40,354.00	120,725.84	-	120,725.84	-
5	सीएसआईआर परियोजना-II (एस एस सिंह)	246,218.00	-	-	246,218.00	59,471.00	186,747.00	-
6	डीबीटी जैवसूचना परियोजना	568,751.00	-	26,389.00	595,140.00	-	595,140.00	-
7	डीबीटी बायोटेक बीकेडी	272,257.00	-	10,958.00	283,215.00	130,546.00	152,669.00	-
8	डीबीटी नेटवर्क (बीकेडी)	761,597.00	-	10,979.00	772,576.00	70,569.00	702,007.00	-
9	डीबीटी ओमपोक (पब्दा) परियोजना	4,333.00	-	259	4,592.00	-	4,592.00	-
10	डीबीटी ऑर्चिड बायोरिसोर्स परियोजना	279,613.00	-	-	279,613.00	24,987.00	254,626.00	-
11	डीबीटी पब्दा (सुकांत बनिक)	546,453.00	-	-	546,453.00	-	546,453.00	-
12	डीबीटी परियोजना (प्रो. आर. के. सिन्हा)	1,015,630.00	-	7,734.00	1,023,364.00	-	1,023,364.00	-
13	डीबीटी परियोजना(एनई/323)- शाओन राय चौधुरी	31,984.00	-	-	31,984.00	-	31,984.00	-
14	डीबीटी ट्विनिंग - एस. सिन्हा	34,941.00	-	11,497.00	46,438.00	-	46,438.00	-
15	डीबीटी ट्विनिंग (एंटि ल्यूकेमिया) - बी. के. दत्ता	48,908.00	-	-	48,908.00	39,970.00	8,938.00	-
16	डीबीटी ट्विनिंग (II) - एस सिन्हा	714.00	-	754	1,468.00	-	1,468.00	-
17	डीबीटी ट्विनिंग एमकेबी	194,940.00	-	297	195,237.00	-	195,237.00	-
18	डीबीटी ट्विनिंग परियोजना (II) - एस. सिन्हा	2,463.00	-	2,536.00	4,999.00	-	4,999.00	-
19	डीबीटी ट्विनिंग परियोजना (मॉल्ड स्पोर) - ए के साहा	-	-	1,651.00	1,651.00	-	1,651.00	-
20	डीबीटी ट्विनिंग परियोजना (मशरूम) - ए. के. साहा	151,411.00	-	594	152,005.00	20,428.00	131,577.00	-
21	डीबीटी ट्विनिंग एसबी (एमबीबी) परियोजना	354.00	-	364	718.00	-	718.00	-
22	डीबीटी ट्विनिंग यूसीडी	1,884,767.00	-	410	1,885,177.00	-	1,885,177.00	-



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

1 क्र.सं.	2 परियोजना का नाम	प्रारंभिक अधिशेष		5 प्राप्तियां / वसूली	6 योग	7 वर्ष के दौरान व्यय	समापन अधिशेष	
		3. क्रेडिट	4. डेबिट				8. क्रेडिट	9. डेबिट
23	डीबीटी ट्विनिंग-एसकेएस(I)	1,072,164.00	-	-	1,072,164.00	-	1,072,164.00	-
24	डीबीटी ट्विनिंग-एसकेएस(II)	86,721.00	-	525	87,246.00	-	87,246.00	-
25	डीबीटी वीआरपी परियोजना (देबाशीष भट्टाचारजी)	956,704.00	-	-	956,704.00	-	956,704.00	-
26	डीबीटी-ट्विनिंग-डी मैती	262,330.10	-	-	262,330.10	-	262,330.10	-
27	डेयटी परियोजना (ए मजूमदार)	136,136.00	-	42.16	136,178.16	-	136,178.16	-
28	डेयटी परियोजना (डॉ. एम. के. भौमिक)	138,870.00	-	-	138,870.00	-	138,870.00	-
29	डीएसटी चिताला परियोजना	196.00	-	18	214.00	-	214.00	-
30	डीएसटी फास्ट ट्रैक (कुंतल मन्ना)	181,637.00	-	-	181,637.00	-	181,637.00	-
31	डीएसटी फिस्ट वनस्पतिशास्त्र	168,664.28	-	1,504.00	170,168.28	-	170,168.28	-
32	डीएसटी फिस्ट रसायनशास्त्र	119,989.20	-	144	120,133.20	-	120,133.20	-
33	डीएसटी फिस्ट प्राणीशास्त्र	35,763.00	-	4	35,767.00	-	35,767.00	-
34	डीएसटी इंस्पायर (एफएपी)- जीजी खान	8,481.00	-	5,910.00	14,391.00	-	14,391.00	-
35	डीएसटी इंस्पायर (कार्यक्रम)	201,200.00	-	-	201,200.00	-	201,200.00	-
36	डीएसटी परियोजना (आलोक प्रसाद दास)	173,344.70	-	5,792.00	179,136.70	51,183.00	127,953.70	-
37	डीएसटी परियोजना (सर्ब) -एसबी (एमबीबी)	2,093,832.00	-	-	2,093,832.00	-	2,093,832.00	-
38	डीएसटी परियोजना (सौरभ देब)	34,171.00	-	-	34,171.00	30,596.00	3,575.00	-
39	डीएसटी परियोजना (सुकांत बनिक्)	508,734.00	-	-	508,734.00	-	508,734.00	-
40	डीएसटी परियोजना (स्वपन मजूमदार)	376,946.00	-	-	376,946.00	-	376,946.00	-
41	डीएसटी परियोजना-II (एसए हुसैन)	251,105.00	-	16	251,121.00	168,000.00	83,121.00	-
42	डीएसटी सर्ब (जगदीश राय)	2,299,214.00	-	-	2,299,214.00	-	2,299,214.00	-
43	डीएसटी सर्ब परियोजना (गोविन्द गोपाल खान)	27,587.85	-	-	27,587.85	-	27,587.85	-
44	डीएसटी सर्ब परियोजना (के. मन्ना)	206,620.00	-	120	206,740.00	84,864.00	121,876.00	-
45	गांधी स्मृति	743,938.00	-	-	743,938.00	-	743,938.00	-



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

1 क्र.सं.	2 परियोजना का नाम	प्रारंभिक अधिशेष		5 प्राप्तियां / वसूली	6 योग	7 वर्ष के दौरान व्यय	समापन अधिशेष	
		3. क्रेडिट	4. डेबिट				8. क्रेडिट	9. डेबिट
46	आईसीएचआर (राजेश भौमिक)	29,375.00	-	-	29,375.00	-	29,375.00	-
47	आईसीएमआर परियोजना (II) - एसबी(एमबीबी)	1,937.00	-	638	2,575.00	-	2,575.00	-
48	आईसीएमआर परियोजना (एस. बसाक)	856,089.00	-	485	856,574.00	-	856,574.00	-
49	आईसीएमआर परियोजना-I (एसबी-एमबीबी)	590.00	-	0.00	590.00	-	590.00	-
50	आईसीएमआर-II (दीपायन चौधुरी)	317.00	-	326	643.00	-	643.00	-
51	आईसीएसएसआर (राजेश भौमिक)	79,993.00	-	-	79,993.00	-	79,993.00	-
52	आईसीएसएसआर परियोजना (डॉ. ननी गोपाल देबनाथ)	7,293.00	-	-	7,293.00	-	7,293.00	-
53	आईसीएसएसआर परियोजना (डॉ. राजेश चटर्जी)	60,000.00	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
54	आईसीएसएसआर परियोजना (खालसोन्किम सुआंतक)	15,250.00	-	-	15,250.00	-	15,250.00	-
55	आईसीएसएसआर परियोजना (एल. रियांग)	190,569.00	-	182,513.00	373,082.00	88,268.00	284,814.00	-
56	आईसीएसएसआर परियोजना (मनीष दास)	45,960.00	-	-	45,960.00	-	45,960.00	-
57	एमओईएस (जिम्मी देबबर्मा)	7,530,856.00	-	-	7,530,856.00	-	7,530,856.00	-
58	एमओईएस-II (जिम्मी देबबर्मा)	62,672.00	-	5,571.00	68,243.00	-	68,243.00	-
59	मोम-एओ परियोजना	371,026.28	-	-	371,026.28	-	371,026.28	-
60	एमआरसी/एमसीसी	23,562.50	-	1,209.00	24,771.50	-	24,771.50	-
61	एनआईएफ (बी के दत्ता)	2,273.00	-	-	2,273.00	-	2,273.00	-
62	एनएमएस परियोजना - सौरभ देब	149,480.68	-	7,931.00	157,411.68	-	157,411.68	-
63	अन्य परियोजना (प्रायोजित)	8,179,793.64	-	691,387.00	8,871,180.64	7,104,242.00	1,766,938.64	-
64	सामाजिक अपवर्जन एवं समावेशी नीति	524,303.00	-	-	524,303.00	-	524,303.00	-
65	एसएसए - डॉ. अरबिन्दो महतो	6,250.00	-	-	6,250.00	-	6,250.00	-
66	एसएसए- डॉ. आशीष नाथ	112,069.00	-	-	112,069.00	-	112,069.00	-
67	एसटी/एससी/ओबीसी/मेरिट, वजीफा आदि	661,533.00	-	-	661,533.00	-	661,533.00	-
68	टेक्सटाइल डिजाइन एवं हैंडिक्राफ्ट्स	44,958.00	-	-	44,958.00	-	44,958.00	-



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

1 क्र.सं.	2 परियोजना का नाम	प्रारंभिक अधिशेष		5 प्राप्तियां / वसूली	6 योग	7 वर्ष के दौरान व्यय	समापन अधिशेष	
		3. क्रेडिट	4. डेबिट				8. क्रेडिट	9. डेबिट
69	ट्राइबल वेलफेयर परियोजना (ननीगोपाल देबनाथ)	97,676.00	-	-	97,676.00	29,000.00	68,676.00	-
70	त्रिपुरा बायोडायवर्सिटी परियोजना (कौशिक मजूमदार)			400.00	400.00		400.00	
71	टीयू-डीबीटी-बायोटेक	34,856.00			34,856.00		34,856.00	
72	यूजीसी डीएई सीएसआर (शाओन राय चौधुरी)	159,504.00	-	-	159,504.00	-	159,504.00	-
73	यूजीसी डीआरएस बीएसआर बनस्पतिशास्त्र	-	-	112	112.00		112.00	-
74	यूजीसी परियोजना - अभिषेक दास	435,371.00	-	12,122.00	447,493.00	-	447,493.00	-
75	यूजीसी परियोजना (पुरनेन्दु दास)	130,000.00	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
76	यूजीसी परियोजना (राजीव दुबे)	964.00	-	502	1,466.00	-	1,466.00	-
77	यूजीसी परियोजना (एस एस सिंह)	38,108.00	-		38,108.00		38,108.00	-
78	यूजीसी परियोजना (सुब्रत भौमिक)	997.00	-	-	997.00	-	997.00	-
79	यूजीसी परियोजना (सुदिप्ता पाल)	5,473.00	-	-	5,473.00	-	5,473.00	-
80	यूजीसी परियोजना (वीके मिश्र)	36,806.00	-	-	36,806.00	-	36,806.00	-
81	यूजीसी सैप बनस्पतिशास्त्र	247.00	-	24	271.00	-	271.00	-
82	यूजीसी सैप अर्थशास्त्र	-	-	3,724.00	3,724.00		3,724.00	
83	यूजीसी स्टार्ट अप ग्रांट (डॉ. सौरभ देब)	91,042.00	-	204	91,246.00	-	91,246.00	-
84	यूजीसी स्टार्ट अप ग्रांट (डॉ. बिमल देबनाथ)	154,443.00	-	-	154,443.00	-	154,443.00	-
85	यूजीसी स्टार्टअप परियोजना (डॉ. के. मन्ना)	37,809.00		38,925.00	76,734.00	-	76,734.00	
86	यूजीसी स्टार्टअप परियोजना (प्रताप चंद्र आचार्या)	1,113.00	-	-	1,113.00	-	1,113.00	-
87	वीसीपी परियोजना	16,050.00	-	-	16,050.00	-	16,050.00	-
88	वीसीपी परियोजना (II)	6,160.00	-	1,553.00	7,713.00	-	7,713.00	-
89	महिला अध्ययन केन्द्र	-	-431,927.50	692,561.00	260,633.50	690,786.00		-430,152.50
90	आईईआरपी परियोजना (पीके राउत)	612.00	-	-	612.00	0.00	612.00	
91	आईईआरपी (सब्यसाची दासगुप्ता)	15,725.64	-		15,725.64		15,725.64	-



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

1 क्र.सं.	2 परियोजना का नाम	प्रारंभिक अधिशेष		5 प्राप्तियां / वसूली	6 योग	7 वर्ष के दौरान व्यय	समापन अधिशेष	
		3. क्रेडिट	4. डेबिट				8. क्रेडिट	9. डेबिट
92	आईईआरपी परियोजना (बीके दत्ता)	198,866.64	-	5.00	198,871.64	0.00	198,871.64	-
93	डीआरडीओ परियोजना	8,252.00	-	51,771.00	60,023.00	28,000.00	32,023.00	-
94	5% सैंपल चेकिंग, यूडाइस (टिंकू दे)	9,260.00	-	-	9,260.00	-	9,260.00	-
95	राज्य वित्त का मूल्यांकन	265,500.00	-	-	265,500.00	-	265,500.00	-
96	डीबीटी बायोरिसोर्स सस्टेनेबल परियोजना (बी के दत्ता)	410,674.00	-	-	410,674.00	199,950.00	210,724.00	-
97	एनएमएचएस परियोजना (अजय कृष्ण साहा)	16,672.64	-	-	16,672.64	9,060.00	7,612.64	-
98	डीबीटी परियोजना - बीपीएमसी (सुराजीत भट्टाचार्य)	2,418,962.00	-	-	2,418,962.00	-	2,418,962.00	-
99	डीबीटी परियोजना (केला)- आर के सिन्हा	1,188,071.00	-	-	1,188,071.00	350,640.00	837,431.00	-
100	डीबीटी ट्विनिंग परियोजना (320) बी के दत्ता	1,555,775.00	-	9,660.00	1,565,435.00	-	1,565,435.00	-
101	डीएसटी सर्व (नोबल मेटल) (रतन दास)	-	-	761,237.00	761,237.00	-	761,237.00	-
102	डीएसटी सर्व (स्पिनेल फेराइट) (रतन दास)	384,766.30	-	-	384,766.30	-	384,766.30	-
103	डीबीटी ट्विनिंग - शाओन राय चौधुरी	693,701.00	-	-	693,701.00	-	693,701.00	-
104	आईएसएफ-यूजीसी अनिर्बाण गुहा	989.00	-	-	989.00	-	989.00	-
105	आईसीएसएसआर परियोजना (सिप्रा रॉय)	92,599.00	-	0.00	92,599.00	52,500.00	40,099.00	-
106	यूजीसी डीई सीएसआर (रतन दास)	24,970.00	-	-	24,970.00	-	24,970.00	-
107	यूजीसी सैप फिजिक्स	192,923.00	-	-	192,923.00	38,039.00	154,884.00	-
108	डीबीटी ट्विनिंग एसकेएस (373)	805,180.30	-	3,839.00	809,019.30	-	809,019.30	-
109	यूजीसी सैप इकोनॉमिक्स - डीआरएस II	988,889.00	-	-	988,889.00	378,818.00	610,071.00	-
110	एनएमएचएस परियोजना (सचिन भालाधरे)	-	-	5,632.00	5,632.00	-	5,632.00	-
111	डीबीटी ट्विनिंग परियोजना (पीसी आराचार्या)	877,966.00	-	-	877,966.00	21,257.00	856,709.00	-
112	एआईसीटीई परियोजना (रजत घोष)	81,034.84	-	-	81,034.84	35,601.00	45,433.84	-
113	आईयूसी-यूएफआर परियोजना (रतन दास)	67,097.00	-	-	67,097.00	67,097.00	-	-
114	डीएसटी परियोजना (एस. मित्रा)	49,661.00	-	-	49,661.00	35,868.00	13,793.00	-



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

1 क्र.सं.	2 परियोजना का नाम	प्रारंभिक अधिशेष		5 प्राप्तियां / वसूली	6 योग	7 वर्ष के दौरान व्यय	समापन अधिशेष	
		3.	4.				8.	9.
115	डीबीटी परियोजना (इंडोफाइट)- ए के साहा	790,880.00	-	-	790,880.00	270,983.00	519,897.00	-
116	जनजाति-कल्याण परियोजना (एस दास) अर्थशास्त्र	-	-	165,000.00	165,000.00	39,200.00	125,800.00	-
117	डीबीटी ट्विनिंग परियोजना (विश्व भारती)	231,315.00	-	1,080,403.00	1,311,718.00	1,014,083.00	297,635.00	-
118	डीबीटी ट्विनिंग परियोजना (एंटिडायबेटोजेनिक)- यूसीडी	504,148.00	-	-	504,148.00	-	504,148.00	-
119	एनएमएचएस परियोजना (जल अभ्यारण्य - ढलाई)	35,451.00	-	-	35,451.00	-	35,451.00	-
120	यूजीसी बीएसआर (आशुतोष कुमार)	3.00	-	-	3.00	-	3.00	-
121	डीबीटी परियोजना (एस. मित्रा)	388,076.00	-	-	388,076.00	4,326.00	383,750.00	-
122	डीएसटी परियोजना(एनएमएस)- ए चौव्हाण	8,604.00	-	-	8,604.00	-	8,604.00	-
123	टीडब्ल्यूडी परियोजना (जहर देबबर्मा)	1,500.00	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
124	आईसीएसएसआर परियोजना (सुबीर सेन)	142,663.00	-	-	142,663.00	-	142,663.00	-
125	आईसीएसएसआर परियोजना-II (सप्तर्षि मित्रा)	40,761.00	-	-	40,761.00	-	40,761.00	-
126	डीएसटी स्लाइस परियोजना (सौरभ देब)-412	120,352.00	-	1,357,080.00	1,477,432.00	1,021,997.00	455,435.00	-
127	टेक्सटाइल डिजाइन (II)-416	95,600.00	-	-	95,600.00	-	95,600.00	-
128	415 - एनएमएचएस परियोजना (एनएमएसएचई)	1,008,961.00	-	872,820.00	1,881,781.00	1,816,310.00	65,471.00	-
129	लोकनीति सीएसडीएस	9,793.00	-	-	9,793.00	-	9,793.00	-
130	आईसीएसएसआर इंप्रेस परियोजना (ए. महतो)	481,915.00	-	100,341.00	582,256.00	-	582,256.00	-
131	आईसीएमआर परियोजना-ए चौव्हाण (419)	909,221.28	-	11,460.00	920,681.28	-	920,681.28	-
132	आईसीएमआर परियोजना-पीसी आचार्या (420)	177,977.36	-	-	177,977.36	41,283.00	136,694.36	-
133	नीति आयोग परियोजना	15,194.00	-	-	15,194.00	-	15,194.00	-
134	एआईसीटीई परियोजना (पीसी आचार्या)	6,479.00	-	-	6,479.00	-	6,479.00	-
135	424 - जिका परियोजना - बीके दत्ता	-	-	664,503.00	664,503.00	644,172.00	20,331.00	-
136	डीबीटी सहज परियोजना	32,802,776.07	-	7,301,576.00	40,104,352.07	40,077,516.00	26,836.07	-
137	एआईसीटीई परियोजना (अभिषेक मजूमदार)-422	27,181.00	-	-	27,181.00	14,019.00	13,162.00	-



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

1 क्र.सं.	2 परियोजना का नाम	प्रारंभिक अधिशेष		5 प्राप्तियां / वसूली	6 योग	7 वर्ष के दौरान व्यय	समापन अधिशेष	
		3. क्रेडिट	4. डेबिट				8. क्रेडिट	9. डेबिट
138	टीयू व्यवसाय संपोषण	650,272.56	-	209,219.00	859,491.56	448,034.00	411,457.56	-
139	सर्व परियोजना (428)- एसए हुसैन	64,543.00	-	700,000.00	764,543.00	612,335.72	152,207.28	-
140	सर्व परियोजना (429)- ए चौव्हाण	467,948.00	-		467,948.00	467,832.00	116.00	-
141	डीबीटी परियोजना-430 (एम के भौमिक)	397,495.00	-	1,032,120.00	1,429,615.00	662,384.00	767,231.00	-
142	सर्व परियोजना (431)- पीके रूपा	2,521,137.00	-	521,101.00	3,042,238.00	2,494,736.00	547,502.00	-
143	डीबीटी परियोजना- पन्ना दास (432)	550,180.00	-	77,751.00	627,931.00	583,779.00	44,152.00	-
144	एआईसीटीई मॉडरॉब परियोजना (433)	90,800.00	-	-	90,800.00	88,907.00	1,893.00	-
145	यूजीसी डीई सीएसआर(434)-जीजी खान	75,688.00	-	290,368.00	366,056.00	91,280.00	274,776.00	-
146	एचकेएन परियोजना (एनएमएचएस)	422,000.00	-		422,000.00	106,359.00	315,641.00	
147	रुद्रसागर परियोजना (440)	36,000.00	-	84,000.00	120,000.00	100,000.00	20,000.00	
148	रुद्रसागर परियोजना (439)	148,500.00	-	346,500.00	495,000.00	425,060.00	69,940.00	
149	सामाजिक कल्याण एवं शिक्षा (441)- अंजना भट्टाचार्यी	733,300.00	-		733,300.00	560,437.00	172,863.00	
150	डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केन्द्र योजना	1,940,767.00	-	1,872.00	1,942,639.00	1,942,639.00	-	
151	एनजीआईएन (नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन नेटवर्क) स्कीम			2,017,653.00	2,017,653.00	1,003,413.00	1,014,240.00	
152	445-आईसीएसएसआर परियोजना- एम अंजली गायन			235,184.00	235,184.00	168,365.00	66,819.00	
153	447-आईसीएसएसआर परियोजना- कुकी चिन के. सुआंतक			500,000.00	500,000.00	158,133.00	341,867.00	
154	446-आईसीएमआर परियोजना -एमकेबी			405,480.00	405,480.00	81,750.00	323,730.00	
155	454-एनसीडबल्यू परियोजना- प्रशांत कुमार दास			610,500.00	610,500.00	110,490.00	500,010.00	
156	455 - आईयूएसी परियोजना- एसआरसी			190,833.00	190,833.00	156,834.00	33,999.00	
157	442- आरडी टीआरएलएम परियोजना			397,200.00	397,200.00	330,984.00	66,216.00	
158	459- यूजीसी डीई सीएसआर (एस.ए. हुसैन)			228,120.00	228,120.00	57,986.00	170,134.00	



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

1 क्र.सं.	2 परियोजना का नाम	प्रारंभिक अधिशेष		5 प्राप्तियां / वसूली	6 योग	7 वर्ष के दौरान व्यय	समापन अधिशेष	
		3.	4.				8.	9.
159	एनएच एम परियोजना-453 (जे चौधुरी)			200,000.00	200,000.00		200,000.00	
160	457 - सीएसआईआर परियोजना (एस.एस हुसैन)			391,666.00	391,666.00	169,656.00	222,010.00	
161	456 - आईसीएसएसआर परियोजना (एशिता बोराल)			375,000.00	375,000.00	240,000.00	135,000.00	
162	460 - डीएसटी डबल्यूटीसी परियोजना (एसआरसी)			966,359.00	966,359.00	775,163.00	191,196.00	
163	461 - एसईआरबी -परियोजना- एस. मजुमदार, आईटी			1,178,900.00	1,178,900.00	29,603.00	1,149,297.00	
164	462 - तृष्णा वाइल्डलाइफ परियोजना- एस. दासगुप्ता			400,000.00	400,000.00		400,000.00	
165	458 - चन्द्रयान -II एओ परियोजना (ए. गुहा)			360,089.00	360,089.00	249,152.00	110,937.00	
166	463 - आईसीपीआर परियोजना (के एस सुमन)			360,000.00	360,000.00		360,000.00	
167	470 - यूजीसी डीई परियोजना परियोजना (बी. के. शर्मा)			228,120.00	228,120.00		228,120.00	
168	471 - सीएसएस डीडब्ल्यूएच परियोजना (एस. दासगुप्ता)			340,000.00	340,000.00		340,000.00	
169	464 - आईबीआईटीएफ परियोजना (अभिषेक मजुमदार)			5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	
170	465 - यूजीसी डीई सीएसआर (एस. भालाधरे)			45,000.00	45,000.00		45,000.00	
	योग	96,702,258.70	-431,927.50	34,429,331.16	130,699,662.36	71,047,469.44	60,082,345.42	-430,152.50



त्रिपुरा विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

अनुसूची 3(बी) प्रायोजित फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति

(राशि रु. में)

1 क्र.सं.	2 प्रायोजक का नाम	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष		वर्ष के दौरान लेन-देन		दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष	
		3 क्रेडिट	4 डेबिट	4 क्रेडिट	5 डेबिट	6 क्रेडिट	7 डेबिट
1	डीएसटी इन्स्पायर फेलोशिप (बंदना दास)	979.00	-	-	-	979.00	-
2	डीएसटी इन्स्पायर फेलोशिप (दीपान्विता बनिक)	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
3	डीएसटी महिला वैज्ञानिक (बिजयश्री मिश्रा)	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
4	आरटीएफ-डीसीएस फेलोशिप	139,033.00	-	-	-	139,033.00	-
5	डीएसटी डब्ल्यूओएस-ए लवली रहमान	-	-	810	-	810.00	-
6	आसीएसएसआर इन्स्पायर (लिपिका रॉय)	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-
7	यूजीसी इन्स्पायर फेलोशिप (पिंकी साहा)	-	-	72	-	72.00	-
8	डीएसटी इन्स्पायर फेलोशिप (सायंतिका चन्द्रा)	260,050.00	-	-	-	260,050.00	-
9	आईसीएसएसआर पोस्ट डॉक फेलो(रेबेका देबबर्मा)	-	-	198,500.00	198,500.00	-	-
10	सीएसआईआर आरए (मनीष देबबर्मा)	65.00	-	-	-	65.00	-
11	आईसीएसएसआरइन्स्पायर फेलोशिप (चन्द्रा साहा रॉय)	-	-	240,000.00	240,000.00	-	-
12	आईसीएसएसआरइन्स्पायर फेलोशिप (वकार अहमद)	-	-	240,000.00	240,000.00	-	-
13	डीएसटी इन्स्पायर फेलो (तमन्ना अख्तर)	8,900.00	-	527,940.00	495,858.00	40,982.00	-
14	डीएसटी इन्स्पायर फेलो (पूजा दास, सीएसई)-437	-	-	425,480.00	338,110.00	87,370.00	-
15	आईसीएसएसआरइन्स्पायर फेलो (कोमल)/443	130,000.00	-	275,000.00	260,000.00	145,000.00	-
16	आईसीएसएसआरइन्स्पायर फेलो (सोफिया)/449	130,000.00	-	260,000.00	260,000.00	130,000.00	-
17	438 - डीएसटी इन्स्पायर फेलो (पूजा दास सीएसई)	-	-	976,746.00	718,739.00	258,007.00	-
18	450-डीएसटी इन्स्पायर फेलो (काकाली सरकार)	-	-	123,187.00	101,370.00	21,817.00	-
19	451-डीएसटी इन्स्पायर फेलो (अनुभूति कश्यप)	-	-	796,870.64	378,990.00	417,880.64	-
20	आईसीएमआर डीएसटी इन्स्पायर फेलो (पार्थ साहा)	-	-	477,800.00	477,800.00	-	-
21	467 - आईसीएसएसआर इन्स्पायर फेलो (मानव कुमार चकमा)	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
	योग	864,027.00	-	4,672,405.64	3,724,367.00	1,812,065.64	-



त्रिपुरा विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

अनुसूची 3 (सी) यूजीसी, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त गैरप्रयुक्त अनुदान

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
ए. योजना अनुदान : भारत सरकार		
अधिशेष बी/एफ	-	
जोड़ : वर्ष के दौरान प्राप्तियां		
योग (ए)	-	-
घटाव : वापसी		
घटाव : राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त		
घटाव : पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त		
योग (बी)	-	-
गैर प्रयुक्त एग्रेषित किया गया (ए-बी)	-	-
बी. यूजीसी अनुदान : योजना/ पूंजीगत परिसंपत्ति/ विशिष्ट योजना		
अधिशेष बी/एफ	21,447,000.00	65,023,714.28
जोड़ : वर्ष के दौरान प्राप्तियां	227,100,900.00	75,021,772.00
योग (सी)	248,547,900.00	140,045,486.28
घटाव : वापसी	10,461,000.00	43,602,714.28
घटाव : राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	-	-
घटाव : पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	124,655,900.00	74,995,772.00
योग (डी)	135,116,900.00	118,598,486.28
प्रयुक्त अग्रेनीत किया गया (सी - डी)	113,431,000.00	21,447,000.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
सी.यूजीसी अनुदान : गैर योजना/ वेतन/ आवर्ती		
अधिशेष बी/एफ	-	-
जोड़ : वर्ष के दौरान प्राप्तियां	904,619,253.00	858,074,930.00
योग (ई)	904,619,253.00	858,074,930.00
घटाव : वापसी		
घटाव : राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	904,619,253.00	858,074,930.00
घटाव : पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	-	-
योग (एफ)	904,619,253.00	858,074,930.00
प्रयुक्त अग्रेनीत किया गया (ई - एफ)	-	-
डी. राज्य सरकार से अनुदान		
अधिशेष बी/एफ	-	-
जोड़ : वर्ष के दौरान प्राप्तियां		
कुल (जी)	-	-
घटाव : वापसी		
घटाव : राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त		
घटाव : पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त		
योग (एच)	-	-
प्रयुक्त अग्रेनीत किया गया (जी - एच)	-	-
महायोग (ए+बी+सी+डी)	113,431,000.00	21,447,000.00

टिप्पणी :

1. गैर प्रयुक्त अनुदान में पूंजीगत लेखा का अग्रिम शामिल है।
2. गैर प्रयुक्त अनुदान में अगले वर्ष के लिए प्राप्त अग्रिम अनुदान शामिल है।
3. गैर प्रयुक्त अनुदान बैंक बैलेंस का एसेट साइड, बैंकों में लघु अवधि जमा एवं पूंजीगत लेखा पर अग्रिम भी दर्शाता है।



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)
अनुसूची 4 - अचल परिसंपत्ति

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रांस ब्लॉक				मूल्यहास				नेट ब्लॉक		
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023-24)	घटाव (2023- 2024)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्यहास का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास योग	वर्ष (2023-24) के लिए मूल्यहास	घटाव/ समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक का कुल मूल्यहास योग (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2023 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
प्रत्यक्ष परिसंपत्ति											
एसी मशीन	123,156.00	-	-	123,156.00	7.50	123,155.00	-	-	123,155.00	1.00	1.00
अकादमिक भवन- II (राज्य अवधि)	35,595,000.00	-	-	35,595,000.00	2.00	4,983,300.00	711,900.00	-	5,695,200.00	29,899,800.00	30,611,700.00
अकादमिक भवन- III (राज्य अवधि)	14,160,000.00	-	-	14,160,000.00	2.00	1,982,400.00	283,200.00	-	2,265,600.00	11,894,400.00	12,177,600.00
अकादमिक भवन- IV (राज्य अवधि)	12,317,000.00	-	-	12,317,000.00	2.00	1,724,380.00	246,340.00	-	1,970,720.00	10,346,280.00	10,592,620.00
अकादमिक भवन- VII (राज्य अवधि)	27,503,000.00	-	-	27,503,000.00	2.00	3,850,420.00	550,060.00	-	4,400,480.00	23,102,520.00	23,652,580.00
अकादमिक भवन- VIII (राज्य अवधि)	18,332,000.00	-	-	18,332,000.00	2.00	2,566,480.00	366,640.00	-	2,933,120.00	15,398,880.00	15,765,520.00
अकादमिक भवन- X (राज्य अवधि)	27,144,000.00	-	-	27,144,000.00	2.00	3,800,160.00	542,880.00	-	4,343,040.00	22,800,960.00	23,343,840.00
अकादमिक भवन- I (राज्य अवधि)	35,595,000.00	-	-	35,595,000.00	2.00	4,983,300.00	711,900.00	-	5,695,200.00	29,899,800.00	30,611,700.00
अकादमिक भवन- IX (राज्य अवधि)	13,850,000.00	-	-	13,850,000.00	2.00	1,939,000.00	277,000.00	-	2,216,000.00	11,634,000.00	11,911,000.00
अकादमिक भवन- V (राज्य अवधि)	44,890,000.00	-	-	44,890,000.00	2.00	6,284,600.00	897,800.00	-	7,182,400.00	37,707,600.00	38,605,400.00
अकादमिक भवन- VI (राज्य अवधि)	23,808,000.00	-	-	23,808,000.00	2.00	3,333,120.00	476,160.00	-	3,809,280.00	19,998,720.00	20,474,880.00
प्रशासनिक भवन (राज्य अवधि)	21,783,000.00	-	-	21,783,000.00	2.00	3,049,620.00	435,660.00	-	3,485,280.00	18,297,720.00	18,733,380.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति शीर्ष	ग्राँस ब्लॉक				मूल्यहास					नेट ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023-24)	घटाव (2023- 2024)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्य हास का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास योग	वर्ष (2023- 24) के लिए मूल्यहास	घटाव/ समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक का कुल मूल्यहास योग (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2023 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33/11 केवी विद्युत उप-केन्द्र	47,037,110.00	-	-	47,037,110.00	5.00	23,518,560.00	-	-	23,518,560.00	23,518,550.00	23,518,550.00
एसओएम का द्वितीय तल	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	2.00	2,100,000.00	300,000.00	-	2,400,000.00	12,600,000.00	12,900,000.00
वीसीबी एवं एलए	2,132,764.00	-	-	2,132,764.00	5.00	213,276.00	106,638.00	-	319,914.00	1,812,850.00	1,919,488.00
बास्केट बॉल कोर्ट	1,049,105.00	-	-	1,049,105.00	2.00	41,964.00	20,982.00	-	62,946.00	986,159.00	1,007,141.00
पुस्तक एवं जर्नल	34,728,931.00	7,180,513.00	-	41,909,444.00	10.00	9,309,612.00	4,190,944.00	-	13,500,556.00	28,408,888.00	25,419,319.00
पुस्तक एवं जर्नल (एफडीसी)	6,600.00	-	-	6,600.00	10.00	4,620.00	660.00	-	5,280.00	1,320.00	1,980.00
पुस्तक एवं जर्नल (नेट कोचिंग)	79,593.00	-	-	79,593.00	10.00	67,738.00	7,959.00	-	75,697.00	3,896.00	11,855.00
पुस्तक एवं जर्नल (महिला अध्ययन)	145,116.00	-	-	145,116.00	10.00	145,115.00	-	-	145,115.00	1.00	1.00
पुस्तक एवं जर्नल (नीपको) गैर योजना	422,020.00	-	-	422,020.00	10.00	400,936.00	21,083.00	-	422,019.00	1.00	21,084.00
पुस्तक एवं जर्नल (योजना)	46,707,039.54	-	-	46,707,039.54	10.00	41,560,139.00	4,670,704.00	-	46,230,843.00	476,196.54	5,146,900.54
पुस्तक एवं जर्नल (परियोजना)	1,705,514.00	-	-	1,705,514.00	10.00	1,142,792.00	170,551.00	-	1,313,343.00	392,171.00	562,722.00
बाउंड्रीवाल, सिटी सेंटर	493,369.00	-	-	493,369.00	2.00	78,936.00	9,867.00	-	88,803.00	404,566.00	414,433.00
बाउंड्रीवाल, सिटी सेंटर	1,042,600.00	-	-	1,042,600.00	2.00	145,964.00	20,852.00	-	166,816.00	875,784.00	896,636.00
बाउंड्रीवाल	11,536,012.00	415,266.00	-	11,951,278.00	2.00	366,218.00	239,026.00	-	605,244.00	11,346,034.00	11,169,794.00
भवन - पशुगृह	1,849,002.00	-	-	1,849,002.00	2.00	258,860.00	36,980.00	-	295,840.00	1,553,162.00	1,590,142.00
भवन - स्वास्थ्य केन्द्र (प्रथम तल) - योजना	1,782,245.00	-	-	1,782,245.00	2.00	417,915.00	35,645.00	-	453,560.00	1,328,685.00	1,364,330.00
भवन - महिला छात्रावास (द्वितीय तल) - योजना	6,196,009.00	-	-	6,196,009.00	2.00	1,452,888.00	123,920.00	-	1,576,808.00	4,619,201.00	4,743,121.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति शीर्ष	ग्राँस ब्लॉक				मूल्यहास				नेट ब्लॉक		
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023-24)	घटाव (2023- 2024)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्यहास का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास योग	वर्ष (2023-24) के लिए मूल्यहास	घटाव/ समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक का कुल मूल्यहास योग (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2023 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
भवन (परीक्षा भवन)	197,945,000.00	-	-	197,945,000.00	2.00	31,671,200.00	3,958,900.00	-	35,630,100.00	162,314,900.00	166,273,800.00
भवन सौर संयंत्र	198,659.00	-	-	198,659.00	2.00	41,170.00	3,973.00	-	45,143.00	153,516.00	157,489.00
बाउंड्रीवाल (राज्य अवधि)	5,551,000.00	-	-	5,551,000.00	2.00	777,140.00	111,020.00	-	888,160.00	4,662,840.00	4,773,860.00
पुरुष छात्रावास (राज्य अवधि)	8,351,000.00	-	-	8,351,000.00	2.00	1,169,140.00	167,020.00	-	1,336,160.00	7,014,840.00	7,181,860.00
कैंपस विकास - एप्रोच रोड	4,113,694.00	-	-	4,113,694.00	2.00	164,548.00	82,274.00	-	246,822.00	3,866,872.00	3,949,146.00
कैंपस विकास - एलईडी प्रदीपन	6,856,920.00	1,110,912.00	-	7,967,832.00	5.00	1,416,921.00	398,392.00	-	1,815,313.00	6,152,519.00	5,439,999.00
कैंपस विकास - लिविड नाइट्रोजन प्लांट	-	782,398.00	-	782,398.00	5.00	-	39,120.00	-	39,120.00	743,278.00	-
सीसीटीवी	11,862,138.00	988,390.00	-	12,850,528.00	20.00	11,862,137.00	197,678.00	-	12,059,815.00	790,713.00	1.00
केन्द्रीय ग्रंथालय (राज्य अवधि)	60,132,000.00	-	-	60,132,000.00	2.00	8,418,480.00	1,202,640.00	-	9,621,120.00	50,510,880.00	51,713,520.00
कंप्यूटर	14,071,662.80	5,377,400.00	-	19,449,062.80	20.00	6,182,425.00	3,889,813.00	-	10,072,238.00	9,376,824.80	7,889,237.80
कंप्यूटर (एडीडीएल ग्रांट)	138,320.00	-	-	138,320.00	20.00	138,319.00	-	-	138,319.00	1.00	1.00
कंप्यूटर (ईओसी)	238,485.00	-	-	238,485.00	20.00	238,484.00	-	-	238,484.00	1.00	1.00
कंप्यूटर (बी. वोक)	4,086,424.00	-	-	4,086,424.00	20.00	4,086,423.00	-	-	4,086,423.00	1.00	1.00
कंप्यूटर (प्लान)	44,487,505.00	-	-	44,487,505.00	20.00	44,487,504.00	-	-	44,487,504.00	1.00	1.00
कंप्यूटर (परियोजना)	5,937,241.00	174,574.00	-	6,111,815.00	20.00	5,841,120.00	131,035.00	-	5,972,155.00	139,660.00	96,121.00
कंप्यूटर (राज्य अवधि)	1,078,095.00	-	-	1,078,095.00	20.00	1,078,094.00	-	-	1,078,094.00	1.00	1.00
कंप्यूटर (डब्ल्यूएससी)	968,840.00	-	-	968,840.00	20.00	968,839.00	-	-	968,839.00	1.00	1.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास				नेट ब्लॉक		
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023-24)	घटाव (2023- 2024)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्यहास का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास योग	वर्ष (2023-24) के लिए मूल्यहास	घटाव/ समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक का कुल मूल्यहास योग (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2023 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कंप्यूटर (गैर योजना)	12,049,731.00	-	-	12,049,731.00	20.00	12,049,730.00	-	-	12,049,730.00	1.00	1.00
डे केयर केन्द्र तथा ओपन थ्येटर	147,826,001.00	-	-	147,826,001.00	2.00	23,937,992.00	2,956,520.00	-	26,894,512.00	120,931,489.00	123,888,009.00
डिजिटल डिस्प्ले	2,230,200.00	-	-	2,230,200.00	7.50	334,530.00	167,265.00	-	501,795.00	1,728,405.00	1,895,670.00
इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन	3,555,927.00	-	-	3,555,927.00	5.00	1,244,572.00	177,796.00	-	1,422,368.00	2,133,559.00	2,311,355.00
ईपीबीएक्स सिस्टम (नॉन-प्लान)	2,537,662.00	-	-	2,537,662.00	7.50	1,695,655.00	190,325.00	-	1,885,980.00	651,682.00	842,007.00
उपकरण	52,909,634.94	15,000,139.00	71,538.00	67,838,235.94	7.50	10,161,798.00	5,087,868.00	-	15,249,666.00	52,588,569.94	42,747,836.94
उपकरण (अतिरिक्त अनुदान)	2,546,871.00	-	-	2,546,871.00	7.50	1,987,498.00	191,015.00	-	2,178,513.00	368,358.00	559,373.00
उपकरण (बी. वोक.)	6,582,887.00	-	-	6,582,887.00	7.50	3,216,444.00	493,717.00	-	3,710,161.00	2,872,726.00	3,366,443.00
उपकरण (सी एवं सी सेल)	141,350.00	-	-	141,350.00	7.50	111,765.00	10,601.00	-	122,366.00	18,984.00	29,585.00
उपकरण (केन्द्रीय सुविधाएं)	1,198,204.00	-	-	1,198,204.00	7.50	946,640.00	89,865.00	-	1,036,505.00	161,699.00	251,564.00
उपकरण (ईओसी)	95,351.00	-	-	95,351.00	7.50	55,737.00	7,151.00	-	62,888.00	32,463.00	39,614.00
उपकरण (स्वास्थ्य केन्द्र)	494,831.00	-	-	494,831.00	7.50	326,622.00	37,112.00	-	363,734.00	131,097.00	168,209.00
उपकरण (हिन्दी)	37,610.00	-	-	37,610.00	7.50	22,568.00	2,821.00	-	25,389.00	12,221.00	15,042.00
उपकरण (आईक्यूएसी)	284,690.00	-	-	284,690.00	7.50	226,480.00	21,352.00	-	247,832.00	36,858.00	58,210.00
उपकरण (नेट कोचिंग)	156,885.00	-	-	156,885.00	7.50	121,119.00	11,766.00	-	132,885.00	24,000.00	35,766.00
उपकरण (गैर योजना)	14,619,456.00	-	-	14,619,456.00	7.50	11,672,629.00	1,096,459.00	-	12,769,088.00	1,850,368.00	2,946,827.00
उपकरण (योजना)	38,763,285.85	-	-	38,763,285.85	7.50	32,040,792.00	2,907,246.00	-	34,948,038.00	3,815,247.85	6,722,493.85



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास				नेट ब्लॉक		
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023-24)	घटाव (2023- 2024)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्य हास का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास योग	वर्ष (2023-24) के लिए मूल्यहास	घटाव/ समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक का कुल मूल्यहास योग (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2023 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उपकरण (परियोजना) - इंस्पायर	364,378.00	25,653.00	-	390,031.00	7.50	176,256.00	27,328.00	-	203,584.00	186,447.00	188,122.00
उपकरण (शिक्षाशास्त्र विद्यापीठ)	743,678.00	-	-	743,678.00	7.50	416,748.00	55,776.00	-	472,524.00	271,154.00	326,930.00
उपकरण (राज्य अवधि)	1,772,338.00	-	-	1,772,338.00	7.50	1,772,337.00	-	-	1,772,337.00	1.00	1.00
उपकरण (XII योजना)	87,533,576.91	-	-	87,533,576.91	7.50	46,032,492.00	6,565,018.00	-	52,597,510.00	34,936,066.91	41,501,084.91
उपकरण - घड़ी	442,069.00	-	-	442,069.00	7.50	366,601.00	33,155.00	-	399,756.00	42,313.00	75,468.00
उपकरण (अन्य आधारभूत संरचना)	27,739,417.00	3,868,891.00	-	31,608,308.00	7.50	15,345,402.00	2,370,623.00	-	17,716,025.00	13,892,283.00	12,394,015.00
उपकरण (परियोजना)	194,172,383.61	43,742,281.00	-	237,914,664.61	7.50	102,535,750.00	17,843,600.00	-	120,379,350.00	117,535,314.62	91,636,633.61
फैक्स मशीन	46,829.00	-	-	46,829.00	7.50	46,828.00	-	-	46,828.00	1.00	1.00
फर्नीचर	34,368,477.00	8,443,951.00	-	42,812,428.00	7.50	7,988,550.00	3,210,932.00	-	11,199,482.00	31,612,946.00	26,379,927.00
फर्नीचर (अतिरिक्त अनुदान)	332,182.00	-	-	332,182.00	7.50	243,906.00	24,914.00	-	268,820.00	63,362.00	88,276.00
फर्नीचर (बी. वो.क.)	506,226.00	-	-	506,226.00	7.50	303,736.00	37,967.00	-	341,703.00	164,523.00	202,490.00
फर्नीचर (स्वास्थ्य केन्द्र)	751,168.00	-	-	751,168.00	7.50	543,710.00	56,338.00	-	600,048.00	151,120.00	207,458.00
फर्नीचर (परियोजना) - जारी	930,006.00	-	-	930,006.00	7.50	622,222.00	69,750.00	-	691,972.00	238,034.00	307,784.00
फर्नीचर (परियोजना - ओएल)	626,873.00	302,598.00	-	929,471.00	7.50	114,459.00	69,709.00	-	184,168.00	745,303.00	512,414.00
फर्नीचर (राज्य अवधि)	1,523,544.00	-	-	1,523,544.00	7.50	1,408,249.00	114,266.00	-	1,522,515.00	1,029.00	115,295.00
फर्नीचर (गैर योजना)	38,799,230.00	-	-	38,799,230.00	7.50	26,487,569.00	2,909,942.00	-	29,397,511.00	9,401,719.00	12,311,661.00
फर्नीचर (प्लान)	57,477,668.00	-	-	57,477,668.00	7.50	34,252,862.00	4,310,825.00	-	38,563,687.00	18,913,981.00	23,224,806.00
फर्नीचर (स्कूल ऑफ एजुकेशन)	1,252,305.00	-	-	1,252,305.00	7.50	690,269.00	93,923.00	-	784,192.00	468,113.00	562,036.00
फर्नीचर (आईएस)	154,700.00	-	-	154,700.00	7.50	52,212.00	11,603.00	-	63,815.00	90,885.00	102,488.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति शीर्ष	ग्राँस ब्लॉक				मूल्यहास					नेट ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023-24)	घटाव (2023-24)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्य हास का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास योग	वर्ष (2023-24) के लिए मूल्यहास	घटाव/ समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक का कुल मूल्यहास योग (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2023 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आईसीटी समर्थित ऑनलाइन लर्निंग	36,390,408.00	8,382,451.00	-	44,772,859.00	20.00	14,683,077.00	8,954,572.00	-	23,637,649.00	21,135,210.00	21,707,331.00
आइरन रिमूवल प्लांट	7,402,438.00	1,153,490.00	-	8,555,928.00	5.00	536,044.00	427,796.00	-	963,840.00	7,592,088.00	6,866,394.00
गांधी भवन (राज्य अवधि)	248,000.00	-	-	248,000.00	2.00	34,720.00	4,960.00	-	39,680.00	208,320.00	213,280.00
गार्बेज कंटेनर	432,976.00	187,550.00	-	620,526.00	7.50	38,924.00	46,539.00	-	85,463.00	535,063.00	394,052.00
घास काटने की मशीन	-	393,830.00	-	393,830.00	5.00	-	19,692.00	-	19,692.00	374,138.00	-
अतिथिगृह (राज्य अवधि)	8,108,000.00	-	-	8,108,000.00	2.00	1,135,120.00	162,160.00	-	1,297,280.00	6,810,720.00	6,972,880.00
अतिथिगृह एनेक्स (राज्य अवधि)	3,683,000.00	-	-	3,683,000.00	2.00	515,620.00	73,660.00	-	589,280.00	3,093,720.00	3,167,380.00
स्वास्थ्य केन्द्र (राज्य अवधि)	2,133,000.00	-	-	2,133,000.00	2.00	298,620.00	42,660.00	-	341,280.00	1,791,720.00	1,834,380.00
जमीन- राज्य अवधि	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00
सूर्यमणिनगर में जमीन	213,347,263.00	1,052,514.00	-	214,399,777.00	-	-	-	-	-	214,399,777.00	213,347,263.00
एलसीडी प्रोजेक्टर	102,708.00	-	-	102,708.00	7.50	102,707.00	-	-	102,707.00	1.00	1.00
लिफ्ट - प्रशासनिक भवन	3,030,690.00	-	-	3,030,690.00	5.00	757,675.00	151,535.00	-	909,210.00	2,121,480.00	2,273,015.00
लिफ्ट - अकादमिक भवन IX, X	1,533,976.00	-	-	1,533,976.00	5.00	383,495.00	76,699.00	-	460,194.00	1,073,782.00	1,150,481.00
एमबीए लिफ्ट	1,672,200.00	-	-	1,672,200.00	5.00	585,270.00	83,610.00	-	668,880.00	1,003,320.00	1,086,930.00
बहुमंजिला अकादमिक भवन - पुरुष एवं महिला	860,198,089.00	-	-	860,198,089.00	2.00	120,427,734.00	17,203,962.00	-	137,631,696.00	722,566,393.00	739,770,355.00
नया डीप ट्यूबवेल	4,361,662.00	-	-	4,361,662.00	2.00	573,453.00	87,233.00	-	660,686.00	3,700,976.00	3,788,209.00
एसबीआई भवन	728,673.00	-	-	728,673.00	2.00	102,011.00	14,573.00	-	116,584.00	612,089.00	626,662.00
सोलर प्लांट	2,700,000.00	-	-	2,700,000.00	5.00	945,000.00	135,000.00	-	1,080,000.00	1,620,000.00	1,755,000.00
पीए सिस्टम	420,473.00	-	-	420,473.00	7.50	420,472.00	-	-	420,472.00	1.00	1.00
क्वार्टर टाइप - I भवन (राज्य अवधि)	1,637,600.00	-	-	1,637,600.00	2.00	229,264.00	32,752.00	-	262,016.00	1,375,584.00	1,408,336.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रैंड ब्लॉक				मूल्यहास					नेट ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023-24)	घटाव (2023- 2024)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्यहास का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास योग	वर्ष (2023-24) के लिए मूल्यहास	घटाव/ समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक का कुल मूल्यहास योग (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2023 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क्वार्टर टाइप - II भवन (राज्य अवधि)	11,744,500.00	-	-	11,744,500.00	2.00	1,644,230.00	234,890.00	-	1,879,120.00	9,865,380.00	10,100,270.00
क्वार्टर टाइप - III भवन (राज्य अवधि)	13,371,000.00	-	-	13,371,000.00	2.00	1,871,940.00	267,420.00	-	2,139,360.00	11,231,640.00	11,499,060.00
क्वार्टर टाइप - IV भवन (राज्य अवधि)	7,936,000.00	-	-	7,936,000.00	2.00	1,111,040.00	158,720.00	-	1,269,760.00	6,666,240.00	6,824,960.00
आरसीसी ब्रिज (राज्य अवधि)	36,752,000.00	-	-	36,752,000.00	2.00	5,145,280.00	735,040.00	-	5,880,320.00	30,871,680.00	31,606,720.00
एसबीआई भवन (राज्य अवधि)	1,087,000.00	-	-	1,087,000.00	2.00	152,180.00	21,740.00	-	173,920.00	913,080.00	934,820.00
साफ्टवेयर (परियोजना)	395,667.28	-	-	395,667.28	40.00	395,666.28	-	-	395,666.28	1.00	1.00
छात्र कम्यूनिटी (राज्य अवधि)	4,972,000.00	-	-	4,972,000.00	2.00	696,080.00	99,440.00	-	795,520.00	4,176,480.00	4,275,920.00
स्पोर्ट्स बोर्ड	213,798.00	-	-	213,798.00	7.50	213,797.00	-	-	213,797.00	1.00	1.00
स्पोर्ट्स गुड्स	70,622.00	-	-	70,622.00	7.50	70,621.00	-	-	70,621.00	1.00	1.00
छात्र परिषद भवन	2,229,959.00	-	-	2,229,959.00	2.00	312,193.00	44,599.00	-	356,792.00	1,873,167.00	1,917,766.00
सुरक्षा नियंत्रण कक्ष	-	259,500.00	-	259,500.00	2.00	-	5,190.00	-	5,190.00	254,310.00	-
सीवरेज एंड ड्रेनेज	-	1,792,800.00	-	1,792,800.00	2.00	-	35,856.00	-	35,856.00	1,756,944.00	-
ट्रांसफार्मर	-	2,118,840.00	-	2,118,840.00	10.00	-	211,884.00	-	211,884.00	1,906,956.00	-
टिसू कल्चर लैब	3,477,000.00	-	-	3,477,000.00	7.50	2,086,200.00	260,775.00	-	2,346,975.00	1,130,025.00	1,390,800.00
परिसर स्थित टाइप- IV क्वार्टर	2,846,000.00	-	-	2,846,000.00	2.00	398,440.00	56,920.00	-	455,360.00	2,390,640.00	2,447,560.00
ट्वाइलेट	5,000,137.00	-	-	5,000,137.00	2.00	200,006.00	100,003.00	-	300,009.00	4,700,128.00	4,800,131.00
टीवी	10,518.00	-	-	10,518.00	7.50	10,517.00	-	-	10,517.00	1.00	1.00
यूपीएस	65,830.00	-	-	65,830.00	7.50	65,829.00	-	-	65,829.00	1.00	1.00
वाहन (प्लान)	5,870,052.00	-	-	5,870,052.00	10.00	2,429,378.00	587,005.00	-	3,016,383.00	2,853,669.00	3,440,674.00
वाहन (गैर योजना)	1,555,442.00	-	-	1,555,442.00	10.00	1,555,441.00	-	-	1,555,441.00	1.00	1.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास				नेट ब्लॉक		
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023-24)	घटाव (2023-2024)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्यहास का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास योग	वर्ष (2023-24) के लिए मूल्यहास	घटाव/ समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक का कुल मूल्यहास योग (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2023 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
वॉलीबॉल ग्राउंड	8,837,591.00	-	-	8,837,591.00	2.00	1,237,264.00	176,752.00	-	1,414,016.00	7,423,575.00	7,600,327.00
हॉट-स्पॉट वाई-फाई	32,246,094.50	1,479,600.00	-	33,725,694.50	20.00	30,380,724.00	3,344,969.00	-	33,725,693.00	1.50	1,865,370.50
महिला छात्रावास (राज्य अवधि)	7,987,000.00	-	-	7,987,000.00	2.00	1,118,180.00	159,740.00	-	1,277,920.00	6,709,080.00	6,868,820.00
वाटर प्यूरीफिकेशन	-	390,000.00	-	390,000.00	10.00	-	39,000.00	-	39,000.00	351,000.00	-
जिराक्स मशीन	228,211.00	-	-	228,211.00	7.50	228,210.00	-	-	228,210.00	1.00	1.00
रिक्शा	14,000.00	-	-	14,000.00	10.00	1,400.00	1,400.00	-	2,800.00	11,200.00	12,600.00
कंप्यूटर (एफडीसी)	58,408.00	-	-	58,408.00	40.00	23,363.00	23,363.00	-	46,726.00	11,682.00	35,045.00
कुल योग (ए)	2,843,697,781.43	104,623,541.00	71,538.00	2,948,249,784.43	-	771,057,326.28	110,973,873.00	-	882,031,199.28	2,066,218,585.15	2,072,640,455.15
अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति											
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	11,718,827.19	-	-	11,718,827.19	40.00	11,282,807.00	174,408.00	-	11,457,215.00	261,612.19	436,020.19
ई-बुक/ जर्नल	105,030,418.00	6,936,840.00	12,502,419.00	99,464,839.00	40.00	101,691,070.00	-	-2,226,232.00	99,464,838.00	1.00	3,339,348.00
ई-बुक/ जर्नल	28,929,763.00	12,502,419.00	55,628.00	41,376,554.00	40.00	22,451,884.00	2,774,735.00	2,226,232.00	27,452,851.00	13,923,703.000	6,477,879.000
ई-पुस्तक एवं जर्नल (स्कूल ऑफ एजुकेशन)	2,858,333.00	-	-	2,858,333.00	40.00	2,858,332.00	-	-	2,858,332.00	1.00	1.00
ई-पुस्तक एवं जर्नल (प्लान)	14,368,757.00	-	-	14,368,757.00	40.00	14,368,756.00	-	-	14,368,756.00	1.00	1.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास					नेट ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023-24)	घटाव (2023-2024)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्यहास का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास योग	वर्ष (2023-24) के लिए मूल्यहास	घटाव/समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक का कुल मूल्यहास योग (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2023 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ई- क्लासरूम	30,550,951.00	-	-	30,550,951.00	40.00	30,550,950.00	-	-	30,550,950.00	1.00	1.00
फायरवाल	4,826,538.000	-	-	4,826,538.00	40.00	3,066,570.00	-	-	3,066,570.00	1,759,968.00	1,759,968.00
सॉफ्टवेयर (योजना)	4,003,536.00	-	-	4,003,536.00	40.00	4,003,535.00	-	-	4,003,535.00	1.00	1.00
ई-पुस्तक एवं जर्नल (परियोजना)	11,000.00	-	-	11,000.00	40.00	10,999.00	-	-	10,999.00	1.00	1.00
कुल योग (बी)	202,298,123.19	19,439,259.00	12,558,047.00	209,179,335.19	-	190,284,903.00	2,949,143.00	-	193,234,046.00	15,945,289.19	12,013,220.19
चालू पूंजीगत कार्य											
चालू पूंजीगत कार्य	731,940,371.00	75,929,000.00	-	807,869,371.00	-	-	-	-	-	807,869,371.00	731,940,371.00
कुल योग (सी)	731,940,371.00	75,929,000.00	-	807,869,371.00	-	-	-	-	-	807,869,371.00	731,940,371.00
महायोग (ए+बी+सी)	3,777,936,275.62	199,991,800.00	12,629,585.00	3,965,298,490.62	-	961,342,229.28	113,923,016.00	-	1,075,265,245.27	2,890,033,245.34	2,816,594,046.34

टिप्पणी:

- कॉलम "पूँजीगत कार्य प्रगति पर" के तहत वर्ष के दौरान योग में "अनुसूची-8" के अंतर्गत "पूँजी लेखा से अग्रिम - सिविल कार्य" से वर्ष के दौरान लिए गए 5,91,29,000.00 रुपये शामिल हैं।
- चरण-III परियोजना कार्य के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी को 1,22,00,000.00 रुपये की राशि दी गई अग्रिम राशि को पूरक लेखा परीक्षा में की गई टिप्पणियों के अनुसार "पूँजी खाते में अग्रिम - सिविल कार्य" "अनुसूची - 8" के खाता बही शेष को कम करके "पूँजीगत कार्य प्रगति पर" में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- विद्युत सेवा कनेक्शन के लिए टीएसईसीएल को दी गई 46,00,000.00 रुपये की अग्रिम राशि को पूरक लेखापरीक्षा में की गई टिप्पणियों के अनुसार "पूँजी खाते में अग्रिम - सिविल कार्य" "अनुसूची - 8" के खाता बही अधिशेष को कम करके "पूँजीगत कार्य प्रगति पर" में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- कॉन्ट्रैक्टर "इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड" को आवंटित चरण- II परियोजना कार्य (भाग- I) का निर्माण 31/12/2018 को पूरा किया गया और 05/03/2019 को विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया। ठेकेदार को अंतिम भुगतान न किए जाने के कारण आज की तारीख तक बहियों में परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की जा सकी और इसे सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत रखा गया।



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)
अनुसूची - 4 ए योजना

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास				नेट ब्लॉक		
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023-24)	घटाव (2023-2024)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्यहास का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास योग	वर्ष (2023-24) के लिए मूल्यहास	घटाव/ समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक का कुल मूल्यहास योग (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2023 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
प्रत्यक्ष परिसंपत्ति											
एसओएम का द्वितीय तल	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	2.00	2,100,000.00	300,000.00	-	2,400,000.00	12,600,000.00	12,900,000.00
वीसीबी एवं एलए, 33 केवी सबस्टेशन	2,132,764.00	-	-	2,132,764.00	5.00	213,276.00	106,638.00	-	319,914.00	1,812,850.00	1,919,488.00
बास्केटबॉल कोर्ट	1,049,105.00	-	-	1,049,105.00	2.00	41,964.00	20,982.00	-	62,946.00	986,159.00	1,007,141.00
पुस्तक एवं जर्नल	34,728,931.00	7,180,513.00	-	41,909,444.00	10.00	9,309,612.00	4,190,944.00	-	13,500,556.00	28,408,888.00	25,419,319.00
पुस्तक एवं जर्नल (नेट कोचिंग)	79,593.00	-	-	79,593.00	10.00	67,738.00	7,959.00	-	75,697.00	3,896.00	11,855.00
पुस्तक एवं जर्नल (महिला अध्ययन)	145,116.00	-	-	145,116.00	10.00	145,115.00	-	-	145,115.00	1.00	1.00
पुस्तक एवं जर्नल (एफडीसी)	6,600.00	-	-	6,600.00	10.00	4,620.00	660.00	-	5,280.00	1,320.00	1,980.00
पुस्तक एवं जर्नल (योजना)	46,707,039.54	-	-	46,707,039.54	10.00	41,560,139.00	4,670,704.00	-	46,230,843.00	476,196.54	5,146,900.54
बाउंड्री वाल, सिटी सेंटर	493,369.00	-	-	493,369.00	2.00	78,936.00	9,867.00	-	88,803.00	404,566.00	414,433.00
बाउंड्री वाल, सिटी सेंटर	1,042,600.00	-	-	1,042,600.00	2.00	145,964.00	20,852.00	-	166,816.00	875,784.00	896,636.00
बाउंड्री वाल	11,536,012.00	415,266.00	-	11,951,278.00	2.00	366,218.00	239,026.00	-	605,244.00	11,346,034.00	11,169,794.00
भवन - पशु गृह	1,849,002.00	-	-	1,849,002.00	2.00	258,860.00	36,980.00	-	295,840.00	1,553,162.00	1,590,142.00
भवन - स्वास्थ्य केन्द्र (प्रथम तल) - योजना	1,782,245.00	-	-	1,782,245.00	2.00	417,915.00	35,645.00	-	453,560.00	1,328,685.00	1,364,330.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास					नेट ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023-24)	घटाव (2023-24)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्य हास का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास योग	वर्ष (2023-24) के लिए मूल्यहास	घटाव/ समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक का कुल मूल्यहास योग (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2023 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
भवन - महिला छात्रावास (द्वितीय तल) - योजना	6,196,009.00	-	-	6,196,009.00	2.00	1,452,888.00	123,920.00	-	1,576,808.00	4,619,201.00	4,743,121.00
भवन सोलर प्लांट	198,659.00	-	-	198,659.00	2.00	41,170.00	3,973.00	-	45,143.00	153,516.00	157,489.00
भवन (परीक्षा भवन)	197,945,000.00	-	-	197,945,000.00	2.00	31,671,200.00	3,958,900.00	-	35,630,100.00	162,314,900.00	166,273,800.00
सीसी टीवी	11,862,138.00	988,390.00	-	12,850,528.00	20.00	11,862,137.00	197,678.00	-	12,059,815.00	790,713.00	1.00
कैंपस डेवलपमेंट - एप्रोच रोड	4,113,694.00	-	-	4,113,694.00	2.00	164,548.00	82,274.00	-	246,822.00	3,866,872.00	3,949,146.00
कैंपस डेवलपमेंट - एलईडी प्रदीपन	6,856,920.00	1,110,912.00	-	7,967,832.00	5.00	1,416,921.00	398,392.00	-	1,815,313.00	6,152,519.00	5,439,999.00
कैंपस डेवलपमेंट लिविड नाइट्रोजन प्लांट	-	782,398.00	-	782,398.00	5.00	-	39,120.00	-	39,120.00	743,278.00	-
कंप्यूटर	14,071,662.80	5,377,400.00	-	19,449,062.80	20.00	6,182,425.00	3,889,813.00	-	10,072,238.00	9,376,824.80	7,889,237.80
कंप्यूटर (अतिरिक्त अनुदान)	138,320.00	-	-	138,320.00	20.00	138,319.00	-	-	138,319.00	1.00	1.00
कंप्यूटर (बी. वो.क.)	4,086,424.00	-	-	4,086,424.00	20.00	4,086,423.00	-	-	4,086,423.00	1.00	1.00
कंप्यूटर (योजना)	44,487,505.00	-	-	44,487,505.00	20.00	44,487,504.00	-	-	44,487,504.00	1.00	1.00
कंप्यूटर (ईओसी)	238,485.00	-	-	238,485.00	20.00	238,484.00	-	-	238,484.00	1.00	1.00
डे केयर केन्द्र, पुस्तकालय भवन तथा मुक्त आकाश मंच	147,826,001.00	-	-	147,826,001.00	2.00	23,937,992.00	2,956,520.00	-	26,894,512.00	120,931,489.00	123,888,009.00
डिजिटल प्रदर्शनी	2,230,200.00	-	-	2,230,200.00	7.50	334,530.00	167,265.00	-	501,795.00	1,728,405.00	1,895,670.00
इलेक्ट्रिकल स्थापना	3,555,927.00	-	-	3,555,927.00	5.00	1,244,572.00	177,796.00	-	1,422,368.00	2,133,559.00	2,311,355.00
उपकरण	52,909,634.94	15,000,139.00	71,538.00	67,838,235.94	7.50	10,161,798.00	5,087,868.00	-	15,249,666.00	52,588,569.94	42,747,836.94



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास				नेट ब्लॉक		
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023-24)	घटाव (2023- 2024)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्यहास का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास योग	वर्ष (2023-24) के लिए मूल्यहास	घटाव/ समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक का कुल मूल्यहास योग (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2023 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उपकरण (अतिरिक्त अनुदान)	2,546,871.00	-	-	2,546,871.00	7.50	1,987,498.00	191,015.00	-	2,178,513.00	368,358.00	559,373.00
उपकरण (बी. वोक.)	6,582,887.00	-	-	6,582,887.00	7.50	3,216,444.00	493,717.00	-	3,710,161.00	2,872,726.00	3,366,443.00
उपकरण (सी एवं सी सेल)	141,350.00	-	-	141,350.00	7.50	111,765.00	10,601.00	-	122,366.00	18,984.00	29,585.00
उपकरण (केन्द्रीय सुविधाएं)	1,198,204.00	-	-	1,198,204.00	7.50	946,640.00	89,865.00	-	1,036,505.00	161,699.00	251,564.00
उपकरण (ईओसी)	95,351.00	-	-	95,351.00	7.50	55,737.00	7,151.00	-	62,888.00	32,463.00	39,614.00
उपकरण (स्वास्थ्य केन्द्र)	494,831.00	-	-	494,831.00	7.50	326,622.00	37,112.00	-	363,734.00	131,097.00	168,209.00
उपकरण (हिन्दी)	37,610.00	-	-	37,610.00	7.50	22,568.00	2,821.00	-	25,389.00	12,221.00	15,042.00
उपकरण (आईक्यूएसी)	284,690.00	-	-	284,690.00	7.50	226,480.00	21,352.00	-	247,832.00	36,858.00	58,210.00
उपकरण (नेट कोचिंग)	156,885.00	-	-	156,885.00	7.50	121,119.00	11,766.00	-	132,885.00	24,000.00	35,766.00
उपकरण (योजना)	38,763,285.85	-	-	38,763,285.85	7.50	32,040,792.00	2,907,246.00	-	34,948,038.00	3,815,247.85	6,722,493.85
उपकरण (शिक्षाशास्त्र विद्यापीठ)	743,678.00	-	-	743,678.00	7.50	416,748.00	55,776.00	-	472,524.00	271,154.00	326,930.00
उपकरण (XII योजना)	87,533,576.91	-	-	87,533,576.91	7.50	46,032,492.00	6,565,018.00	-	52,597,510.00	34,936,066.91	41,501,084.91
उपकरण - घड़ी	442,069.00	-	-	442,069.00	7.50	366,601.00	33,155.00	-	399,756.00	42,313.00	75,468.00
उपकरण (अन्य मूलभूत संरचना)	27,739,417.00	3,868,891.00	-	31,608,308.00	7.50	15,345,402.00	2,370,623.00	-	17,716,025.00	13,892,283.00	12,394,015.00
फर्नीचर	34,368,477.00	8,443,951.00	-	42,812,428.00	7.50	7,988,550.00	3,210,932.00	-	11,199,482.00	31,612,946.00	26,379,927.00
फर्नीचर (अतिरिक्त अनुदान)	332,182.00	-	-	332,182.00	7.50	243,906.00	24,914.00	-	268,820.00	63,362.00	88,276.00
फर्नीचर (बी. वोक.)	506,226.00	-	-	506,226.00	7.50	303,736.00	37,967.00	-	341,703.00	164,523.00	202,490.00
फर्नीचर (स्वास्थ्य केन्द्र)	751,168.00	-	-	751,168.00	7.50	543,710.00	56,338.00	-	600,048.00	151,120.00	207,458.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास					नेट ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023-24)	घटाव (2023-24)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्य हास का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास योग	वर्ष (2023-24) के लिए मूल्यहास	घटाव/ समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक का कुल मूल्यहास योग (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2023 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
फर्नीचर (योजना)	57,477,668.00	-	-	57,477,668.00	7.50	34,252,862.00	4,310,825.00	-	38,563,687.00	18,913,981.00	23,224,806.00
फर्नीचर (शिक्षाशास्त्र विद्यापीठ)	1,252,305.00	-	-	1,252,305.00	7.50	690,269.00	93,923.00	-	784,192.00	468,113.00	562,036.00
फर्नीचर (आईएस)	154,700.00	-	-	154,700.00	7.50	52,212.00	11,603.00	-	63,815.00	90,885.00	102,488.00
कूड़ादान	432,976.00	187,550.00	-	620,526.00	7.50	38,924.00	46,539.00	-	85,463.00	535,063.00	394,052.00
घास काटने की मशीन		393,830.00		393,830.00	5.00	-	19,692.00		19,692.00	374,138.00	-
आईसीटी समर्थित - ऑनलाइन लर्निंग	36,390,408.00	8,382,451.00	-	44,772,859.00	20.00	14,683,077.00	8,954,572.00	-	23,637,649.00	21,135,210.00	21,707,331.00
लौह निष्कासन संयंत्र	7,402,438.00	1,153,490.00	-	8,555,928.00	5.00	536,044.00	427,796.00	-	963,840.00	7,592,088.00	6,866,394.00
लिफ्ट - प्रशासनिक भवन	3,030,690.00	-	-	3,030,690.00	5.00	757,675.00	151,535.00	-	909,210.00	2,121,480.00	2,273,015.00
लिफ्ट (अकादमिक भवन IX एवं X)	1,533,976.00	-	-	1,533,976.00	5.00	383,495.00	76,699.00	-	460,194.00	1,073,782.00	1,150,481.00
एमबीए लिफ्ट	1,672,200.00	-	-	1,672,200.00	5.00	585,270.00	83,610.00	-	668,880.00	1,003,320.00	1,086,930.00
बहु मंजिला अकादमिक भवन - पुरुष एवं महिला	860,198,089.00	-	-	860,198,089.00	2.00	120,427,734.00	17,203,962.00	-	137,631,696.00	722,566,393.00	739,770,355.00
नया डीप ट्यूबवेल	4,361,662.00	-	-	4,361,662.00	2.00	573,453.00	87,233.00	-	660,686.00	3,700,976.00	3,788,209.00
एसबीआई भवन	728,673.00	-	-	728,673.00	2.00	102,011.00	14,573.00	-	116,584.00	612,089.00	626,662.00
सोलर प्लांट	2,700,000.00	-	-	2,700,000.00	5.00	945,000.00	135,000.00	-	1,080,000.00	1,620,000.00	1,755,000.00
स्पोर्ट्स बोट	213,798.00	-	-	213,798.00	7.50	213,797.00	-	-	213,797.00	1.00	1.00
छात्र परिषद भवन	2,229,959.00	-	-	2,229,959.00	2.00	312,193.00	44,599.00	-	356,792.00	1,873,167.00	1,917,766.00
सुरक्षा नियंत्रण कक्ष		259,500.00		259,500.00	2.00	-	5,190.00		5,190.00	254,310.00	-
सीवरेज एंड ड्रेनेज		1,792,800.00		1,792,800.00	2.00	-	35,856.00		35,856.00	1,756,944.00	-
ट्रांसफार्मर		2,118,840.00		2,118,840.00	10.00		211,884.00		211,884.00	1,906,956.00	-
टिसू कल्चर लैब	3,477,000.00	-	-	3,477,000.00	7.50	2,086,200.00	260,775.00	-	2,346,975.00	1,130,025.00	1,390,800.00
परिसर में टाइप - IV क्वार्टर	2,846,000.00	-	-	2,846,000.00	2.00	398,440.00	56,920.00	-	455,360.00	2,390,640.00	2,447,560.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति शीर्ष	ग्राँस ब्लॉक				मूल्यहास					नेट ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023-24)	घटाव (2023-2024)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्यहास स का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास योग	वर्ष (2023-24) के लिए मूल्यहास	घटाव/ समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक का कुल मूल्यहास योग (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2023 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ट्वाइलेट	5,000,137.00	-	-	5,000,137.00	2.00	200,006.00	100,003.00	-	300,009.00	4,700,128.00	4,800,131.00
हॉट स्पॉट/वाई-फाई	32,246,094.50	1,479,600.00	-	33,725,694.50	20.00	30,380,724.00	3,344,969.00	-	33,725,693.00	1.50	1,865,370.50
वॉलीबॉल मैदान	8,837,591.00	-	-	8,837,591.00	2.00	1,237,264.00	176,752.00	-	1,414,016.00	7,423,575.00	7,600,327.00
वाहन (योजना)	5,870,052.00	-	-	5,870,052.00	10.00	2,429,378.00	587,005.00	-	3,016,383.00	2,853,669.00	3,440,674.00
वाटर प्यूरीफिकेशन		390,000.00		390,000.00	10.00	-	39,000.00		39,000.00	351,000.00	-
रिक्शा	14,000.00	-	-	14,000.00	10.00	1,400.00	1,400.00		2,800.00	11,200.00	12,600.00
कंप्यूटर (एफडीसी)	58,408.00	-	-	58,408.00	40.00	23,363.00	23,363.00		46,726.00	11,682.00	35,045.00
उप योग (ए)	1,854,116,539.54	59,325,921.00	71,538.00	1,913,370,922.54		513,738,869.00	79,356,423.00	-	593,095,292.00	1,320,275,630.54	1,340,377,670.54
अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति											
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	11,718,827.19		-	11,718,827.19	40.00	11,282,807.00	174,408.00	-	11,457,215.00	261,612.19	436,020.19
ई-पुस्तक एवं जर्नल (शिक्षाशास्त्र विद्यापीठ)	2,858,333.00	-	-	2,858,333.00	40.00	2,858,332.00	-	-	2,858,332.00	1.00	1.00
ई-बुक/जर्नल	28,929,763.00	12,502,419.00	55,628.00	41,376,554.00	40.00	22,451,884.00	2,774,735.00	2,226,232.00	27,452,851.00	13,923,703.00	6,477,879.00
ई-पुस्तक एवं जर्नल (योजना)	14,368,757.00	-	-	14,368,757.00	40.00	14,368,756.00	-	-	14,368,756.00	1.00	1.00
ई-क्लासरूम	30,550,951.00	-	-	30,550,951.00	40.00	30,550,950.00	-	-	30,550,950.00	1.00	1.00
फायरवाल	4,826,538.00		-	4,826,538.00	40.00	3,066,570.00	-	-	3,066,570.00	1,759,968.00	1,759,968.00
सॉफ्टवेयर (योजना)	4,003,536.00	-	-	4,003,536.00	40.00	4,003,535.00	-	-	4,003,535.00	1.00	1.00
उप योग (बी)	97,256,705.19	12,502,419.00	55,628.00	109,703,496.19		88,582,834.00	2,949,143.00	2,226,232.00	93,758,209.00	15,945,287.19	8,673,871.19



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (पश्चिम)

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास				नेट ब्लॉक		
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023-24)	घटाव (2023-2024)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्यहास का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास योग	वर्ष (2023-24) के लिए मूल्यहास	घटाव/ समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक का कुल मूल्यहास योग (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2023 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
चालू पूंजीगत कार्य											
चालू पूंजीगत कार्य	731,940,371.00	75,929,000.00	-	807,869,371.00	-	-	-	-	-	807,869,371.00	731,940,371.00
उप योग (सी)	731,940,371.00	75,929,000.00	-	807,869,371.00		-	-	-	-	807,869,371.00	731,940,371.00
महा योग (ए+बी+सी)	2,683,313,615.73	147,757,340.00	127,166.00	2,830,943,789.73		602,321,703.00	82,305,566.00	2,226,232.00	686,853,501.00	2,144,090,288.73	2,080,991,912.73

टिप्पणी-1

- विश्वविद्यालय को वर्ष 2022-2023 के दौरान छात्रों से वाई-फाई नेटवर्क के प्रयोक्ता प्रभार के रूप में 14,79,600.00 रुपये प्राप्त हुए, लेकिन त्रुटिवश हॉट स्पॉट/वाई-फाई शीर्ष में कम कर दिया गया और इसलिए अब मूर्त परिसंपत्तियों के तहत हॉट स्पॉट/वाईफाई के आंकड़े में 14,79,600.00 रुपये की वृद्धि दर्ज हो गई है। और 2,95,920.00 रुपये पूर्वावधि आय में योग होकर समायोजित किये गए हैं।
- ई- पुस्तकें/जर्नल (अनुसूची) 4बी के 55,65,579.00 रुपये अनजाने में है वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान अनुसूची 4 ए के स्थान पर अनुसूची 4 बी के तहत दिखाया गया, इस वर्ष की अनुसूची में सुधार किया गया है और तदनुसार मूल्यहास प्रभारित किया गया है।



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)
अनुसूची-4बी गैर योजना

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास					नेट ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023-24)	घटाव (2023-24)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्य हास का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास योग	वर्ष (2023-24) के लिए मूल्यहास	घटाव/ समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक का कुल मूल्यहास योग (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2023 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
प्रत्यक्ष परिसंपत्ति											
पुस्तक एवं जर्नल गैर योजना	422,020.00	-	-	422,020.00	10.00	400,936.00	21,083.00	-	422,019.00	1.00	21,084.00
कंप्यूटर (गैर योजना)	12,049,731.00	-	-	12,049,731.00	20.00	12,049,730.00	-	-	12,049,730.00	1.00	1.00
इपीबैक्स सिस्टम (गैर योजना)	2,537,662.00	-	-	2,537,662.00	7.50	1,695,655.00	190,325.00	-	1,885,980.00	651,682.00	842,007.00
उपकरण (गैर योजना)	14,619,456.00	-	-	14,619,456.00	7.50	11,672,629.00	1,096,459.00	-	12,769,088.00	1,850,368.00	2,946,827.00
फर्नीचर (गैर योजना)	38,799,230.00	-	-	38,799,230.00	7.50	26,487,569.00	2,909,942.00	-	29,397,511.00	9,401,719.00	12,311,661.00
वाहन (गैर योजना)	1,555,442.00	-	-	1,555,442.00	10.00	1,555,441.00	-	-	1,555,441.00	1.00	1.00
उप योग (ए)	69,983,541.00	-	-	69,983,541.00		53,861,960.00	4,217,809.00	-	58,079,769.00	11,903,772.00	16,121,581.00
अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति											
ई-बुक / जर्नल	105,030,418.00	6,936,840.00	12,502,419.00	99,464,839.00	40.00	101,691,070.00	-	-2,226,232.00	99,464,838.00	1.00	3,339,348.00
उप योग (बी)	105,030,418.00	6,936,840.00	12,502,419.00	99,464,839.00		101,691,070.00	-	-2,226,232.00	99,464,838.00	1.00	3,339,348.00
महा योग (ए+बी+सी)	175,013,959.00	6,936,840.00	12,502,419.00	169,448,380.00		155,553,030.00	4,217,809.00	-2,226,232.00	157,544,607.00	11,903,773.00	19,460,929.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 4सी – अमूर्त परिसंपत्ति

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति मद	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास					नेट ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023- 2024)	घटाव (2023- 2024)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्यहास का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास	वर्ष (2023-24) के लिए मूल्यहास	घटाव/ समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक कुल मूल्यहास (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2024 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. पेटेंट एवं कॉपीराइट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ई-जर्नल बूक्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महा योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 4(सी) (i) - पेटेंट एवं कॉपीराइट्स

(राशि रु. में)

विवरण	प्रारंभिक अधिशेष	वर्ष के दौरान जोड़	ग्रॉस	एमॉटाइजेशन	नेट ब्लॉक	नेट ब्लॉक
ए. पेटेंट स्वीकृत						
1. वर्ष 2008-09 में प्राप्त पेटेंट का दिनांक 31.03.23 को अधिशेष (वास्तविक मूल्य रु. में...../-)	-	-	-	-	-	-
2. वर्ष 2010-11 में प्राप्त पेटेंट का दिनांक 31.03.23 को अधिशेष (वास्तविक मूल्य, रु. में...../-)	-	-	-	-	-	-
3. वर्ष 2012-13 में प्राप्त पेटेंट का दिनांक 31.03.23 को अधिशेष (वास्तविक मूल्य, रु. में...../-)	-	-	-	-	-	-
4. वर्तमान वर्ष के दौरान प्रदत्त पेटेंट्स	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-
बी. आवेदित पेटेंट में से लंबित पेटेंट						
1. वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के दौरान किया गया व्यय	-	-	-	-	-	-
2. वर्ष 2012-13 के दौरान किया गया व्यय	-	-	-	-	-	-
3. वर्ष 2013-14 के दौरान किया गया व्यय	-	-	-	-	-	-
4. वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक के दौरान किया गया व्यय	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-
सी. महायोग (ए+बी)	-	-	-	-	-	-



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)
अनुसूची 4 डी अन्य

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति मद	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास					नेट ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023- 2024)	घटाव (2023- 2024)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्यहास का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास	वर्ष (2023-24) के लिए मूल्यहास	घटाव/ समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक कुल मूल्यहास (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2023 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मूर्त परिसंपत्ति											
33/11 केवी विद्युत उप केन्द्र	47,037,110.00		-	47,037,110.00	5.00	23,518,560.00	-	-	23,518,560.00	23,518,550.00	23,518,550.00
एसी मशीन	123,156.00	-	-	123,156.00	7.50	123,155.00	-	-	123,155.00	1.00	1.00
अकादमिक भवन - II (राज्य अवधि)	35,595,000.00	-	-	35,595,000.00	2.00	4,983,300.00	711,900.00	-	5,695,200.00	29,899,800.00	30,611,700.00
अकादमिक भवन - III (राज्य अवधि)	14,160,000.00	-	-	14,160,000.00	2.00	1,982,400.00	283,200.00	-	2,265,600.00	11,894,400.00	12,177,600.00
अकादमिक भवन - IV (राज्य अवधि)	12,317,000.00	-	-	12,317,000.00	2.00	1,724,380.00	246,340.00	-	1,970,720.00	10,346,280.00	10,592,620.00
अकादमिक भवन - VII (राज्य अवधि)	27,503,000.00	-	-	27,503,000.00	2.00	3,850,420.00	550,060.00	-	4,400,480.00	23,102,520.00	23,652,580.00
अकादमिक भवन - VIII (राज्य अवधि)	18,332,000.00	-	-	18,332,000.00	2.00	2,566,480.00	366,640.00	-	2,933,120.00	15,398,880.00	15,765,520.00
अकादमिक भवन - X (राज्य अवधि)	27,144,000.00	-	-	27,144,000.00	2.00	3,800,160.00	542,880.00	-	4,343,040.00	22,800,960.00	23,343,840.00
अकादमिक भवन - I (राज्य अवधि)	35,595,000.00	-	-	35,595,000.00	2.00	4,983,300.00	711,900.00	-	5,695,200.00	29,899,800.00	30,611,700.00
अकादमिक भवन - IX (राज्य अवधि)	13,850,000.00	-	-	13,850,000.00	2.00	1,939,000.00	277,000.00	-	2,216,000.00	11,634,000.00	11,911,000.00
अकादमिक भवन - V (राज्य अवधि)	44,890,000.00	-	-	44,890,000.00	2.00	6,284,600.00	897,800.00	-	7,182,400.00	37,707,600.00	38,605,400.00
अकादमिक भवन - VI (राज्य अवधि)	23,808,000.00	-	-	23,808,000.00	2.00	3,333,120.00	476,160.00	-	3,809,280.00	19,998,720.00	20,474,880.00
प्रशासनिक भवन (राज्य अवधि)	21,783,000.00	-	-	21,783,000.00	2.00	3,049,620.00	435,660.00	-	3,485,280.00	18,297,720.00	18,733,380.00
पुस्तक एवं जर्नल (परियोजना)	1,705,514.00	-	-	1,705,514.00	10.00	1,142,792.00	170,551.00	-	1,313,343.00	392,171.00	562,722.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति मद	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास				नेट ब्लॉक		
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023-2024)	घटाव (2023- 2024)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्यहास स का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास	वर्ष (2023-24) के लिए मूल्यहास	घटाव/ समायो जन	दिनांक 31.03.2024 तक कुल मूल्यहास (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2023 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
चाहरदीवारी (राज्य अवधि)	5,551,000.00	-	-	5,551,000.00	2.00	777,140.00	111,020.00	-	888,160.00	4,662,840.00	4,773,860.00
पुरुष छात्रावास (राज्य अवधि)	8,351,000.00	-	-	8,351,000.00	2.00	1,169,140.00	167,020.00	-	1,336,160.00	7,014,840.00	7,181,860.00
केन्द्रीय ग्रंथालय (राज्य अवधि)	60,132,000.00	-	-	60,132,000.00	2.00	8,418,480.00	1,202,640.00	-	9,621,120.00	50,510,880.00	51,713,520.00
कंप्यूटर (परियोजना)	5,937,241.00	174,574.00	-	6,111,815.00	20.00	5,841,120.00	131,035.00	-	5,972,155.00	139,660.00	96,121.00
कंप्यूटर (राज्य अवधि)	1,078,095.00	-	-	1,078,095.00	20.00	1,078,094.00	-	-	1,078,094.00	1.00	1.00
कंप्यूटर (इन्व्यूएससी)	968,840.00	-	-	968,840.00	20.00	968,839.00	-	-	968,839.00	1.00	1.00
उपकरण (परियोजना) - इन्स्पायर	364,378.00	25,653.00	-	390,031.00	7.50	176,256.00	27,328.00	-	203,584.00	186,447.00	188,122.00
उपकरण (राज्य अवधि)	1,772,338.00	-	-	1,772,338.00	7.50	1,772,337.00	-	-	1,772,337.00	1.00	1.00
उपकरण (परियोजना)	194,172,383.61	43,742,281.00	-	237,914,664.61	7.50	102,535,750.00	17,843,600.00	-	120,379,350.00	117,535,314.62	91,636,633.61
फैक्स मशीन	46,829.00	-	-	46,829.00	7.50	46,828.00	-	-	46,828.00	1.00	1.00
फर्नीचर (परियोजना) - कंटी.	930,006.00	-	-	930,006.00	7.50	622,222.00	69,750.00	-	691,972.00	238,034.00	307,784.00
फर्नीचर (परियोजना) - ओएच	626,873.00	302,598.00	-	929,471.00	7.50	114,459.00	69,709.00	-	184,168.00	745303	512,414.00
फर्नीचर (राज्य अवधि)	1,523,544.00	-	-	1,523,544.00	7.50	1,408,249.00	114,266.00	-	1,522,515.00	1,029.00	115,295.00
गांधी भवन (राज्य अवधि)	248,000.00	-	-	248,000.00	2.00	34,720.00	4,960.00	-	39,680.00	208,320.00	213,280.00
अतिथि गृह (राज्य अवधि)	8,108,000.00	-	-	8,108,000.00	2.00	1,135,120.00	162,160.00	-	1,297,280.00	6,810,720.00	6,972,880.00
अतिथि गृह एनेक्स (राज्य अवधि)	3,683,000.00	-	-	3,683,000.00	2.00	515,620.00	73,660.00	-	589,280.00	3,093,720.00	3,167,380.00
स्वास्थ्य केन्द्र (राज्य अवधि)	2,133,000.00	-	-	2,133,000.00	2.00	298,620.00	42,660.00	-	341,280.00	1,791,720.00	1,834,380.00
सूर्यमणिनगर में जमीन	213,347,263.00	1,052,514.00	-	214,399,777.00	-	-	-	-	-	214,399,777.00	213,347,263.00
जमीन - राज्य अवधि	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00
एलसीडी प्रोजेक्टर	102,708.00	-	-	102,708.00	7.50	102,707.00	-	-	102,707.00	1.00	1.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

(राशि रु. में)

परिसंपत्ति मद	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास				नेट ब्लॉक		
	दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़ (2023-2024)	घटाव (2023-2024)	दिनांक 31.03.2024 को समापन अधिशेष (2+3-4)	मूल्यहास का दर	दिनांक 01.04.2023 तक का प्रारंभिक मूल्यहास	वर्ष (2023-24) के लिए मूल्यहास	घटाव/ समायोजन	दिनांक 31.03.2024 तक कुल मूल्यहास (7+8)	दिनांक 31.03.2024 को वर्तमान वर्ष का अधिशेष (5-10)	दिनांक 31.03.2023 को गत वर्ष का अधिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पीए सिस्टम	420,473.00	-	-	420,473.00	7.50	420,472.00	-	-	420,472.00	1.00	1.00
क्वार्टर टाइप - I भवन (राज्य अवधि)	1,637,600.00	-	-	1,637,600.00	2.00	229,264.00	32,752.00	-	262,016.00	1,375,584.00	1,408,336.00
क्वार्टर टाइप - II भवन (राज्य अवधि)	11,744,500.00	-	-	11,744,500.00	2.00	1,644,230.00	234,890.00	-	1,879,120.00	9,865,380.00	10,100,270.00
क्वार्टर टाइप - III भवन (राज्य अवधि)	13,371,000.00	-	-	13,371,000.00	2.00	1,871,940.00	267,420.00	-	2,139,360.00	11,231,640.00	11,499,060.00
क्वार्टर टाइप - IV भवन (राज्य अवधि)	7,936,000.00	-	-	7,936,000.00	2.00	1,111,040.00	158,720.00	-	1,269,760.00	6,666,240.00	6,824,960.00
आरसीसी पुल (राज्य अवधि)	36,752,000.00	-	-	36,752,000.00	2.00	5,145,280.00	735,040.00	-	5,880,320.00	30,871,680.00	31,606,720.00
एसबीआई भवन (राज्य अवधि)	1,087,000.00	-	-	1,087,000.00	2.00	152,180.00	21,740.00	-	173,920.00	913,080.00	934,820.00
सॉफ्टवेयर (परियोजना)	395,667.28	-	-	395,667.28	40.00	395,666.28	-	-	395,666.28	1.00	1.00
स्पोर्ट्स गुड्स	70,622.00	-	-	70,622.00	7.50	70,621.00	-	-	70,621.00	1.00	1.00
छात्र समुदाय केन्द्र (राज्य अवधि)	4,972,000.00	-	-	4,972,000.00	2.00	696,080.00	99,440.00	-	795,520.00	4,176,480.00	4,275,920.00
टीवी	10,518.00	-	-	10,518.00	7.50	10,517.00	-	-	10,517.00	1.00	1.00
यूपीएस	65,830.00	-	-	65,830.00	7.50	65,829.00	-	-	65,829.00	1.00	1.00
महिला छात्रावास (राज्य अवधि)	7,987,000.00	-	-	7,987,000.00	2.00	1,118,180.00	159,740.00	-	1,277,920.00	6,709,080.00	6,868,820.00
जिरॉक्स मशीन	228,211.00	-	-	228,211.00	7.50	228,210.00	-	-	228,210.00	1.00	1.00
उप योग (ए)	919,597,700.89	45,297,620.00	-	964,895,320.89		203,456,497.28	27,399,641.00	-	230,856,138.28	734,039,182.62	716,141,203.61
अमूर्त परिसंपत्ति											
ई पुस्तक एवं जर्नल (परियोजना)	11,000.00	-	-	11,000.00	40.00	10,999.00	-	-	10,999.00	1.00	1.00
उप योग (बी)	11,000.00	-	-	11,000.00	40.00	10,999.00	-	-	10,999.00	1.00	1.00
महा योग	919,608,700.89	45,297,620.00	-	964,906,320.89		203,467,496.28	27,399,641.00	-	230,867,137.28	734,039,183.62	716,141,204.61



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 5 - उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि से निवेश

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1 केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ	-	-
2 राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	-	-
3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
4 शेयर्स	-	-
5 डिबेन्चर्स एवं बांड्स	-	-
6 बैंक में सावधि जमा	1,388,848.85	1,329,562.85
7 अन्य निवेश	-	-
महायोग	1,388,848.85	1,329,562.85



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 5(ए) - उद्दिष्ट/ वृत्तिदान निधि से निवेश (निधिवार)

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1 बी.देब स्मारक पुरस्कार निधि	145,251.00	145,251.00
2 पी.एल प्रभा स्मारक शोध अध्येता	321,833.00	305,032.00
3 नीहारकना दत्ता चौधरी स्मारक पुरस्कार	593,577.85	519,075.85
4 टीयू - केन्द्रीय ग्रंथागार उत्कृष्टता छात्रवृत्ति	328,187.00	303,046.00
महायोग	1,388,848.85	1,272,404.85

टिप्पणी :

1. इस उप अनुसूची का योग अनुसूची 5 के योग के समान है।



त्रिपुरा विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 6 - निवेश - अन्य

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1 केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ	-	-
2 राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	-	-
3 अन्य अनुमोदितप्रतिभूतियाँ	-	-
4 शेयर्स	-	-
5 डिबेन्चर्स एवं बांड्स	-	-
6 बैंक में सावधि जमा	-	-
7 अन्य निवेश	-	-
महायोग	-	-



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 7- वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
चल परिसंपत्ति		
सॉफ्टवेयर विकास	-	-
1. स्टॉक		
ए) स्टोर्स एवं स्पेयर्स	-	-
बी) लूज टूल्स	-	-
सी) प्रकाशन	-	-
डी) प्रयोगशाला रसायन - उपभोज्य एवं ग्लासवेयर	-	-
ई) भवन सामग्री	-	-
एफ) विद्युत सामग्री	-	-
जी) स्टेशनरी	-	-
एच) जलापूर्ति सामग्री	-	-
2. विविध देनदार		
ए) छः माह से अधिक का बकाया	-	-
बी) अन्य	-	-
3. नकद एवं बैंक अधिशेष		
ए) अनुसूचित बैंक में		
I. बचत खाता में	401,285,668.26	208,195,190.99
II. चालू खाता में	846,601.24	2,793,058.24
III. जमा खाता में	860,804,754.00	714,122,679.50
बी) गैर अनुसूचित बैंकों में		
जमा खाता में	-	-
बचत खाता में	-	-
4. डाक घर - बचत खाता	-	-
महा योग	1,262,937,023.50	925,110,928.73

टिप्पणी :

अनुलग्नक ए बैंक खातों का विवरण दर्शा रहा है।



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)
अनुलग्नक ए

(राशि रु. में)

I. बचत खाता में		
1	यूजीसी बैंक खाता से अनुदान	
2	विश्वविद्यालय प्राप्ति खाता में	303,585,635.64
3.	छात्रवृत्ति बैंक खाता	2,060,744.00
4.	अकादमिक शुल्क प्राप्ति बैंक खाता	
5.	विकास (योजना) बैंक खाता	73,686.70
6.	संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीबीटी) बैंक खाता	
7.	यूजीसी योजना अध्येतावृत्ति बैंक खाता	-
8.	कॉर्पस निधि बैंक खाता	12,955,426.53
9.	प्रायोजित परियोजना निधि बैंक खाता	33,528,288.08
10.	प्रायोजित अध्येतावृत्ति बैंक खाता	2,662.00
11.	वृत्तिदान एवं पीठ बैंक खाता	2,354,350.13
12.	यूजीसी जेआरएफ अध्येतावृत्ति बैंक खाता	
13.	एचबीए निधि बैंक खाता	
14.	वाहन बैंक खाता	
15.	यूजीसी राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति बैंक खाता	
16.	जमा बैंक खाता	46,719,637.78
17.	छात्र निधि बैंक खाता	
18.	छात्र सहायता निधि बैंक खाता	
19.	वैज्ञानिक योजनाओं के लिए योजना अनुदान बैंक खाता	1,465.00
20.	एनएएसी	3,772.40
	बचत खाता में कुल योग	401,285,668.26
II.	चालू खाता में	846,601.24
III.	जमा खाता में	860,804,754.00
	योग	1,262,937,023.50



त्रिपुरा विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 8 - ऋण / अग्रिम एवं जमा

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1 <u>कार्मिकों को अग्रिम (ब्याज मुक्त) (उप-अनुसूची 8 ए के अनुसार)</u> ए) वेतन बी) पर्व सी) अन्य (एलटीसी- चिकित्सा- यात्रा-इंप्रेस्ट इत्यादि) (अनुसूची 8 ए के अनुसार)	- 18,109,413.18	- 594,686.00 18,469,254.18
2 <u>कार्मिकों को दीर्घावधि अग्रिम : (ब्याज युक्त)</u> ए) वाहन ऋण बी) गृह ऋण सी) अन्य (निर्दिष्ट किया जाएगा)		
3 <u>नकद अथवा वस्तु के रूप में वसूली जाने योग्य अग्रिम तथा अन्य राशि</u> ए) पूंजीगत खाता पूंजीगत खाता पर अग्रिम पूंजीगत खाता पर अग्रिम - सिविल कार्य बी) आपूर्तिकर्ताओं को सी) अन्य जीपीएफ- अग्रिम/आहरण जीपीएफ खाते में जमा ऋण टीडीएस प्राप्त	- 108,908,981.00 1,731,691.00 43,071,655.00 15,215,000.00 2,535,120.00	4,598,132.00 23,263,981.00 1,079,310.00 43,071,655.00 15,215,000.00 1,822,626.00
4 <u>पूर्व भूगतान व्यय</u> ए) बीमा बी) अन्य व्यय	23,457.00	46,977.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

(राशि रु. में)

	विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
5	जमा ए) टेलीफोन बी) पट्टा किराया सी) विद्युत डी) एआईसीटीई - यदि लागू हो ई) अन्य (निर्दिष्ट किया जाएगा)		
6	अर्जित आय ए) उद्दिष्ट/ वित्तिदान निधि के निवेश से बी) निवेश से - अन्य सी) ऋण एवं अग्रिम से डी) अन्य (अप्राप्य देय आय समेत)	45,416,555.14	56,131,650.00
7	अन्य - यूजीसी / प्रायोजित परियोजना से प्राप्य चल परिसंपत्ति ए) प्रायोजित परियोजना में डेबिट अधिशेष बी) प्रायोजित अध्येतावृत्ति एवं छात्रवृत्ति में डेबिट अधिशेष सी) प्राप्य अनुदान डी) यूजीसी से अन्य प्राप्य	166,153,412.00	172,566,513.00
8	प्राप्य दावा		
	महा योग	401,165,284.32	336,859,784.18

1. रु. 45,98,132.00 के "पूँजीगत खाते से अग्रिम" को "कॉर्पस कैपिटल फंड" के साथ समायोजित किया गया है क्योंकि राशि 1 वर्ष से अधिक समय से अग्रणीत की ई गई है।

"पूँजीगत खाते से अग्रिम" का वर्गीकरण निम्नलिखित है

विवरण	वर्ष	राशि (रु)
त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम	2012-2013	922,112.00
बीएसएनएल	2012-2013	490,196.00
बीएसएनएल	2012-2013	1,985,400.00
बेसिल	2012-2013	351,528.00
त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम	2014-2015	848,896.00
		4,598,132.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

उप-अनुसूची-8A - कर्मचारियों को अग्रिम (गैर ब्याज धारित)

(राशि रु. में)

कर्मिकों को अग्रिम की अनुसूची					
क्र. सं.	विवरण	दिनांक : '01-अप्रैल-2023' से : '31-03-2024' तक			
		प्रारंभिक (डेबिट)	भुगतान	वसूली	समापन (डेबिट)
	कर्मिकों को अग्रिम (एलटीसी- चिकित्सा-यात्रा- अग्रदाय आदि)				
1	अभिजीत चौधुरी	249,000.00		10,000.00	239,000.00
2	अभिषेक दास	3,705.00	-	3,705.00	-
3	अभिषेक मजूमदार	19,000.00	26,336.00	28,000.00	17,336.00
4	अजय कृष्ण साहा	55,009.00	0.00	55,000.00	9.00
5	अजय कुमार मछिन्द्रनाथ सवाने	5,000.00	0.00	5,000.00	-
6	अलक रॉय	5,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00
7	आलोक प्रसाद दास				-
8	अनिर्बाण गुहा	29,330.08	32,000.00	25,000.00	36,330.08
9	अनिर्बाण कर्माकर	75,100.00	10,000.00	0.00	85,100.00
10	अंजन मुखर्जी	0.75	-	-	0.75
11	अंजना भट्टाचार्यी	110,000.00	485,000.00	545,000.00	50,000.00
12	अंजना कलाई		35,000.00	35,000.00	-
13	अरविन्दो महातो	26,910.00	-	-	26,910.00
14	अशेष गुप्ता	5,000.00	0.00	5,000.00	-
15	अशेष कुमार नायक	19,529.00	-	-	19,529.00
16	आशीष चौधुरी	75,000.00	-	-	75,000.00
17	आशीष नाथ	110,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00
18	अश्विनी चौव्हाण	87,450.00	0.00	87,450.00	-
19	बाबुल चन्द्र दास	50.00	-	-	50.00
20	बाबुल दे	43,000.00	-	-	43,000.00
21	बादल कुमार दत्ता	1,620,747.00	1,160,000.00	1,172,956.00	1,607,791.00
22	बालेश्वर सिंह	8,269.00	-	-	8,269.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

(राशि रु. में)

कार्मिकों को अग्रिम की अनुसूची					
क्र. सं.	विवरण	दिनांक : '01-अप्रैल-2023' से : '31-03-2024' तक			
		प्रारंभिक (डेबिट)	भुगतान	वसूली	समापन (डेबिट)
23	बारिन कुमार दे	11,564.00	-	11,564.00	-
24	भुवनेश्वरी बाल	10,000.00	-	-	10,000.00
25	बिधु ऋषि दास	18,760.00	-	18,760.00	-
26	बिमल देबबर्मा	5,000.00	-	5,000.00	-
27	बिमल देबनाथ	44,500.00	-	-	44,500.00
28	बिमान देबबर्मा	34,000.00	-	-	34,000.00
29	बिनोद चन्द्र त्रिपाठी	405,016.00	-	209,310.00	195,706.00
30	बिपद दास	17,950.00	-	-	17,950.00
31	बिपिन कुमार शर्मा	109,537.00	-	-	109,537.00
32	बिष्णु प्रसाद कोइरी	384,767.00	-	-	384,767.00
33	बृज मोहन पांडेय	5,000.00	-	-	5,000.00
34	चंपा नंदी	88,083.00	-	26,944.00	61,139.00
35	चंद्रिका बसु मजूमदार	232,238.00	-	232,238.00	-
36	देबर्षि मुखर्जी	185,892.00	-	171,892.00	14,000.00
37	देबाशीष मैती	186,905.00	-	-	186,905.00
38	देबाशीष रॉय चौधुरी	2.00	-	-	2.00
39	दीपक उपाध्याय	5,000.00	-	-	5,000.00
40	दिलीप कुमार राणा	200,000.00	-	-	200,000.00
41	दीपायन चौधुरी	152,482.00	-	-	152,482.00
42	इशिता बोराल	350,000.00	80,000.00	-	430,000.00
43	गौतम चाकमा	5,000.00	-	-	5,000.00
44	गुरु प्रसाद चक्रवर्ती	4,000.00	-	-	4,000.00
45	हराधन देबनाथ	13,490.00	-	-	13,490.00
46	हराधन मल्ला	10,000.00	-	-	10,000.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

(राशि रु. में)

कार्मिकों को अग्रिम की अनुसूची					
क्र. सं.	विवरण	दिनांक : '01-अप्रैल-2023' से : '31-03-2024' तक			
		प्रारंभिक (डेबिट)	भुगतान	वसूली	समापन (डेबिट)
47	हरिशंकर चक्रवर्ती	6,980.00	-	-	6,980.00
48	हरजीत नाथ	7,000.00			7,000.00
49	इंद्रनील भौमिक	40,760.00		40,000.00	760.00
50	जहर देबबर्मा	1,106,190.00	-	378,818.00	727,372.00
51	जयंत चौधुरी	307,001.75	810,000.00	909,070.00	207,931.75
52	जिम्मी देबबर्मा		290,859.00		290,859.00
53	जुपीटर चाकमा	55,000.00	-	-	55,000.00
54	कालीचरण झा		100,000.00	7,805.00	92,195.00
55	काशीनाथ दास	2,000.00	-	-	2,000.00
56	काशीनाथ जेना	88.00	-		88.00
57	खुमतिया देबबर्मा	15,000.00	-		15,000.00
58	किशलय राँय चौधुरी	460,000.00	50,000.00	500,000.00	10,000.00
59	किशोर देबनाथ	5,000.00	-	5,000.00	-
60	कृष्णा दास	8,120.00	24,000.00	24,000.00	8,120.00
61	कृष्णेन्दु धर	139,999.00	-		139,999.00
62	कुंतल मन्ना	22,500.00	5,000.00		27,500.00
63	लेथिअमा दारलॉन्ग	8,755.00			8,755.00
64	लिपिका चक्रवर्ती पति - सजल भट्टाचार्य	25,000.00			25,000.00
65	लवली रहमान	129,000.00			129,000.00
66	मधुमानिक लोध	238,872.00	458,250.00	627,059.00	70,063.00
67	महाश्वेता दास (साहा)		20,000.00	6,760.00	13,240.00
68	मलय देब	30,000.00			30,000.00
69	ममता देबबर्मा	240.00		240	-
70	मानस कुमार पाल		40,000.00	40,000.00	-



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

(राशि रु. में)

कर्मिकों को अग्रिम की अनुसूची					
क्र. सं.	विवरण	दिनांक : '01-अप्रैल-2023' से : '31-03-2024' तक			
		प्रारंभिक (डेबिट)	भुगतान	वसूली	समापन (डेबिट)
71	मंगल लक्ष्मी देबबर्मा पति - स्व. संजीत देबबर्मा	8,000.00			8,000.00
72	मानिक देबबर्मा		91,000.00	91,000.00	-
73	माणिक कुमार सेन	10,000.00			10,000.00
74	मनीष दास	165,800.00	20,250.00	72,000.00	114,050.00
75	मनोज कुमार मौर्या	11,075.00			11,075.00
76	मिलन रानी जमातिया	75,342.00		52,002.00	23,340.00
77	मिल्टन देबबर्मा	5,000.00		5,000.00	-
78	मिथु अंजलि गायन		10,000.00		10,000.00
79	मोहन देबबर्मा	143,805.00	5,000.00	40,584.00	108,221.00
80	मणिशंकर मिश्रा	20,000.00	-	-	20,000.00
81	मौसमी देबबर्मा	193,210.00		193,210.00	-
82	मृणाल कांति भौमिक(शि.)	196,134.00	45,000.00	220,875.00	20,259.00
83	मुकुलेन्द पाठक	410.00	-	-	410.00
84	मुनीन्द्र मिश्रा	1,479.00	113,500.00	114,979.00	-
85	नंद किशोर जमातिया	1,000.00	-	-	1,000.00
86	ननी गोपाल देबनाथ	90,000.00			90,000.00
87	नारायण प्रसाद दमासे	9,850.00			9,850.00
88	नरेन्दु भट्टाचार्य	75,000.00			75,000.00
89	नेविन मोग	10,000.00		10,000.00	-
90	निवेदिता दास (पान)	4,000.00			4,000.00
91	निर्मल दास	11,396.00	-	11,396.00	-
92	निर्माल्य देबनाथ	756,550.00		374,000.00	382,550.00
93	निशिकांत कोल्गे	14,775.00	-	-	14,775.00
94	नूतन कुमार एस. थिंगुजैम	14,327.00	-	-	14,327.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

(राशि रु. में)

कर्मिकों को अग्रिम की अनुसूची					
क्र. सं.	विवरण	दिनांक : '01-अप्रैल-2023' से : '31-03-2024' तक			
		प्रारंभिक (डेबिट)	भुगतान	वसूली	समापन (डेबिट)
95	पल्लब घोषाल	2,000.00	-	-	2,000.00
96	पन्ना दास	50,000.00		50,000.00	-
97	पारमिता साहा	124,999.00	22,000.00	22,000.00	124,999.00
98	परमिंदर कौर	8,000.00	-	-	8,000.00
99	पार्थ प्रतिम भट्टाचार्य	10,000.00	-	-	10,000.00
100	पवन कुमार सिंह	1,374,020.00	1,285,000.00	1,656,265.00	1,002,755.00
101	प्रदीप कुमार दे	10,000.00			10,000.00
102	प्रदीप कुमार राँय	150,000.00		150,000.00	-
103	प्रहलाद देबनाथ	32,149.00			32,149.00
104	प्रणब कुमार पाल	105,314.00		105,314.00	-
105	प्रणब राँय	1,800.00			1,800.00
106	प्रणब राँय (सहायक प्रबंधक)	10,000.00			10,000.00
107	प्रणय पाल	74,256.00			74,256.00
108	प्रशांत कुमार दास	2,712,741.00	1,177,000.00	767,000.00	3,122,741.00
109	प्रशांत कुमार राउत	21,884.00	35,000.00	19,000.00	37,884.00
110	प्रशांत एस.	14,500.00			14,500.00
111	प्रताप चन्द्र आचार्य	15,000.00	160,000.00	100,000.00	75,000.00
112	प्रवीण मिश्रा	31,265.00	-	-	31,265.00
113	आर एन दत्त पुरकायस्थ	91,000.00		45,000.00	46,000.00
114	रबीन्द्र भराली	328,050.00	-	-	328,050.00
115	रबीन्द्र कुमार महापात्रा	84,000.00	95,000.00		179,000.00
116	रबीन्द्र कुमार सिन्हा	44,416.00	-	4,480.00	39,936.00
117	रजत देब	34,966.00	-	-	34,966.00
118	राजेन्द्र प्रसाद	47,458.00	-	-	47,458.00
119	राजेश बनिक	30,000.00	44,000.00	50,000.00	24,000.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

(राशि रु. में)

कार्मिकों को अग्रिम की अनुसूची					
क्र. सं.	विवरण	दिनांक : '01-अप्रैल-2023' से : '31-03-2024' तक			
		प्रारंभिक (डेबिट)	भुगतान	वसूली	समापन (डेबिट)
120	राजेश भौमिक	585,736.00	150,000.00		735,736.00
121	राजेश चटर्जी	267,200.00	10,000.00	-	277,200.00
122	राजेश देबबर्मा	63,305.00			63,305.00
123	राजेश गणेशन	114,000.00			114,000.00
124	रणधीर भट्टाचार्य		20,000.00	20,000.00	-
125	रानेन्दु कुमार नाथ	280,627.00	10,000.00	20,000.00	270,627.00
126	रतन दास	71,000.00	75,000.00	25,000.00	121,000.00
127	रूपक चक्रवर्ती	145,000.00	205,000.00	350,000.00	-
128	सब्यसाची दासगुप्ता	17,576.00	100,000.00		117,576.00
129	संगोलसेम इन्द्र कुमार सिंह	3,000.00			3,000.00
130	समरजीत रियांग	40,000.00	100,000.00	130,000.00	10,000.00
131	शंभु रक्षित	2,000.00		-	2,000.00
132	समीर कुमार सील	184,541.00	50,000.00	50,000.00	184,541.00
133	सम्राट होर	15,000.60	-		15,000.60
134	संतोष गोस्वामी	4,500.00	-	-	4,500.00
135	सप्तर्षि मित्रा		250,000.00	250,000.00	-
136	सत्यदेव पोद्दार	102,189.00	-	-	102,189.00
137	शंकर नाथ तिवारी	14,652.00	10,000.00	-	24,652.00
138	शाओन रॉय चौधुरी		80,000.00	20,000.00	60,000.00
139	शर्मिला छोटाराय	3,365.00	15,000.00	15,000.00	3,365.00
140	शर्मिष्ठा भट्टाचार्या (हल्दर)	4,063.00	-	-	4,063.00
141	शेखरेश भट्टाचार्य	5,051.00	-	-	5,051.00
142	शिबेन्दु देबबर्मा	422,000.00	-	-	422,000.00
143	सीमा दासगुप्ता	3,000.00	-	3,000.00	-



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

(राशि रु. में)

कार्मिकों को अग्रिम की अनुसूची					
क्र. सं.	विवरण	दिनांक : '01-अप्रैल-2023' से : '31-03-2024' तक			
		प्रारंभिक (डेबिट)	भुगतान	वसूली	समापन (डेबिट)
144	सिंधु पौडियाल	35,000.00	35,000.00	-	70,000.00
145	सोमदेब बनिक	20.00	182,000.00	165,000.00	17,020.00
146	सोरोखैबम गंभिनी	40,498.00	-	-	40,498.00
147	सौरभ देब	369,000.00	465,000.00	390,000.00	444,000.00
148	सुभाष सरकार	30,000.00			30,000.00
149	सुभ्रबरन दास		605,000.00		605,000.00
150	सुबीर कुमार सेन	70.00			70.00
151	सुब्रत नंदी	62,572.00	139,000.00	129,000.00	72,572.00
152	सुदीप दास	82,209.00	78,000.00	78,000.00	82,209.00
153	सुखेन्दु देबबर्मा	10,000.00			10,000.00
154	सुनील कलई	109,060.00	1,000,000.00		1,109,060.00
155	सुनील कुमार दे	19,000.00		19,000.00	-
156	सुपर्णा साहा	14,000.00			14,000.00
157	सुराजीत भट्टाचार्य	15,000.00	20,000.00	35,000.00	-
158	सुराजीत सरकार	154,157.00	137,000.00	196,900.00	94,257.00
159	सूर्य चट्टोपाध्याय	5,000.00			5,000.00
160	स्वनिर्भर मजूमदार	2,400.00	252,000.00	4,400.00	250,000.00
161	स्वरूप नंदी	1,000.00	-	-	1,000.00
162	श्यामल साहा	30,000.00	90,000.00	120,000.00	-
163	सयद अर्शद हुसैन	35,000.00	600,000.00	630,000.00	5,000.00
164	तनय दास	30,000.00			30,000.00
165	तापस कुमार देबबर्मा	25,000.00	-	-	25,000.00
166	थिरु सेल्वन	700.00			700.00
167	टिंकु दे (गोप)	10,000.00			10,000.00
168	उत्पल विश्वास	79,000.00	86,000.00	56,000.00	109,000.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

(राशि रु. में)

कार्मिकों को अग्रिम की अनुसूची					
क्र. सं.	विवरण	दिनांक : '01-अप्रैल-2023' से : '31-03-2024' तक			
		प्रारंभिक (डेबिट)	भुगतान	वसूली	समापन (डेबिट)
169	उत्पल चन्द्र दे	10,000.00			10,000.00
170	उत्तम दास	66,000.00		16,060.00	49,940.00
171	उत्तम देबबर्मा	10,000.00		10,000.00	-
172	विनोद कुमार मिश्र	18,000.00	-	-	18,000.00
173	वाई वी कृष्णैया	-	480,000.00	200,000.00	280,000.00
योग		18,469,254.18	11,988,195.00	12,348,036.00	18,109,413.18





आय एवं व्यय खाते का अंश निर्मित करने वाली अनुसूचियाँ





त्रिपुरा विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 9- शैक्षिक प्राप्तियाँ

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
छात्रों से शुल्क		
अकादमिक		
सेमेस्टर शुल्क	660,550.00	1,105,000.00
नामांकन शुल्क	10,497,605.88	6,173,258.01
पंजीयन शुल्क	11,585,948.00	662,591.00
ट्यूशन शुल्क	30,461,325.00	31,650,025.00
पीएच.डी. पंजीयन शुल्क	238,600.00	112,700.00
प्रवेश पत्र शुल्क	300.00	1,600.00
स्पोर्ट्स शुल्क	856,860.00	873,050.00
पुस्तकालय शुल्क	2,235,305.00	2,344,764.00
पंजीयन शुल्क	1,620,700.00	2,075,500.00
प्रयोगशाला शुल्क	4,365,200.00	4,931,650.00
बीमा शुल्क	1,076,700.00	
विलंब शुल्क	-	250.00
छात्र कल्याण निधि	2,439,000.00	2,486,800.00
योग (ए)	66,038,093.88	52,417,188.01
परीक्षा		
परीक्षा शुल्क	98,255,344.00	83,172,315.00
अंकतालिका	445,583.00	498,810.00
प्रमाणपत्र शुल्क	1,630,821.00	1,867,080.00
योग (बी)	100,331,748.00	85,538,205.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
<u>अन्य शुल्क</u>		
कंप्यूटर /वाई-फाय	1,408,800.00	-
छात्रावास प्रवेश शुल्क	-	1,082,350.00
छात्रावास में विद्युत चार्ज के साथ सीट किराया	1,134,140.00	389,850.00
जुर्माना एवं कम उपस्थिति	-	105,500.00
पहचान पत्र शुल्क	-	580.00
निरीक्षण शुल्क	145,010.00	342,700.00
माइग्रेशन शुल्क	7,958,703.00	5,040,310.00
नॉन-कॉलेजिएट शुल्क	84,800.00	219,148.00
अन्य शुल्क	2,296,026.00	135,345.64
कुल (सी)	13,027,479.00	7,315,783.64
<u>प्रकाशन-बिक्री</u>		
प्रोस्पेक्ट्स शुल्क एवं अन्य	0.00	0.00
फॉर्म का मूल्य	0.00	0.00
योग (डी)	0.00	0.00
<u>अन्य अकादमिक प्राप्ति</u>		
कार्यशाला- कार्यक्रमों के लिए पंजीयन शुल्क	2,413,963.00	748,343.00
पंजीयन शुल्क (अकादमिक स्टाफ कॉलेज)	0.00	0.00
योग (ई)	2,413,963.00	748,343.00
महा योग (ए+बी+सी+डी+ई)	181,811,283.88	146,019,519.65

टिप्पणी :

- यदि प्रवेश शुल्क, सदस्यता आदि शुल्क महत्वपूर्ण है और पूंजीगत प्राप्तियों की प्रकृति में है, तो ऐसी राशि को पूंजीगत निधि में मान्यता दी गई है अन्यथा ऐसे शुल्क को इस अनुसूची में शामिल किया गया है।
- छात्रों से प्राप्त ट्यूशन शुल्क रु. 74,49,100.00 जो कि अप्रैल, 24 से जून, 24 के मध्य प्राप्त हुआ उसे देयता के रूप में मान्यता दी गई है।



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 10- अनुदान/सब्सिडी (अखंड अनुदान प्राप्त)

(राशि रु. में)

विवरण	भारत सरकार	यूजीसी			वेतन और आवर्ती अनुदान	वर्तमान वर्ष योग	पिछले वर्ष योग
		योजना/ पूँजीगत संपत्ति	विशिष्ट योजनाएँ	कुल			
अधिशेष बी/एफ		21,421,000.00	26,000.00	21,447,000.00	-	21,447,000.00	65,023,714.28
जोड़ : वर्ष के दौरान प्राप्ति		165,526,900.00	61,574,000.00	227,100,900.00	904,619,253.00	1,131,720,153.00	933,096,702.00
योग		186,947,900.00	61,600,000.00	248,547,900.00	904,619,253.00	1,153,167,153.00	998,120,416.28
घटाव : वापसी		10,461,000.00		10,461,000.00	-	10,461,000.00	43,602,714.28
घटाव : पूँजीगत व्यय में प्रयुक्त (ए)		97,137,900.00	27,518,000.00	124,655,900.00	-	124,655,900.00	74,995,772.00
अधिशेष		79,349,000.00	34,082,000.00	113,431,000.00	904,619,253.00	1,018,050,253.00	879,521,930.00
घटाव : राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त (बी)		-		-	904,619,253.00	904,619,253.00	858,074,930.00
अधिशेष सी/एफ		79,349,000.00	34,082,000.00	113,431,000.00	-	113,431,000.00	21,447,000.00

टिप्पणी :

- ए. वर्ष के दौरान पूँजीगत निधि तथा स्थाई परिसंपत्ति के योग में दर्शाया गया है।
- बी. आय एवं व्यय लेखा में आय के रूप में दर्शाया गया है।
- सी. (i) बैलेंस शीट में वर्तमान देयता के अंतर्गत दर्शाया गया है जो कि अगले वर्ष के लिए प्रारंभिक अधिशेष होगा।
(ii) परिसंपत्ति मद में बैंक अधिशेष, निवेश तथा अग्रिम को दर्शाया गया है।
- डी. दिनांक 30.10.2023 को कुल 2,14,21,000.00 रुपये की अनुदान राशि के प्रारंभिक अधिशेष में से 54,66,000.00 रुपये (वित्त वर्ष 2019-2020 से संबंधित निधि) के कॉर्पस निधि में तथा 1,04,61,000 रुपये के यूजीसी को हस्तांतरित कर दी गई है।
- ई. रु. 2,14,21,000.00 के अनुदान के प्रारंभिक अधिशेष में वित्तीय वर्ष 2017-2018 से अग्रणीत किए गए रु. 5,61,000.00 शामिल हैं।
- एफ. वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा आरबीआई खाता संख्या 10671301066 में "अनुदान सहायता पूँजी" शीर्ष के तहत 16,55,26,900.00 रुपये प्राप्त किए गए हैं और इतनी ही राशि पूरी तरह से संवितरित की गई थी। रु. 16,25,26,900.00 की प्राप्ति के सापेक्ष रु. 9,71,37,900.00 को "अनुसूची-10 एवं 3सी" में उपयोग किए गए पूँजी अनुदान के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि रु. 6,83,89,000.00 को "पूँजी खाते पर अग्रिम - सिविल कार्य" के रूप में संवितरित किया गया था और भविष्य में वेंडर द्वारा प्रस्तुत बिल के आधार पर उपयोग के रूप में माना जाएगा।
- जी. वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा "टीयू एनईसी बैंक" खाता संख्या 41541260377 में "अनुदान सहायता पूँजी" शीर्ष के तहत 6,15,74,000.00 रुपये प्राप्त किए गए हैं और इतनी ही राशि पूरी तरह से संवितरित की गई थी। रु. 6,16,00,000.00 की कुल प्राप्ति के सापेक्ष रु. 2,75,18,000.00 को "अनुसूची-10 एवं 3सी" में उपयोग किए गए पूँजी अनुदान के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि रु. 3,40,82,000.00 को "पूँजी खाते पर अग्रिम - सिविल कार्य" के रूप में संवितरित किया गया था और भविष्य में विक्रेता द्वारा प्रस्तुत बिल के आधार पर उपयोग के रूप में माना जाएगा।



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 11 - निवेश से आय

(राशि रु. में)

विवरण	उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि		अन्य निवेश	
	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. ब्याज				
ए) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
बी) अन्य बॉन्ड / डिबेंचर पर	-	-	-	-
2. सावधि जमा पर ब्याज	-	-	-	-
एक्सिस बैंक सावधि निवेश पर ब्याज	-	-	-	-
सावधि निवेश पर ब्याज	77,490.00	83,830.00	42,769,095.64	42,388,062.26
सावधि निवेश पर ब्याज (आंतरिक प्राप्ति)	-	-	-	60,012.00
3. आय अर्जित लेकिन सावधि जमा/ब्याज पर देय नहीं	-	-	-	-
कार्मिकों को अग्रिम भुगतान	-	-	-	-
4. बचत बैंक खाता पर ब्याज	64,848.00	49,472.00	-	-
5. अन्य से आय (निर्दिष्ट)	-	-	-	-
योग	142,338.00	133,302.00	42,769,095.64	42,448,074.26
उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि को स्थानांतरित	142,338.00	133,302.00		
योग	0.00	0.00		



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 12- अर्जित ब्याज

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. अनुसूचित बैंक के बचत खातों में		
पीएमएमएमएमएमटीटी खाता पर ब्याज		7,155.00
राज्य अवधि के बैंक खातों में ब्याज	130,490.00	29,477.00
कॉर्पस निधि खाता में ब्याज	338,443.00	326,734.00
एक्सिस बैंक खाता में ब्याज	123,292.00	357,705.00
डेट पर ब्याज - जमा एवं अग्रिम खाता	246,067.00	200,471.00
आंतरिक प्राप्ति खाता पर ब्याज	8,097,083.00	4,541,389.00
सांस्कृतिक उत्सव खाता पर ब्याज	12,908.00	12,538.00
विकास निधि खाता पर ब्याज		247,092.00
अभियांत्रिकी तथा प्रबंधन एवं यूजीसी अनुदान खातों पर ब्याज	40.00	40.00
मज्जु योजना पर ब्याज	1,135.00	1,215.00
नॉन-नेट पीएच.डी. खाता पर ब्याज	1,611.00	1,497.00
बी. बोक खाता पर ब्याज	2,464.00	2,297.00
नई तालिम खाता पर ब्याज	11,749.00	7,828.00
आईसीआईसीआई बैंक खाता पर ब्याज	225,695.00	181,834.00
आईएस कोचिंग केन्द्र पर ब्याज	3,790.00	3,681.00
2. ऋण पर		
ए) कर्मचारी/ स्टाफ ऋण	-	-
बी) अन्य	-	-
सी) कर्मचारियों से अर्जित ब्याज	-	-
3. कर्जदारों एवं अन्य प्राप्तियों से	-	-
महा योग	9,194,767.00	5,920,953.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 13- अन्य आय

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
ए. जमीन एवं भवन से आय		
एटीएम तथा परिसर किराया	251,452.00	251,452.00
अतिथि गृह किराया	1,767,911.65	1,471,982.12
किराया रसीद	74,085.00	
लाइसेंस शुल्क	635,089.00	5,580.00
बी. संस्थान के प्रकाशन विक्रय से		
सी. आयोजनों के आयोजन से प्राप्त आय		
1. वार्षिक उत्सव/ क्रीड़ा मेला से प्राप्त सकल प्राप्तियां	-	-
घटाव : वार्षिक कार्यक्रम/ खेल कार्निवल में हुआ प्रत्यक्ष व्यय	-	-
2. फेस्ट से कुल प्राप्तियां	-	-
घटाव : फेस्ट में हुआ प्रत्यक्ष व्यय	-	-
3. शैक्षिक भ्रमण के लिए सकल प्राप्तियां	-	-
घटाव : भ्रमण पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय	-	-
4. आयोजनों के आयोजन से अन्य आय (निर्दिष्ट होगा तथा पृथक दर्शाया जाएगा)	-	-
डी. अन्य		
भर्ती शुल्क	2,492,994.10	-
निविदा शुल्क	68,500.00	72,000.00
एनर्जी बिल	-	20,686.00
आयकर विभाग से टीडीएस की वापसी	1,945,980.00	-
अन्य प्राप्तियां	234,398.00	692,600.00
सब्जी एवं फल विक्रय से प्राप्त आय	197,571.67	48,050.44
ई. कटौती योग्य आय		
ऊर्जा बिल कटौती	-	-
वेतन कटौती	1,397,986.00	-
पिनैल्टी कटौती	-	-
महा योग (ए+बी+सी+डी+ई)	9,065,967.42	2,562,350.56



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 14 - गतावधि आय

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. अकादमिक प्राप्ति	-	-
2. निवेश से आय	-	-
3. अर्जित ब्याज	-	-
4. अन्य आय	1,479,600.00	-
महा योग	1,479,600.00	-

टिप्पणी:

- 1) विश्वविद्यालय को वर्ष 2022-2023 के दौरान छात्रों से वाई-फाई नेटवर्क के उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में 14,79,600.00 रुपये की राशि प्राप्त हुई, लेकिन इसे कॉम हॉट स्पॉट/वाई-फाई (अनुसूची - 4ए) मद के तहत गलत तरीके से कम कर दिया गया और इसलिए अब मूर्त संपत्ति के तहत हॉट स्पॉट/वाई-फाई के अंतर्गत 14,79,600.00 रुपये जोड़ा गया है और मूल्यहास को पूर्व अवधि की आय के साथ जोड़ा और समायोजित किया गया है।



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 15 - कर्मचारी भुगतान एवं लाभ (स्थापना व्यय)

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष				गत वर्ष			
	योजना / स्कीम	वेतन अनुदान सहायता	आवर्ती (सामान्य)	योग	योजना / स्कीम	वेतन अनुदान सहायता	आवर्ती (सामान्य)	योग
ए. वेतन एवं पारिश्रमिक								
एरियर डीए - शिक्षक	-	5,253,341.00	-	5,253,341.00	-	3,937,867.00	-	3,937,867.00
एरियर पेंशन	-	-	357,449.00	357,449.00	-	-	2,683,159.00	2,683,159.00
एरियर डीए (गैर -शैक्षिक)	-	2,135,766.00	-	2,135,766.00	-	1,620,399.00	-	1,620,399.00
एरियर वेतन - (शैक्षिक)	-	32,887,272.00	-	32,887,272.00	-	42,914,873.00	-	42,914,873.00
एरियर वेतन - (गैर -शैक्षिक)	-	329,123.00	-	329,123.00	-	827,311.00	-	827,311.00
वेतन - शैक्षिक कर्मचारी	-	379,602,724.00	-	379,602,724.00	-	348,147,949.00	-	348,147,949.00
वेतन - गैर शैक्षिक कर्मचारी	-	149,206,789.00	-	149,206,789.00	-	141,782,759.00	-	141,782,759.00
वेतन (एफडीसी)	-	-	-	-	-	-	-	-
संविदा शैक्षिक कर्मियों को वेतन	-	-	2,071,617.00	2,071,617.00	-	-	2,071,617.00	2,071,617.00
एकम्पनीस्ट कर्मचारियों को वेतन	-	-	1,675,485.00	1,675,485.00	-	-	1,675,485.00	1,675,485.00
पुनर्नियोजित कर्मचारियों का वेतन	-	-	-	-	-	-	-	-
अस्थाई कर्मचारियों का वेतन	-	2,265,252.00	-	2,265,252.00	-	2,242,392.00	-	2,242,392.00
बी वोक. के संविदा कर्मियों का वेतन (सामा.)	-	-	-	-	-	-	81,805.00	81,805.00
केन्द्रीय अवधि पेंशनर्स का वेतन	-	-	-	-	-	-	-	-
राज्य अवधि पेंशनर वेतन	-	-	-	-	-	-	-	-
पारिश्रमिक	-	-	558,000.00	558,000.00	-	-	562,000.00	562,000.00
डीए एरियर	-	-	2,049,884.00	2,049,884.00	-	-	1,012,644.00	1,012,644.00
संविदा कर्मियों का वेतन (बी. वोक.)	896,707.00	-	-	896,707.00	768,896.00	-	-	768,896.00
टीएसईसीएल के प्रतिनियुक्ति कर्मियों का वेतन	-	3,425,736.00	-	3,425,736.00	-	3,051,983.00	-	3,051,983.00
डीआरडब्ल्यू/संविदा कर्मियों का वेतन	-	-	104,726.00	104,726.00	-	-	-	-
वेतन-शिक्षा विद्यापीठ	-	682,373.00	-	682,373.00	-	1,536,927.00	-	1,536,927.00
एडजंक्ट संकाय का वेतन	-	-	-	-	-	-	-	-
एरियर वेतन (एसओई)	871.00	-	-	871.00	-	-	-	-
एरियर वेतन (टीएसईसीएल)	-	50,939.00	-	50,939.00	-	-	-	-
एरियर डीए(टीएसईसीएल)	-	-	-	-	-	47,230.00	-	47,230.00
आउट सोर्सिंग कर्मचारी वेतन(एफडीसी)	-	-	-	-	-	-	-	-
एरियर वेतन (सीएलटीएसएस)	-	155,844.00	-	155,844.00	-	-	-	-
एरियर डीए (सीएलटीएस)	-	28,992.00	-	28,992.00	-	24,744.00	-	24,744.00
संविदा कर्मियों को एरियर (गैरशैक्षणिक)	-	-	19,454,594.00	19,454,594.00	-	-	18,541,588.00	18,541,588.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष				गत वर्ष			
	योजना / स्कीम	वेतन अनुदान सहायता	आवर्ती (सामान्य)	योग	योजना / स्कीम	वेतन अनुदान सहायता	आवर्ती (सामान्य)	योग
बी. भत्ते एवं बोनस								
पर्व अनुदान	-	14,400.00	-	14,400.00	-	12,000.00	-	12,000.00
ओटीए	-	-	169,781.00	169,781.00	-	-	161,429.00	161,429.00
सी. भविष्य निधि में योगदान								
एनपीएस - नियोक्ता योगदान	-	-	40,453,027.28	40,453,027.28	-	-	39,568,725.00	39,568,725.00
डी. अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट)								
नियोक्ता भविष्य निधि	-	-	1,931,075.00	1,931,075.00	-	-	1,983,386.00	1,983,386.00
ई. कर्मचारी कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ. सेवानिवृत्ति एवं आवधिक लाभ								
उपदान	-	58,767,142.00	-	58,767,142.00	-	28,933,996.00	-	28,933,996.00
कम्यूटेशन वैल्यू	-	-	18,077,701.00	18,077,701.00	-	-	12,005,206.00	12,005,206.00
वेतन छोड़ दे	-	-5,888,741.00	-	-5,888,741.00	-	167,961,804.00	-	167,961,804.00
पेंशन खाता	-		573,521,162.00	573,521,162.00	-		770,151,144.00	770,151,144.00
जी. एलटीसी सुविधा								-
एलटीसी	-	4,285,083.00	-	4,285,083.00	-	5,156,308.00	-	5,156,308.00
लीव एनकैशमेंट (एलटीसी)	-	1,594,457.00	-	1,594,457.00	-	2,437,068.00	-	2,437,068.00
एच. चिकित्सा सुविधा								
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	6,418,269.00	-	6,418,269.00	-	3,037,255.00	-	3,037,255.00
आई. बच्चों की शिक्षा भत्ता	-	4,798,016.00	-	4,798,016.00	-	5,007,610.00	-	5,007,610.00
जे. शुल्क								
मानदेय	-	-	1,828,109.00	1,828,109.00	-	-	1,026,785.00	1,026,785.00
मानदेय (एफडीसी)	-	-	-	-	-	-	-	-
मानदेय (नेट काउचिंग)	-	-	-	-	-	-	-	-
मानदेय (ईओसी)	-	-	-	-	-	-	-	-
मानदेय (बी. वोक)	-	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00
मानदेय (अतिथि संकाय)	-	-	16,855,700.00	16,855,700.00	-	-	14,612,250.00	14,612,250.00
आवश्यक सेवा भत्ता	-	-	183,000.00	183,000.00	-	-	177,000.00	177,000.00
के. अन्य								
यूजीसी वेतन मद में ब्याज वापसी	-	-	-	-	-	-	-	-
महायोग	897,578.00	646,012,777.00	679,291,310.28	1,326,201,665.28	788,896.00	758,680,475.00	866,314,223.00	1,625,783,594.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 15 ए - कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं टर्मिनल लाभ

(राशि रु. में)

	पेंशन	ग्रेच्युटी	छुट्टी-नकदीकरण	योग
दिनांक 01.04.2023 प्रारंभिक अधिशेष	2,080,146,771.00	157,722,931.00	292,630,294.00	2,530,499,996.00
जोड़ : अन्य संस्थानों से प्राप्त योगदान का पूंजीगत मूल्य	-	-	-	-
योग (ए)	2,080,146,771.00	157,722,931.00	292,630,294.00	2,530,499,996.00
घटाव : वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान (बी)	87,114,542.00	13,740,149.00	15,688,486.00	116,543,177.00
दिनांक 31.03.2024 को उपलब्ध अधिशेष [सी = (ए-बी)]	1,993,032,229.00	143,982,782.00	276,941,808.00	2,413,956,819.00
दिनांक 31.03.2024 को वास्तविक मूल्य के अनुसार आवश्यक प्रावधान (डी)	2,566,553,391.00	202,749,924.00	271,053,067.00	3,040,356,382.00
वर्तमान वर्ष में किए जाने वाले प्रावधान [ई = (डी-सी)]	573,521,162.00	58,767,142.00	-5,888,741.00	626,399,563.00
बी. राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान	-	-	-	-
सी. सेवानिवृत्त कर्मिकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
डी. सेवानिवृत्ति पर गृहनगर यात्रा हेतु	-	-	-	-
ई. डिपॉजिट लिंकड बीमा भुगतान	-	-	-	-
योग (ए+बी+सी+डी+ई)	573,521,162.00	58,767,142.00	-5,888,741.00	626,399,563.00

टिप्पणी :

1. कुल (ए+बी+सी+डी+ई) इस उप अनुसूची में अनुसूची 15 में सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ के सामने का आंकड़ा है।



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)
अनुसूची 16 - शैक्षिक व्यय

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष			गत वर्ष		
	योजना/ स्कीम	अनुदान सहायता (सामान्य)	योग	योजना/ स्कीम	अनुदान सहायता (सामान्य)	योग
ए) प्रयोगशाला व्यय						
उपभोज्य		4,370,658.00	4,370,658.00		4,311,944.00	4,311,944.00
बी) फील्ड कार्य/ संगोष्ठी में सहभागिता						-
यात्रा अनुदान (यूएजी)			-			-
सी) संगोष्ठी/ कार्यशाला पर व्यय						-
संगोष्ठी/ सम्मेलन		4,207,684.00	4,207,684.00		2,051,873.00	2,051,873.00
यूएस कार्यशाला		105,990.00	105,990.00			
डी) अभ्यागत संकायों को भुगतान						-
अभ्यागत अध्येता		150,520.00	150,520.00			-
ई) परीक्षा						-
परीक्षा व्यय		43,939.00	43,939.00		97,263.00	97,263.00
पारिश्रमिक		16,355,294.00	16,355,294.00		11,030,965.00	11,030,965.00
एफ) छात्र कल्याण व्यय						-
जी) प्रवेश व्यय		1,273,360.00	1,273,360.00		1,024,450.00	1,024,450.00
एच) दीक्षांत व्यय		1,213,539.00	1,213,539.00		296,714.00	296,714.00
आई) प्रकाशन			-			-
जे) वजीफा / साधन-सह-योग्यता			-			-
के) सब्सक्रिप्शन व्यय			-			-
एल) अन्य (उद्दिष्ट करें)						-
छात्रवृत्ति - गैर नेट पीएच.डी.	-	8,445,145.00	8,445,145.00		14,654,724.00	14,654,724.00
आकस्मिकता (गैर नेट)	-	689,520.00	689,520.00		1,289,598.00	1,289,598.00
एआईसीटीई शुल्क		30,000.00	30,000.00			
सदस्यता शुल्क	-		-		94,366.00	94,366.00
महा योग	-	36,885,649.00	36,885,649.00	-	34,851,897.00	34,851,897.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 17 – प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष			गत वर्ष		
	योजना/	आवर्ती (सामान्य)	योग	योजना/ स्कीम	आवर्ती (सामान्य)	योग
ए. आधारभूत संरचना						
विद्युत बिल		9,083,082.00	9,083,082.00		2,986,007.00	2,986,007.00
सौर ऊर्जा बिल		1,211,939.00	1,211,939.00		1,321,483.00	1,321,483.00
बी. संचार			-			-
पोस्टेज एवं कोरियर		236,725.00	236,725.00		224,345.00	224,345.00
स्टेशनरी व्यय		7,196,118.00	7,196,118.00		1,626,510.00	1,626,510.00
टेलीफोन बिल		502,188.00	502,188.00		232,484.00	232,484.00
सी. अन्य			-			-
साइन बोर्ड			-		1,851,920.00	1,851,920.00
प्रयोक्ता अधिभार			-		3,823,200.00	3,823,200.00
प्रिंटिंग व्यय		16,662,952.00	16,662,952.00		8,471,974.00	8,471,974.00
टीए /डीए (एक्सपर्ट) व्यय		3,676,431.00	3,676,431.00		3,630,439.00	3,630,439.00
टीए/ डीए (कार्यालयीन) व्यय		2,351,200.00	2,351,200.00		1,129,530.00	1,129,530.00
व्यावसायिक शुल्क		466,100.00	466,100.00		363,499.00	363,499.00
विज्ञापन एवं प्रदर्शन		832,279.00	832,279.00		230,009.00	230,009.00
वार्षिक रखरखाव अनुबंध		8,577,127.00	8,577,127.00		7,736,441.00	7,736,441.00
परिसर सौंदर्यीकरण		2,305,559.00	2,305,559.00		2,561,742.00	2,561,742.00
आकस्मिक व्यय		5,130,614.00	5,130,614.00		6,185,547.00	6,185,547.00
एआईयू शुल्क		59,000.00	59,000.00		88,990.00	88,990.00
ईसी एवं एफसी-बैठक व्यय		257,365.00	257,365.00		-	-
अतिथि गृह व्यय (भोजन)		284,216.00	284,216.00		316,200.00	316,200.00
अतिथि गृह रुम किराया व्यय - एफडीसी		-	-		-	-
विधिक व्यय		1,107,030.00	1,107,030.00		935,116.00	935,116.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष			गत वर्ष		
	योजना/ स्कीम	आवर्ती (सामान्य)	योग	योजना/ स्कीम	आवर्ती (सामान्य)	योग
विविध व्यय (रखरखाव अनुदान)		150,715.00	150,715.00		31,528.00	31,528.00
क्रीड़ा मंडल		3,745,153.00	3,745,153.00		3,666,580.00	3,666,580.00
शैक्षिक भ्रमण व्यय		1,652,147.00	1,652,147.00		135,711.00	135,711.00
वेबसाइट-रखरखाव		105,553.00	105,553.00		61,124.00	61,124.00
बाह्यस्रोत कार्मिक (बाह्यस्रोत व्यय)		7,906,077.00	7,906,077.00		6,024,176.00	6,024,176.00
आईएस कोचिंग केन्द्र व्यय			-		0.00	-
सुरक्षा प्रहरी (बाह्यस्रोत व्यय)		8,875,595.00	8,875,595.00		7,500,931.00	7,500,931.00
स्वीपिंग तथा क्लीनिंग (बाह्यस्रोत व्यय)		9,893,371.00	9,893,371.00		7,813,261.00	7,813,261.00
टीए/ डीए (बी. वोक)			-			-
आकस्मिक (बी. वोक)			-	4,959.00		4,959.00
अतिथि गृह व्यय (रूम किराया)		207,122.00	207,122.00		531,562.00	531,562.00
लेखापरीक्षा शुल्क		59,000.00	59,000.00		59,000.00	59,000.00
संगोष्ठी (एफडीसी)			-			-
मॉक विजिट शुल्क			-		272,965.00	272,965.00
नवाचार शोध गतिविधियां			-		160,000.00	160,000.00
बीमा		76,261.00	76,261.00		468,622.00	468,622.00
परिवहन लागत			-		76,797.00	76,797.00
नैक विजिट शुल्क		147,852.00	147,852.00		796,500.00	796,500.00
नैक व्यय		430,575.00	430,575.00		1,006,508.00	1,006,508.00
एलुमनी शुल्क		460,200.00	460,200.00			-
महाविद्यालय क्रीड़ा शुल्क		61,720.00	61,720.00			
केन्द्र शुल्क (एनईपी)		1,246,063.00	1,246,063.00			
डी. अन्य			-			-
महा योग	-	94,957,329.00	94,957,329.00	4,959.00	72,320,701.00	72,325,660.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 18 - परिवहन व्यय

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष			गत वर्ष		
	योजना/ स्कीम	आवर्ती (सामान्य)	योग	योजना/ स्कीम	आवर्ती - सामान्य	योग
1. परिवहन (संस्थान के स्वामित्व में)	-	-			-	
ए) चालू व्यय (पोल सामान्य)	-		-	-	26,625.00	26,625.00
बी) वाहन बीमा	-	47,466.00	47,466.00	-	85,007.00	85,007.00
सी) पोल एवं रखरखाव	-	449,562.00	449,562.00	-	501,824.00	501,824.00
2. किराया/ पट्टे पर लिया गया वाहन	-	-			-	
किराया / पट्टा व्यय	-	-	-	-	-	-
3. वाहन (टैक्सी) किराया व्यय	-	-	-		-	
वाहन किराया	-	2,483,750.00	2,483,750.00	-	2,261,315.00	2,261,315.00
महा योग	-	2,980,778.00	2,980,778.00	-	2,874,771.00	2,874,771.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 19 - रखरखाव एवं मरम्मत व्यय

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष			गत वर्ष		
	योजना/ स्कीम	आवर्ती (सामान्य)	योग	योजना/ स्कीम	आवर्ती - सामान्य	योग
ए) भवन	-	1,547,194.00	1,547,194.00	-	6,367,238.00	6,367,238.00
बी) फर्नीचर एवं फिक्सचर	-	766,568.00	766,568.00	-	1,109,385.00	1,109,385.00
सी) प्लांट एवं मशीनरी	-	-	-	-	-	-
डी) कार्यालय उपकरण	-	687,460.48	687,460.48	-	892,297.00	892,297.00
ई) कंप्यूटर	-	458,141.00	458,141.00	-	1,009,838.00	1,009,838.00
एफ) प्रयोगशाला एवं विज्ञान उपकरण	-	1,553,450.00	1,553,450.00	-	-	-
जी) दृश्य एवं श्रव्य उपकरण	-	-	-	-	-	-
एच) क्लीनिंग सामग्री एवं सेवाएं	-	49,000.00	49,000.00	-	273,886.00	273,886.00
आई) पुस्तक बाइंडिंग अधिभार	-	0.00	-	-	0.00	-
जे) बागवानी	-	-	-	-	-	-
के) अन्य अवसंरचना	-	-	-	-	-	-
एल) विद्युत कार्य	-	3,602,413.00	3,602,413.00	-	12,353,071.00	12,353,071.00
एम) मरम्मत एवं रखरखाव	-	937,204.00	937,204.00	-	135,116.00	135,116.00
एन) ट्रांसपोर्टेशन	-	140,028.00	140,028.00	-	-	-
ओ) परिसर विकास	1,040,576.00	-	1,040,576.00	-	-	-
पी) विद्युतीय कार्य (पूँजीगत परिसंपत्ति)	-	-	-	-	-	-
क्यू) बागवानी	-	24,725.00	24,725.00	-	24,725.00	24,725.00
महा योग	1,040,576.00	9,766,183.48	10,806,759.48	-	22,165,556.00	22,165,556.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 20 – वित्तीय लागत

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष			गत वर्ष		
	योजना/ स्कीम	आवर्ती (सामान्य)	योग	योजना/ स्कीम	आवर्ती - सामान्य	योग
ए) बैंक चार्ज	-	18,247.70	18,247.70	-	31,225.74	31,225.74
बी) बैंक चार्ज (आंतरिक प्राप्ति)	-	3,306.45	3,306.45	-	101,885.00	101,885.00
सी) बैंक चार्ज (बी. वोक)	-	-	-	-	-	-
डी) बैंक चार्ज (सामान्य)	-	-	-	-	-	-
ई) बैंक चार्ज (वेतन)	-	47.20	47.20	-	-	-
एफ) बैंक चार्ज (पूँजीगत परिसंपत्ति)	-	-	-	-	-	-
जी) अन्य (निर्दिष्ट)	-	-	-	-	-	-
महा योग	-	21,601.35	21,601.35	-	133,110.74	133,110.74



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 21- अन्य व्यय

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष			गत वर्ष		
	योजना/	आवर्ती	योग	योजना/	आवर्ती -	योग
ए) डूबे एवं संदेहास्पद ऋण/ अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-	-	-	-	-
बी) अशोध्य अधिशेष को बट्टा खाते में डाल दिया गया	-	-	-	-	-	-
सी) अन्य संस्थानों/संगठनों को अनुदान / सहायकी	-	-	-	-	-	-
डी) अन्य (निर्दिष्ट)	-	-	-	-	-	-
महा योग	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी :

अन्य व्ययों को बट्टे खाते में डालने, प्रावधान, विविध व्यय, निवेश की बिक्री पर हानि, अचल परिसंपत्तियों की हानि और अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि आदि के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा तदनुसार उसे दर्शाया जाएगा।



त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची 22- पूर्वावधि व्यय

(राशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष			गत वर्ष		
	योजना /स्कीम	आवर्ती	योग	योजना /स्कीम	आवर्ती (सामान्य)	योग
1. स्थापना व्यय	-	-	-	-	-	-
2. अकादमिक व्यय	-	-	-	-	-	-
3. प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
4. परिवहन व्यय	-	-	-	-	-	-
5. मरम्मत एवं रखरखाव	-	-	-	-	-	-
6. अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-
महा योग	-	-	-	-	-	-



महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ





अनुसूची : 23

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

वर्ष का समापन: 31.03.2024

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (विवरणात्मक)

1. लेखा निर्माण का आधार

- 1.1 विश्वविद्यालय के लेखा का निर्माण ऐतिहासिक कॉस्ट कन्वेंशन और लेखा की संचयी विधि के आधार पर किया गया है।
- 1.2 विश्वविद्यालय ने वित्तीय प्रबंधन और नियंत्रण के लिए सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों और शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अन्य आदेशों को आधार बनाया है।

2. राजस्व मान्यता

- 2.1 छात्रों से शुल्क, प्रवेश आवेदन पत्र के विक्रय, रॉयल्टी एवं बचत खाते का ब्याज की गणना नकद आधार पर की जाती है।
- 2.2 संपत्ति से आय एवं आवधिक जमा पर ब्याज का लेखांकन संचयी आधार पर किया गया है।

3. स्थाई परिसम्पत्ति और मूल्यहास

- 3.1 अचल सम्पत्तियाँ प्राप्ति के समय के कीमत के आधार पर गिनी जायेंगी जिनमें आवागमन खर्च, शुल्क और कर तथा प्राप्त करने, स्थापित करने और चालू करने में लगा प्रत्यक्ष व्यय शामिल होता है।
- 3.2 पंजिकाओं में दर्शाई गई दान की गई परिसम्पत्तियाँ वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर परिसंपत्ति की भौतिक स्थिति के साथ समायोजित होंगी।
- 3.3 अचल परिसम्पत्तियाँ कीमत में मूल्यहास को घटाकर गिनी जाती हैं। स्थाई परिसम्पत्तियों का मूल्यहास सरल रेखा विधि से निम्न दरों पर गिना जाता है।

भौतिक परिसंपत्तियाँ :

1. भूमि	0%
2. साइट भवन	0%
3. भवन	2%



4.	रोड एवं पुल	2%
5.	ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति	2%
6.	सीवरेज एवं ड्रेनेज	2%
7.	विद्युतीय स्थापना एवं उपकरण	5%
8.	प्लांट एवं मशीनरी	5%
9.	साइंटिफिक एवं लेबोरेटरी उपकरण	8%
10.	कार्यालय उपकरण	7.5%
11.	दृश्य श्रव्य उपकरण	7.5%
12.	कम्प्यूटर एवं सहायक सामग्री	20%
13.	फर्नीचर फिक्सचर एवं फिटिंग्स	7.5%
14.	वाहन	10%
15.	ग्रंथागार पुस्तक एवं वैज्ञानिक जर्नल्स	10%

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ (अमॉर्टाइजेशन) :

1.	ई-जर्नल्स/ईबुक्स	40%
2.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	40%
3.	पेटेन्ट्स एवं कॉपीराइट्स	9 वर्ष

3.4 वर्ष के दौरान होने वाले योग पर मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है।

3.5 जहाँ परिसंपत्ति का पूरी तरह मूल्यहास हो जाता है, इसे बैलेंस शीट पर 1 रुपये की रेसीडुअल वैल्यू के साथ रखा जाता है तथा इसका फिर मूल्यहास नहीं गणना की जाती। उसके बाद प्रत्येक वर्ष किसी भी योग पर मूल्यहास की परिसंपत्ति मद में लागू मूल्यहास के अनुसार गणना की जाती है।



- 3.6 उद्दिष्ट निधि और प्रायोजित परियोजना निधि से सृजित परिसम्पत्ति जहाँ इस प्रकार की परिसम्पत्ति का मालिकाना विश्वविद्यालय के पास है और इन्हे पूँजीगत निधि से सृजित किया जाता है विश्वविद्यालय की स्थाई परिसम्पत्ति के साथ शामिल कर ली जायेगी। मूल्यहास सम्बद्ध परिसम्पत्ति पर लागू दरों पर माना जायेगा। प्रायोजित परियोजना निधि से सृजित परिसंपत्ति जहाँ मालिकाना प्रायोजक के पास रहता है परन्तु धारिता एवं प्रयोग संस्थान द्वारा किया जाता है लेखा टिप्पणियों में अलग से दर्शाया गया है।
- 3.7 प्रत्येक परिसंपत्ति जिसका मूल्य 2000/- या उससे कम हैं (ग्रंथागार की पुस्तकों को छोड़कर) उनकी गणना लघु मूल्य परिसंपत्ति के रूप में की जायेगी तथा उन्हें ग्रहण करने के समय 100% मूल्यहास इस प्रकार की परिसंपत्ति हेतु प्रदान किया जायेगा। फिर भी इस प्रकार की परिसंपत्ति के धारक के द्वारा भौतिक गणना एवं नियंत्रण जारी रखा जायेगा।

4. अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति : पेटेन्ट्स एवं कॉपीराइट्स, ई जर्नल्स/ईबुक्स एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इंटरनेट परिसंपत्तियों में रखा जायेगा।

- 4.1 इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स (ईजर्नल्स/ईबुक्स) सीमित लाभ को देखते हुए जिसे की ऑनलाइन एक्सेस से प्राप्त किया जा सकता है, लाइब्रेरी बुक्स से अलग हैं। ई-जर्नल्स/ई बुक्स भौतिक फॉर्म में नहीं होते परन्तु अस्थायी रूप से कैपिटलाइज्ड होते हैं और व्यय के आकार को देखते हुए तथा शैक्षिक एवं शोध कर्मियों के द्वारा ग्रहण किये जाने वाले परपेचुअल ज्ञान को देखते हुए ई जर्नल्स/ ई बुक्स के मद में मूल्यहास ग्रंथागार की 10% के स्थान पर 40% उच्च दर प्रदान किया गया है।
- 4.2 सॉफ्टवेयर की प्राप्ति व्यय को कम्प्यूटर एवं सहायक सामग्री जैसी इंटरनेट परिसंपत्ति से अलग रखा जाता है इनके संदर्भ में निरसन दर अत्यंत उच्च होती है। सॉफ्टवेयर के मद में प्रदान मूल्य हास कम्प्यूटर एवं सहायक सामग्री के 20% के स्थान पर 40% के उच्च दर का होता है।

5. स्टॉक्स

रसायनों, ग्लासवेयर, प्रकाशनों, स्टेशनरी तथा अन्य भंडार की खरीद पर व्यय नकद आधार पर राजस्व व्यय माना जायेगा।

6. सेवानिवृत्ति लाभ

वर्तमान वर्ष के सेवानिवृत्ति के प्रावधान जिसमें पेंशन, ग्रेच्युटी, और अवकाश नकदीकरण शामिल हैं इनकी गणना एक्चुएरियल आकलन आधार पर किये गये हैं।



7. निवेश

सभी निवेश लागत के आधार पर गिने जायेंगे। तत्काल खर्च की आवश्यकता न होने वाली निधियों को बैंक के फिक्स डिपॉजिट इत्यादि पर तथा शेष को बचत बैंक खाते में रखा जायेगा।

8. उद्दिष्ट / वृत्तिदान निधि:

निम्न दीर्घावधि निधियाँ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उद्दिष्ट की गई हैं। प्रत्येक निधि का पृथक बैंक खाता है। उद्दिष्ट निधि से सृजित परिसंपत्ति का मालिकाना जहाँ संस्थान के पास है उन्हे समान आकार की पूँजीगत निधि निर्मित कर संस्थान की परिसंपत्तियों में मिला लिया गया है। संबंधित निधि का अधिशेष अग्रणीत करके एवं इसे बैंक, निवेश एवं संचित ब्याज में अधिशेष के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

8.1 कॉर्पस निधि की स्थापना वर्ष 2007 में की गई । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के योगदान, महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों से प्राप्त संबद्धता/मान्यता शुल्क, परामर्श शुल्क में संस्थान का अंश, तथा शोध परियोजनाओं से योगदान को कॉर्पस निधि में योग के रूप में माना गया है।

निवेश से प्राप्त आय को निधि में जोड़ा गया है। कॉर्पस निधि को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा संस्थान के अधिशासी परिषद के समय समय पर दिये गये दिशानिर्देशों के आधार पर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय में प्रयुक्त किया गया है। कॉर्पस निधि से सृजित परिसंपत्ति को समान आकार की पूँजीगत निधि निर्मित कर संस्थान की परिसंपत्तियों में मिला लिया गया है। कॉर्पस निधि का अधिशेष अग्रणीत करके एवं इसे पृथक बैंक खाते, आरबीआई बॉन्ड्स में निवेश तथा बैंकों में फिक्स डिपॉजिट एवं संचित ब्याज में अधिशेष के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

8.2 जेआरएफ/एसआरएफ निधि

यूजीसी / भारत सरकार द्वारा जूनियर/सीनियर रिसर्च फेलों को फेलोशिप प्रदान करने हेतु दी गई निधि।

9. राजीव गाँधी राष्ट्रीय फेलोशिप निधि

यूजीसी / भारत सरकार द्वारा अनु.जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को फेलोशिप प्रदान करने हेतु दी गई।



10. सरकार एवं यूजीसी अनुदान

- 10.1 यूजीसी एवं अन्य से अनुदान की नकद आधार पर गणना की गई है। तथापि अनुदान जारी करने हेतु स्वीकृति 31 मार्च के पहले प्राप्त हो और राशि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद प्राप्त हो तो अनुदान की गणना संचयी आधार पर की जायेगी तथा समान राशि अनुदानदाता से रिकरवरेबल दिखाई जायेगी।
- 10.2 सरकारी अनुदान एवं यूजीसी से प्राप्त अनुदान पूँजीगत व्यय के मद में प्रयुक्त सीमा तक पूँजीगत निधि में स्थानांतरित किया गया है।
- 10.3 सरकारी एवं यूजीसी अनुदान राजस्व व्यय से मिलान को प्रयुक्त सीमा तक संदर्भ वर्ष की आय के रूप में माना जायेगा।
- 10.4 गैर-प्रयुक्त अनुदान (जिनमें इस प्रकार के अनुदान से दिया गया अग्रिम शामिल है) को अग्रणीत कर बैलेंस शीट में देनदारियों के रूप में दर्शाया गया है।

11. उद्दिष्ट निधि से निवेश एवं इस प्रकार के निवेश से संचयी ब्याज की आय :

इस प्रकार के निधि के मद में उपलब्ध राशि को तत्काल व्यय की आवश्यकता न होने की सीमा तक बैंक में तय अवधि के लिए जमा कराया गया है तथा अधिशेष को बचत बैंक खाते में छोड़ा गया है।

प्राप्त ब्याज और संचयी ब्याज उन्हें संबंधित निधि में जोड़ा जायेगा न कि संस्थान की आय में जो कि इस प्रकार के निवेश में देय नहीं हैं।

12. प्रायोजित परियोजनाएँ

- 12.1 विश्वविद्यालय विभिन्न प्रायोजक निकायों जैसे डीएसटी, सीएसआईआर, डीबीटी, यूजीसी, एमओईएंडएफ तथा आईसीएआर इत्यादि से उद्दिष्ट विशेष प्रयोजन के शोध परियोजनाओं के लिए किस्तों में अनुदान सहायता प्राप्त कर रही है। विश्वविद्यालय इन प्रायोजक संस्थाओं को आवधिक रूप से व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर भेजती है ताकि समय समय पर अगली एवं संबंधित किस्त जारी हो सके।
- 12.2 उद्दिष्ट निधि के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जारी कनिष्ठ शोध फेलोशिप तथा विभिन्न प्रायोजक संस्थाओं द्वारा जारी फेलोशिप और स्कॉलरशिप भी प्रदान किये जाते हैं। फेलोशिप एवं स्कॉलरशिप को बाँटने के में सामान्य व्यय जिसमें फेलो एवं स्कॉलर्स के लिए अकस्मिक व्यय हेतु भत्ते शामिल हैं को छोड़कर इन सभी की गणना जैसे प्रायोजित परियोजनाओं के लिए की जाती है।





अकरिम्क देनदारियाँ एवं लेखा टिप्पणियाँ





अनुसूची : 24

वर्ष का समापन: 31.03.2024

अकस्मिक देनदारियाँ एवं लेखा टिप्पणियाँ (विवरणात्मक)

1. अकस्मिक देनदारियाँ :

- क) 31.03.2024 की तिथि तक विश्वविद्यालय के विरुद्ध 14 कोर्ट केस विश्वविद्यालय के पूर्व कर्मचारियों, शोधार्थियों एवं तीसरे पक्ष द्वारा दायर किये गये हैं जो कि निर्णय हेतु विचाराधीन हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय प्रदान किये जाने के पूर्व अकस्मिक देनदारियों की राशि नहीं तय की जा सकती।
- ख) विश्वविद्यालय की ओर से बैंक द्वारा कोई लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं हैं।

2. अचल परिसंपत्तियाँ :

- 2.1 अनुसूची 4 में दिये गये अचल परिसंपत्तियों में वर्ष के योग में अनुसूची 4 ए योजना निधि से क्रय परिसंपत्ति, अनुसूची 4 बी, गैर योजना निधि से क्रय परिसंपत्ति, तथा अनुसूची 4 डी अन्य के अतर्गत शामिल है। परिसंपत्तियों को पूँजीगत निधि में स्थापित किया गया है।
- 2.2 31.03.2024 को जैसी थी वह बैलेंस शीट तथा पिछले वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार योजना निधि से सृजित अचल परिसंपत्ति तथा गैर योजना निधि से सृजित अचल परिसंपत्ति अलग अलग दर्शाई गई हैं। 01/04/2023, से आरंभ वर्ष के दौरान योजना, गैर योजना तथा अन्य निधियों से योग तथा इन योग पर क्रमिक मूल्यहास अलग से अचल परिसंपत्ति की मुख्य अनुसूची (अनुसूची 4) की उप अनुसूची ए बी सी डी में दर्शाई गई हैं।

3. वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम एवं जमा

प्रबंधन के विचार से वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम एवं जमा सामान्य प्रक्रिया में मूल्य के अनुसार बैलेंस शीट में दर्शाये गये योग के बराबर है।

4. बचत बैंक खाता, चालू खाता तथा बैंकों में फिक्स डिपॉजिट खाता का विवरण वर्तमान परिसंपत्तियों की अनुसूची के 'ए' में संलग्नक के रूप शामिल है।
5. जहाँ भी आवश्यकता हुई है पिछले वर्ष के आँकड़े पुनर्समूहित किये गये हैं।
6. वृत्तिदान निधि, प्रायोजित परियोजनाएँ एवं प्रायोजित फेलोशिप एवं स्कॉलरशिप अनुसूची 3 में दर्शाई गई हैं।
7. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों में मूल्यहास अनुसूची 4ए, 4बी तथा 4डी में दर्शाये गये हैं।



8. अनुसूची 1 से 24 तक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष को जैसी थी उस बैलेंस शीट और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के समेकित अंश हैं।
9. जैसा कि भविष्य निधि लेखा तथा नवीन पेंशन योजना लेखा उस व्यक्ति के होते हैं जिसकी कि निधि है, न कि संस्थान की, ये लेखा वर्ष 2007-08 से संस्थान के लेखा अलग किये गये हैं। वर्ष 2023-24 के लिए भविष्य निधि खाता तथा नवीन पेंशन योजना के लिए प्राप्तियों एवं अदायगियों के लेखा एवं आय तथा व्यय लेखा (संचयी आधार पर) तथा बैलेंस शीट संस्थान के लेखा के साथ संलग्न है। 217 कर्मचारियों के संदर्भ में जिन्हें कि पीआरए संख्या प्रदान की गई है उनके नवीन पेंशन योजना का एक बड़ा भाग (5.73 करोड़ रुपये) 31.03.2024 तक नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) - केन्द्रीय अभिलेखसंग्राही संस्था को स्थानांतरित किया जा चुका है।
10. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, त्रिपुरा विश्वविद्यालय का लेखा त्रिपुरा विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा के साथ दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के लेखा के रूप में अलग से तैयार कर संलग्न किया गया है।
11. **आयकर**
संस्थान की आय को आयकर अधिनियम की धारा 10 (23 सी) के तहत आयकर से छूट दी गई है और केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने दिनांक 03.08.2022 के दस्तावेज पहचान संख्या -AACAT1043MD2022101 और विशिष्ट पंजीकरण संख्या-AACAT1043MD2022101 के तहत धारा 10 (23 सी) के तहत आयकर विभाग से छूट प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इसलिए खातों में टैक्स का कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। इसलिए लेखा में कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। निर्धारण वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के लिए आयकर रिफंड का आकलन 31.03.2024 तक नहीं किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान प्राप्य टीडीएस को अनुसूची-8 के तहत जोड़ा और दिखाया गया है।
12. बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीनों के दौरान छात्रों को वापस की जाने वाली कॉशन मनी की राशि अनुसूची -3 वर्तमान देनदारियों और प्रावधान के अंतर्गत छात्रों को जमा मद के तहत एकत्रित की गई है।
13. विश्वविद्यालय द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित और प्रबंधित अचल संपत्ति (अनुसूची -4) के तहत दर्शाई गई 21.33 करोड़ रुपये की भूमि 99 वर्षों के लिए पट्टे की भूमि है जिसे त्रिपुरा सरकार द्वारा आवंटित और निहित किया गया था।
14. विश्वविद्यालय कर्मचारियों से पुराने और लंबे समय से लंबित अग्रिम की वसूली की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।
15. वित्तीय वर्ष 2022-2023 (31.03.2023) तक के सभी अप्रयुक्त चेकों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आवश्यक प्रविष्टियाँ करके बही-खातों में समायोजित किया गया है।



प्राप्ति एवं भुगतान लेखा





त्रिपुरा विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

(राशि रुपयों में)

प्राप्ति	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
I. प्रारम्भिक अधिशेष			I. व्यय		
ए) हस्तगत नकदी (कैश इन हैंड)			ए) स्थापना व्यय	668,201,903.00	582,709,203.00
बी) बैंक अधिशेष			बी) अकादमिक व्यय	35,998,130.00	31,859,449.00
I) बचत बैंक खाते में	208,195,190.99	246,482,936.67	सी) प्रशासनिक व्यय	89,323,525.00	69,590,063.00
II) चल (करेंट) खाते में	2,793,058.24	2,218,669.50	डी) परिवहन व्यय	2,856,827.00	2,855,128.00
III) जमा खाते में	715,452,242.35	571,810,342.85	ई) मरम्मत एवं रखरखाव	10,761,037.00	18,699,658.00
II. अनुदान प्राप्त			एफ) वित्तीय लागत	21,601.35	133,110.74
ए) भारत सरकार से (यूजीसी समेत)	965,958,953.00	761,667,012.00	जी) पूर्वावधि व्यय		
बी) राज्य सरकार से			II. अर्माकड/ इंडोमेंट निधि हेतु भुगतान	23,494.00	5,000.00
सी) अन्य स्रोत से			III. प्रायोजित परियोजना/ योजना हेतु भुगतान	28,041,165.44	33,086,363.40
III. अकादमिक प्राप्ति	188,523,558.88	158,647,248.65	IV. प्रायोजित अध्येतावृत्ति/ छात्रवृत्ति हेतु भुगतान	314,160.00	391,836.00
IV. निर्धारित (अर्माकड) निधि/ इंडोमेंट निधि से प्राप्ति		80,140.00	V. निवेश में जमा किए गए		
V. प्रायोजित परियोजना/ योजना से प्राप्ति	35,840,816.16	19,636,153.22	ए) अर्माकड/ इंडोमेंट निधि से		
VI. प्रायोजित अध्येतावृत्ति / छात्रवृत्ति से प्राप्ति	2,851,105.64	1,127,017.00	बी) निधि से (निवेश - अन्य)		
VII. निवेश से आय			VI. अनुसूचित बैंक के साथ सावधि जमा		
ए) अर्माकड / इंडोमेंट निधि से	553,862.00	141,360.00	VII. अचल परिसंपत्ति एवं चालू पूंजीगत कार्य हेतु व्यय एवं अग्रिम		
बी) अन्य निवेश से			ए) अचल परिसंपत्ति	109,592,200.00	84,967,179.09
VIII. ब्याज प्राप्त			बी) चालू पूंजीगत कार्य	59,129,000.00	0.00
ए) बैंक जमा	603,328.00	11,025,202.00	सी) पूंजीगत लेखा हेतु अग्रिम	102,445,000.00	26000.00
बी) ऋण एवं अग्रिम			VIII. सांविधिक भुगतान समेत अन्य भुगतान	143,959,248.00	143,541,425.00
सी) बचत बैंक खाता	9,194,807.00	5,920,953.00	IX. अनुदान वापसी	15,927,000.00	68,979,000.00
IX. निवेश को भुनाया गया			X. जमा एवं अग्रिम	19,324,231.00	20,341,011.00
X. अनुसूचित बैंको में जमा सावधि जमा को भुनाया गया			XI. अन्य भुगतान	572,741,554.00	538,313,794.40
XI. पूर्वावधि आय समेत अन्य आय	5,084,912.42	2,392,410.56	XII. समापन अधिशेष		
XII. जमा एवं अग्रिम	10,427,215.00	14,179,325.00	ए) हस्तगत नकदी		
XIII. वैधानिक प्राप्तिर्यों समेत विविध प्राप्तिर्यां	11,457,331.72	13,788,291.00	बी) बैंक अधिशेष		
XIV. कोई अन्य प्राप्ति	799,896,154.74	712,821,650.76	I) बचत बैंक खाते में	235,132,256.26	208,195,190.99
			II) चल (करेंट) बैंक खाते में	846,601.24	2,793,058.24
			III) जमा खाते में	862,193,602.85	715,452,242.35
कुल	2,956,832,536.14	2,521,938,712.21	कुल	2,956,832,536.14	2,521,938,712.21





भविष्य निधि





भविष्य निधि लेखा
त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र

(राशि रु. में)

पिछले वर्ष की राशि	देनदारियाँ	वर्तमान वर्ष की राशि	पिछले वर्ष की राशि	परिसंपत्ति	इस वर्ष की राशि
193,107,236.00	<u>जीपीएफ</u> आरंभिक अधिशेष कमी : मार्च के लिए अभिदान - 2023 योग : वर्ष के दौरान अभिदान योग : मार्च के लिए अभिदान -2024 (कान्ट्रा.) योग : ब्याज जमा कमी : अग्रिम और निकासी	- 193,107,236.00 -2,637,233.00 32,960,621.00 2,517,662.00 13,590,286.92 -43,808,842.00		<u>निवेश</u> निवेश पर अर्जित ब्याज <u>देय अभिदान</u> जीपीएफ (कान्ट्रा.) पीएफ (राज्य) खाता से प्राप्त राशि बी/एफ टीयू खाते से प्राप्त बी/एफ <u>बैंक में नगद</u> एसबीआई जीपीएफ सेविंग प्लस खाता (31930726546) एसबीआई एस/बी खाता सं. - 30384598214 एचडीएफसी जीएफ खाता सं. - 50100231045974 टीजीबी जीपीएफ खाता सं. - 8001012597944 आईसीआईसीआई जीएफ खाता सं. - 216701001138 एसटीडीआर सं. - 30579914332 एसटीडीआर सं. - 30583268449	10,814,728.00 2,517,662.00 214,966.00 386,450.00 13,769,800.40 1,302,602.72 94,519.60 - 13,628.00 7,000.00 180,206.00
58,216,655.00	<u>संरक्षित ब्याज</u> - आरंभिक अधिशेष कमी : आय की व्यय पर अधिकता {इस वर्ष} <u>टीयू खाते से प्राप्त ऋण</u> - प्रारंभिक अधिशेष योग : इस वर्ष	-6,483,009.40 10,909,711.20 58,216,655.00 -	195,729,730.92 4,426,701.80	एसटीडीआर सं. - 30579914332 एसटीडीआर सं. - 30583268449 <u>- वर्ष के दौरान निवेश</u> एचडीएफसी - 50300919351201 एसबीआई - 42709582913 आईसीआईसीआई जीएफ खाता सं. - 216701001138 एसबीआई - 41982257953 <u>वर्तमान निवेश</u> एसबीआई - 41773502370 <u>संरक्षित ब्याज</u> आरंभिक अधिशेष	7,000.00 180,206.00 - 43950189.00 15000000.00 36305992.00 56250000.00 - 77721204.00 0.00
155,860.00	पेंशन निधि खाते को देय		58,216,655.00 155,860.00	6,483,009.40	
251,479,751.00	योग		258,528,947.72	251,479,751.00	258,528,947.72



भविष्य निधि लेखा

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो रही अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रु. में)

राशि गत वर्ष	व्यय	राशि वर्तमान वर्ष	राशि गत वर्ष	आय	राशि वर्तमान वर्ष
10,096,508.00	<u>जमा ब्याज</u> जीपीएफ खाता सीपीएफ खाता विश्वविद्यालय योगदान (सीपीएफ)	13,590,286.92	7,007,551.00	<u>निवेश पर अर्जित ब्याज</u> योग : 31 मार्च 2024 को संचित ब्याज	10,814,728.00
		-	-6,048,314.00	योग : परिपक्वता के समय प्राप्त ब्याज	13,317,467.00
			<u>2,293,018.00</u>		
			3,252,255.00	कमी : मार्च के लिए संचयी ब्याज - 2023	-20,248.00
	<u>अन्य व्यय - भविष्य निधि</u>		688,374.00	{रुपए 22,93,018 माइनस रुपए 22,72,770/- टिप्पणी के	
-				परिपक्वता के समय प्राप्त	
				बचत खाते (जीपीएफ) से प्राप्त ब्याज	293,067.92
				टीडीएस रिफंड एवं अन्य आय	94,983.20
-	आय की व्यय पर अधिकता	10,909,711.20	6,155,896.00	व्यय की आय पर अधिकता	
10,096,508.00	Total	24,499,998.12	10,096,525.00	योग	24,499,998.12



भविष्य निधि लेखा

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्त एवं भुगतान लेखा

(राशि रु. में)

प्राप्तियाँ	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
प्रारम्भिक अधिशेष	-				
भा.स्टेट बैंक जीपीएफ सेविंग प्लस खाता (31930726546)	8,368,705.40		जीपीएफ अग्रिम एवं आहरण (पीएफ)		43,808,842.00
भा. स्टेट बैंक खाता क्र. 30384598214	691,306.60				
एचडीएफसी जीपीएफ खाता सं. 50100231045974	91,736.60		वर्ष के दौरान निवेश	-	
टीजीबी जीपीएफ खाता सं. 8001012597944	473,513.00		एफ डी मेड/बुक्ड / क्लोजिंग फिक्स डिपॉजिट		
आईसीआईसीआई जीपीएफ खाता सं. 216701001138	6,459.00		फ्रॉम - एचडीएफसी जीपीएफ खाता क्र. . 50100231045974		
एसटीडीआर सं. 30579914332	7,000.00		{ एचडीएफसी - 50300919351201 - रु 4,39,50,189 }	43950189.00	
एसटीडीआर सं. 30583268449	180,206.00	9,818,926.60	एसबीआई - 41982257953	56250000.00	
फिक्स डिपॉजिट ओपनिंग/ परिपक्व एफडी			एसबीआई - 42709582913	15000000.00	
एचडीएफसी-एफडी - - 50300658582272	40000000.00		आईसीआईसीआई जीपीएफ खाता सं. 216701001138	36305992.00	
एचडीएफसी-एफडी - 50300658584901	29473237.00		एसबीआई - 41773502370	77721204.00	229,227,385.00
टीजीबी जीपीएफ खाता नं.- 8001148085404	49270151.00				
आईसीआईसीआई जीपीएफ खाता नं.. 216713002749	33181556.00		समापन अधिशेष	-	
एसबीआई - 41773502370	77721204.00	229,646,148.00	भा.स्टेट बैंक जीपीएफ सेविंग प्लस खाता (31930726546)	13,769,800.40	
बचत बैंक खाते (जीपीएफ) से प्राप्त ब्याज			भा. स्टेट बैंक खाता क्र. 30384598214	1,302,602.72	
एसबीआई खाते से अर्जित ब्याज			एचडीएफसी जीपीएफ खाता सं. 50100231045974	94,519.60	
एचडीएफसी बैंक	2783.00		टीजीबी जीपीएफ खाता सं. NO.8001012597944	-	
टीजीबी बैंक	3704.92		आईसीआईसीआई जीपीएफ खाता सं. 216701001138	13,628.00	
आईसीआईसीआई बैंक	7169.00		एसटीडीआर सं. 30579914332	7,000.00	
एसबीआई - जीपीएफ सेविंग प्लस	247319.00		एसटीडीआर सं. 30583268449	180,206.00	15,367,756.72
SBI - 30384598214	32092.00	293,067.92			
जीपीएफ अभिदान					
एसबीआई - जीपीएफ सेविंग प्लस	31278760.00				
एसबीआई - 30384598214	1681861.00	32,960,621.00			
टीडीएस रिफण्ड एवं अन्य आय	-	94,983.20			
कोई अन्य प्राप्त/परिपक्वता के समय प्राप्त ब्याज					
एचडीएफसी - एफडी - - 50300658582272	3950189.00				
एचडीएफसी - एफडी - 50300658584901	2910621.00				
आईसीआईसीआई जीपीएफ खाता सं. 216713002749	3124436.00				
टीजीबी जीपीएफ खाता सं. 8001148085404	5604991.00	15,590,237.00			
योग		288,403,983.72	योग		288,403,983.72





भविष्य निधि (राज्य अंश)





भविष्य निधि खाता (राज्य अंश)

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र

देनदारियाँ	राशि (रु. में)	परिसंपत्ति	राशि (रु. में)
त्रिपुरा विश्वविद्यालय पुराना पीएफ खाता	215,007.50	ऋण : दी गई पेंशन(त्रिपुरा विश्वविद्यालय को ऋण)	3,091,642.00
पुराना पीएफ खाता जमा		जीपीएफ खाते को भुगतान की गई राशि	155,860.00
प्रारंभिक अधिशेष	28,269,321.91	संचयी ब्याज :	
संरक्षित एवं अधिकता		अंतिम लेखे के अनुसार	21,954,037.00
आय की व्यय पर अधिकता : बी/डी	46,259,075.00	कमी : - प्राप्त ब्याज	0.00
योग : इस वर्ष	17,914,203.00		21,954,037.00
	64,173,278.00	योग : इस वर्ष	2,873,494.00
			24,827,531.00
		कमी : टीडीएस कटौती	359,677.00
		टीडीएस प्राप्तियोग्य (26 एस के अनुसार)	24,467,854.00
जीपीएफ खाते को देय बी/एफ	214,966.00	समापन अधिशेष :	359,677.00
		त्रि. विवि पुराना पी.एफ. खाता	
		(एसबीआई, एमबीबीसी शाखा - 10333227373)	4,094,010.41
		STDR A/C	
		खाता सं. 31968250836	12,206,614.00
		खाता सं. 31968251080	12,206,614.00
		खाता सं. 31968251148	12,206,614.00
		खाता सं. 31968251193	12,206,614.00
		खाता सं. 31968251262	11,877,074.00
योग	92,872,573.41	योग	92,872,573.41



भविष्य निधि खाता (राज्य अंश)

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा

व्यय	राशि (रु. में)	आय	राशि (रु. में)
पूर्वावधि समायोजन को	1,034,562.00	प्राप्त ब्याज	
	-	स्टेट बैंक खाते से प्राप्त ब्याज	108,922.00
		" पूर्वावधि आय	
		खाता सं. 31968250836	3,210,605.00
		खाता सं. 31968251080	3,210,605.00
		खाता सं. 31968251148	3,210,605.00
		खाता सं. 31968251193	3,210,605.00
		खाता सं. 31968251262	3,123,929.00
		(पिछले वर्षों का संचयी ब्याज जो पृथक रूप से दर्ज नहीं अब संशोधित)	
आय की व्यय पर अधिकता	17,914,203.00	निवेश पर संचयी ब्याज द्वारा	2,873,494.00
योग	18,948,765.00	योग	18,948,765.00



भविष्य निधि खाता (राज्य अंश)

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतान का लेखा

प्राप्तियाँ	राशि (रु. में)	भुगतान	राशि (रु. में)
प्रारंभिक अधिशेष		पूर्वावधि समायोजन द्वारा	1,034,562.00
त्रि. विवि पुराना पी.एफ. खाता		{एसबीआई खाता 39,85,088.41 रुपये के स्थान पर	
(एसबीआई, एमबीबीसी शाखा - 10333227373)	5,019,650.41	50,19,650.41 रुपये दिखाया जो अब संशोधित}	
		समापन अधिशेष	
अर्जित ब्याज :		त्रि. विवि पुराना पी.एफ. खाता	
एसबीआई खाते में बैंक ब्याज	108,922.00	(एसबीआई, एमबीबीसी शाखा - 10333227373)	4,094,010.41
योग	5,128,572.41	योग	5,128,572.41





राष्ट्रीय पेंशन योजना (टीयर -I)





एनपीएस टीयर -1 लेखा

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र

(राशि रु. में)

पिछले वर्ष की राशि	देनदारियां	इस वर्ष की राशि	पिछले वर्ष की राशि	परिसंपत्ति	इस वर्ष की राशि
273,018,935.00	एनपीएस टीयर -1 लेखा प्रारंभिक अधिशेष 273,018,935.00 योग : एनपीएस टीयर -1 + विवि योगदान 57,272,861.00 330,291,796.00 आय की व्यय पर अधिकता - आय एवं व्यय(एनपीएस टायर-1)	330,291,796.00	3,439,566.00 269,579,369.00	एनपीएस टीयर -1 लेखा एनपीएस टीयर - 1 खाते पर देय अभिदान और योगदान निवेश एनएसडीएल बैंक में नकद - एनपीएस टीयर -1 बैंक खाता	3,439,566.00 326,852,230.00 -
273,018,935.00	योग	330,291,796.00	273,018,935.00	योग	330,291,796.00



एनपीएस टीयर -1 लेखा
त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रु. में)

पिछले वर्ष की राशि	व्यय	इस वर्ष की राशि	पिछले वर्ष की राशि	आय	इस वर्ष की राशि
-	अभिदान खाते में जमा ब्याज	-	-	निवेश पर अर्जित ब्याज	-
-	बैंक अधिभार	-	-	संचित ब्याज पर देय नहीं	-
-	आय की व्यय पर अधिकता	-	-		
-		-	-		-



एनपीएस टीयर -1 लेखा
त्रिपुरा विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

(राशि रु. में)

प्राप्तियाँ	राशि	भुगतान	राशि
प्रारंभिक अधिशेष	-	एनपीएस टीयर-1 खाते से निवेश	57,272,861.00
एनपीएस टीयर -1 अभिदान लेखा	-		
स्वयं अभिदान	23,479,377.00		
विश्वविद्यालय अभिदान	32,871,146.00		
बकाया राशि (स्वयं)	384,259.00	समापन अधिशेष	-
बकाया राशि (टीयू)	538,079.00		
योग	57,272,861.00	योग	57,272,861.00





दूरस्थ शिक्षा निदेशालय





दूरस्थ शिक्षा निदेशालय

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र

(राशि रु. में)

पूँजी एवं देनदारियाँ	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	परिसंपत्ति एवं संपत्ति	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
पूँजी निधि			अचल परिसंपत्ति		
सामान्य निधि			अचल परिसंपत्ति (अनुसूची -1)	5,725,229.00	6,257,112.00
प्रारंभिक अधिशेष	72,998,208.45	82,887,623.95	निवेश		
			फिक्स डिपॉजिट (अनुसूची-2)	57,141,276.57	54,531,418.57
			फिक्स डिपॉजिट पर संचयी ब्याज (अनुसूची-2)	4,832,916.00	2,744,486.00
			{कॉलम 9 माइनस 13 अनुसूची - II से}		
कमी : व्यय की आय पर अधिकता	4,769,340.00	9,889,415.50	एफडी ब्याज पर प्राप्त योग्य टीडीएस (अनुसूची II)	260,692.00	
	68,228,868.45	72,998,208.45	वर्तमान परिसंपत्ति एवं अग्रिम		
वर्तमान देनदारियाँ :			ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची-3)	1,145,768.00	2,065,534.00
चिकित्सा अग्रिम	425.00	425.00	पर्व अग्रिम	17,025.00	3,025.00
वृत्ति कर	214,067.00	179,123.00			
वैट	203,096.00	203,096.00			
स्रोत पर कर की कटौती	121,543.00	11,083.00			
कर्मचारी ईपीएफ योगदान	307,418.00	307,418.00	बैंक में नकदी		
जमा अर्नेस्ट मनी	200,000.00	200,000.00	भारतीय स्टेट बैंक खाता - 10333226981	4,037.22	3,929.22
एलआईसी कर्मचारी	-	12,240.00	भारतीय स्टेट बैंक खाता - 32157404236	20,898.60	747,517.60
अन्य देनदारियाँ (पूर्वावधि चेक रिवर्स)	556,881.00	556,881.00	भारतीय स्टेट बैंक खाता - 33217401877	1,345,420.60	4,429,039.60
ईपीएफ में नियोक्ता योगदान	49,967.00	49,967.00	एचडीएफसी खाता - 50200020393191	207,263.66	3,150,013.66
वेतन एवं पारिश्रमिक मद में बकाया भुगतान	819,296.00	819,296.00	आईसीआईसीआई खाता - 216705000938	1,034.80	1,405,661.80
महायोग	70,701,561.45	75,337,737.45	महायोग	70,701,561.45	75,337,737.45



दूरस्थ शिक्षा निदेशालय

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा

(राशि रु. में)

व्यय	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	आय	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
को विज्ञापन व्यय	-	-	द्वारा प्रवेश शुल्क (बी.ए.)	-	95,000.00
" बैंक अधिभार	354.00	1,327.50	" प्रवेश शुल्क (एम.ए.)	20,000.00	130,000.00
" अकस्मिकता	276,949.00	54,676.00	" प्राप्त बैंक ब्याज	49,326.00	32,453.00
" एसाइनमेंट का मूल्यांकन (बी.ए.)	-	83,920.00	" परीक्षा शुल्क प्राप्त	53,381.00	499,840.00
" एसाइनमेंट का मूल्यांकन (एमए शिक्षाशास्त्र)	950.00	-	" एफडी परिपक्वता पर ब्याज	1,704,491.00	1,091,817.00
" एसाइनमेंट का मूल्यांकन (एम ए राजनीति शास्त्र)	860.00	-	{अनुसूची II के फिक्स डिपॉजिट के अनुसार}		
" एसाइनमेंट का मूल्यांकन (एम ए बंगाली)	420.00	-	" विविध प्राप्तियाँ	11,800.00	20,001.00
" परीक्षा व्यय	67,700.00	207,062.00	" एफडी पर संचयी ब्याज	1,829,489.00	1,461,002.00
" वाहन किराया अधिभार	212,917.00	534,541.00	{अनुसूची II के फिक्स डिपॉजिट के अनुसार}		
" अध्ययन केन्द्र का मानदेय	56,953.00	1,735,200.00	" विविध बीआरएस-स्टेल चेक वापसी	20,726.00	0.00
" वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (बीए)	168,400.00	833,810.00	"		
" वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (एम ए शिक्षाशास्त्र)	8,000.00	13,000.00	"		
" वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (एम ए राजनीति शास्त्र)	13,000.00	16,000.00			
" वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (एम ए बंगाली)	19,500.00	31,500.00	द्वारा आय से व्यय की अधिकता	4,769,340.00	9,889,415.50
" मुद्रण	-	1,456,770.00			
" वृत्ति कर	-	1,035,530.00			
" ईपीएफ भुगतान		642,646.00			
" कर्मचारियों का वेतन	4,589,352.00	5,267,174.00			
" श्रमिक पारिश्रमिक	1,624,154.00	671,605.00			
" टेलिफोन व्यय	-	42,844.00			
" टीए/डीए	29,935.00	4,000.00			



दूरस्थ शिक्षा निदेशालय

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

(राशि रु. में)

व्यय		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	आय		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
को	पीओएल इम्प्रेस्ट	32,572.00					
"	परियोजना पेपर एक्सपेंस	529,406.00					
"	ईपीएफ भुगतान में नियोक्ता का योगदान	295,248.00					
को	मूल्यहास :						
"	कम्प्यूटर एवं संबंधित	57,498.00	71,872.00				
"	फर्नीचर एवं फिटिंग	136,851.00	147,947.00				
"	उपकरण	225,488.00	243,770.00				
"	वाहन	5,521.00	6,134.00				
"	टेलीफोन	3,887.00	4,203.00				
"	पुस्तक एवं जरनल	101,131.00	112,368.00				
"	साइनबोर्ड	1,507.00	1,629.00				
महायोग		8,458,553.00	13,219,528.50	महायोग		8,458,553.00	13,219,528.50



दूरस्थ शिक्षा निदेशालय

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

(राशि रु. में)

प्राप्तियाँ		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	भुगतान		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
को	प्रारंभिक अधिशेष			द्वारा	विज्ञापन व्यय		-
"	भारतीय स्टेट बैंक खाता - 10333226981	3,929.22	3,825.22				
"	भारतीय स्टेट बैंक खाता - 32157404236	747,517.60	5,022,677.60				
"	भारतीय स्टेट बैंक खाता - 33217401877	4,429,039.60	111,752.10	"	पर्व अग्रिम	70,000.00	-
"	एचडीएफसी खाता - 50200020393191	3,150,013.66	12,150,072.66				
"	आईसीआईसीआई खाता - 216705000938	1,405,661.80	3,405,955.80	"	ईपीएफ संग्रहण (कर्मचारी कटौती)		-
				"	आयकर (टीडीएस)	13,996.00	62,384.00
को	प्रवेश शुल्क (बी.ए.)		95,000.00	"	एलआईसी	24,480.00	28,560.00
"	प्रवेश शुल्क (एम.ए.)	20,000.00	130,000.00	"	बैंक अधिभार	354.00	1,327.50
"	प्राप्त बैंक ब्याज	49,326.00	32,453.00	"	अकस्मिकता	276,949.00	54,676.00
"	परीक्षा शुल्क प्राप्त	53,381.00	499,840.00	"	नियोक्ता का ईपीएफ अभिदान	576,048.00	618,042.00
"	एफडी पर ब्याज		-	"	एसाइनमेंट का मूल्यांकन (एम ए बंगाली)	420.00	-
"	प्राप्तियोग्य टीडीएस	107,432.00		"	एसाइनमेंट का मूल्यांकन (बी.ए.)		83,920.00
"	अग्रिम की वसूली	919,766.00	-	"	एसाइनमेंट का मूल्यांकन (एमए शिक्षाशास्त्र)	950.00	-
"	पर्व अग्रिम से वसूली	56,000.00	60,200.00	"	एसाइनमेंट का मूल्यांकन (एम ए राजनीति शास्त्र)	860.00	-
"	चिकित्सा अग्रिम से वसूली		-	"	परीक्षा शुल्क	67,700.00	207,062.00
"	फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट		-	"	वाहन किराया अधिभार	212,917.00	534,541.00
"	एफडी पर प्राप्त संचयी ब्याज	1,184,858.00	-	"	स्टडी सेन्टर को मानदेय	56,953.00	1,735,200.00
"	ईपीएफ संग्रहण(कर्मचारी कटौती)	280,800.00	300,960.00	"	श्रमिक किराया अधिभार	1,624,154.00	671,605.00
"	आयकर (टीडीएस)	17,024.00	69,971.00	"	मरम्मत एवं रखरखाव		
"	एलआईसी	12,240.00	-	"	सिस्टम रखरखाव शुल्क		
"	वृत्ति कर	34,944.00	39,312.00	"	वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (बीए)	168,400.00	833,810.00
"	विविध. प्राप्तियाँ (गतावधि चेक वापसी)		20,001.00	"	वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (एम ए शिक्षाशास्त्र)	8,000.00	13,000.00
"	अग्रिम की वसूली (अनुसूची III के अनुसार)		183,275.00	"	वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (एम ए राजनीति शास्त्र)	13,000.00	16,000.00



दूरस्थ शिक्षा निदेशालय

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

(राशि रु. में)

प्राप्तियाँ		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	भुगतान		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
को	विविध प्राप्तियाँ	11,800.00		द्वारा	वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (एम ए बंगाली)	19,500.00	31,500.00
"	विविध. बीआरएस वापसी	20,726.00		"	मुद्रण व्यय		1,456,770.00
				"	पीओएल इम्प्रेस्ट	32,572.00	
				"	परियोजना पेपर व्यय	529,406.00	
					एफडी के साथ युक्त ब्याज		
				"	कर्मचारी वेतन	4,589,352.00	4,895,362.00
				"	सिक्क्योरिटी मनी रिफण्ड		
				"	टीए/डीए	29,935.00	4,000.00
				"	टेलिफोन व्यय		42,844.00
				"	साइनबोर्ड		
				"	स्टेशनरी		
				"	फिक्स डिपॉजिट किया गाय (बैंक)	1,425,000.00	
					परिपक्वता के समय प्राप्त ब्याज से फिक्स डिपॉजिट किया गया	1,184,858.00	
				"	वृत्ति शुल्क	-	1,035,530.00
				द्वारा	बैंक में नकद		
				"	भारतीय स्टेट बैंक खाता - 10333226981	4,037.22	3,929.22
				"	भारतीय स्टेट बैंक खाता - 32157404236	20,898.60	747,517.60
				"	भारतीय स्टेट बैंक खाता - 33217401877	1,345,420.60	4,429,039.60
				"	एचडीएफसी खाता - 50200020393191	207,263.66	3,150,013.66
				"	आईसीआईसीआई-खाता - 216705000938	1,034.80	1,405,661.80
महायोग		12,504,458.88	22,125,295.38		महायोग	12,504,458.88	22,125,295.38



दूरस्थ शिक्षा निदेशालय

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्थिर परिसंपत्तियाँ

अनुसूची -I

क्र. स.	स्थिर परिसंपत्ति का नाम	01.04.2023 को प्रारंभिक अधिशेष (रु.)	इस वर्ष योग	कुल (रु.)	मूल्यहास की दर	मूल्यहास	31.03.24 को समापन अधिशेष (रु.)
1	कम्प्यूटर एवं संबंधित	287,490.00	-	287,490.00	20.00%	57,498.00	229,992.00
2	फर्नीचर एवं फिटिंग	1,824,681.00	-	1,824,681.00	7.50%	136,851.00	1,687,830.00
3	उपकरण	3,006,500.00	-	3,006,500.00	7.50%	225,488.00	2,781,012.00
4	वाहन	55,208.00	-	55,208.00	10.00%	5,521.00	49,687.00
5	टेलिफोन	51,833.00	-	51,833.00	7.50%	3,887.00	47,946.00
6	पुस्तक एवं जर्नल	1,011,308.00	-	1,011,308.00	10.00%	101,131.00	910,177.00
7	साइनबोर्ड	20,092.00	-	20,092.00	7.50%	1,507.00	18,585.00
	योग	6,257,112.00	-	6,257,112.00		531,883.00	5,725,229.00



दूरस्थ शिक्षा निदेशालय

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची -II

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सावधि जमा का विवरण

क्र. स.	सा. ज. क्र. सं.	मूल्य तिथि	परिपक्वता तिथि	ब्याज दर	मूलधन एवं परिपक्वता राशि					जमा ब्याज और ब्याज राशि						
					प्रारंभिक अधिशेष (प्रारंभिक बैलेंस शीट के अनुसार)	नवीन एफडी योग	परिपक्वता पर प्राप्ति	परिपक्वता मूल्य परिपक्वता तिथि के समय	समापन अधिशेष (तुलन पत्र -2023-24 के अनुसार)	प्रारंभिक अधिशेष (प्रारंभिक बैलेंस शीट के अनुसार)	परिपक्वता के समय अर्जित ब्याज	प्राप्ति योग्य से काटा गया टीडीएस	परिपक्वता के समय अर्जित माइनस टीडीएस	संचयी ब्याज योग	संचयी ब्याज वापसी	ब्याज का समापन अधिशेष (कॉन्ट्रा इंटी बैलेंस शीट एंड वीई खाता)
क्र.स.	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5+6	10	11	12	13 = 11-12	14	15	16 = 10+13+14-15
1	एसबीआई- खाता सं. 30370156281/नवीकृत	22.08.2023	22.07.2025	6.80%	3550679.00	355146.00	3905825.00	4444725.00	3905825.00	279962.00	74985.00	0.00	74985.00	163678.00	355146.00	163479.00
2	एसबीआई- खाता सं. 31591579332/नवीकृत	31.12.2021	26.09.2024	5.10%	2355340.00	0.00	0.00	2706348.00	2355340.00	123188.00	25842.00	25842.00	0.00	103006.00		226194.00
3	एसबीआई- खाता सं. 31591579671/नवीकृत	31.12.2021	26.06.2024	5.10%	2473190.57	0.00	0.00	2841761.00	2473190.57	129353.00	27135.00	27135.00	0.00	108160.00		237513.00
4	खाता सं. 36720516666/नवीकृत	28.03.2022	28.03.2023	5.10%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
	एसबीआई- खाता सं. 36720516666/नवीकृत	28.03.2023	28.03.2024	6.80%	6906272.00	0.00	0.00	0.00	6906272.00	0.00			0.00	0.00		0.00
	एसबीआई- खाता सं. 36720516666/F. नवीकृत	28.03.2024	28.03.2025	6.80%	0.00		7339812.00	7851791.00	0.00	4594.00	477150.00	48204.00	428946.00	4883.00	0.00	438423.00
5	एचडीएफसी- खाता सं. 50300190295412/ नवीकृत	10.04.2021	13.04.2022	4.90%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346143.00			0.00	0.00	346143.00	0.00
	एचडीएफसी- खाता सं. 50300190295412/ नवीकृत	10.04.2022	13.04.2023	5.00%	6889577.00	0.00	381542.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
	एचडीएफसी- खाता सं. 50300190295412/F. नवीकृत	13.04.2023	19.04.2024	6.60%	0.00	0.00	829712.00	7746451.00	7719289.00	0.00	381545.00		381545.00	104394.00	483569.00	2370.00
6	एसबीआई- 39150769611	7.02.2022	17.02.2023	5.00%	0.00	0.00		0.00	0.00				0.00	0.00		0.00
	एसबीआई- 39150769611/नवीकृत	17.02.2023	17.02.2024	5.10%	11356360.00	0.00	0.00	0.00	11356360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	एसबीआई- 39150769611/नवीकृत (एफ. रिन्यूड)	17.02.2024	17.02.2025	6.80%	0.00	0.00	0.00	12825602.00	0.00	74620.00	717834.00	159511.00	558323.00	79716.00		712659.00
8	एचडीएफसी- खाता सं. 50300527346702	18.06.2021	19.06.2024	5.30%	4000000.00	0.00	0.00	4685499.00	4000000.00	385606.00	0.00		0.00	238079.00		623685.00
9	एचडीएफसी- खाता सं. 50300540457853	06.08.2021	07.08.2024	5.30%	17000000.00	0.00	0.00	19912979.00	17000000.00	1401020.00	0.00		0.00	1004727.00		2405747.00
10	आईसीआईसीआई - 216713004816	10.01.2024	10.04.2025	7.00%	0.00	1425000.00		1556039.00	1425000.00	0.00	0.00		0.00	22846.00		22846.00
योग (रुपयों में/-)					54531418.57	1780146.00	12456891.00	64571195.00	57141276.57	2744486.00	1704491.00	260692.00	1443799.00	1829489.00	1184858.00	4832916.00



दूरस्थ शिक्षा निदेशालय

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

अनुसूची -III

अग्रिम विवरण

क्र. स.	पार्टी का नाम	प्रारंभिक अधिशेष राशि (रु. में)	दिया गया अग्रिम (रु. में)	वसूला गया अग्रिम (रु. में)	समापन अधिशेष (रु. में)
1	आर.एल.देब को अग्रिम	5,005.00	-		5,005.00
2	अभिजीत चन्द को अग्रिम	15,396.00	-	15,396.00	-
3	अजित रोगा को अग्रिम	25,000.00	-	25,000.00	-
4	अमिताभ चौधरी को अग्रिम	-	-		-
5	बाबूधन त्रिपुरा को अग्रिम	25,000.00	-		25,000.00
6	बाबुल चन्द्र डे को अग्रिम	25,000.00	-	25,000.00	-
7	बीबीएमसी को अग्रिम	22,475.00	-		22,475.00
8	बिप्लव लागार्डो को अग्रिम	25,000.00	-		25,000.00
9	चन्द्रिमा चौधरी को अग्रिम	25,000.00	-	25,000.00	-
10	समन्वयक डीईसी खुमल्लुंग को अग्रिम	18,605.00	-	17,505.00	1,100.00
11	समन्वयक बीटीसीटीई को अग्रिम	11,500.00	-		11,500.00
12	समन्वयक डीईसी अमरपुर को अग्रिम	23,800.00	-		23,800.00
13	समन्वयक डीईसी डीडीएम खोवाई को अग्रिम	75,715.00	-		75,715.00
14	समन्वयक डीईसी धर्मनगर को अग्रिम	37,020.00	-	37,020.00	-
15	समन्वयक डीईसी फटिकरॉय को अग्रिम	56,370.00	-	-	56,370.00
16	समन्वयक डीईसी गंदाछेरा को अग्रिम	24,960.00	-		24,960.00
17	समन्वयक डीईसी हॉलीक्रॉस महाविद्यालय को अग्रिम	13,750.00	-		13,750.00
18	समन्वयक डीईसी आईएसई को अग्रिम	71,251.00	-		71,251.00
19	समन्वयक डीईसी आईसीवी को अग्रिम	87,100.00	-	70,400.00	16,700.00
20	समन्वयक डीईसी कमलपुर को अग्रिम	41,230.00	-	20,480.00	20,750.00
21	समन्वयक डीईसी कंचनपुर को अग्रिम	20,785.00	-	-	20,785.00



दूरस्थ शिक्षा निदेशालय

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

क्र. स.	पार्टी का नाम	प्रारंभिक अधिशेष राशि (रु. में)	दिया गया अग्रिम (रु. में)	वसूला गया अग्रिम (रु. में)	समापन अधिशेष (रु. में)
22	समन्वयक डीईसी केएनएम सोनामुड़ा को अग्रिम	68,820.00	-	50,815.00	18,005.00
23	समन्वयक डीईसी लांगतराई वैली को अग्रिम	48,340.00	-	-	48,340.00
24	समन्वयक डीईसी एमबीबीसी को अग्रिम	70,003.00	-	-	70,003.00
25	समन्वयक डीईसी एमएमडीसी को अग्रिम	63,610.00	-	-	63,610.00
26	समन्वयक डीईसी मोहनपुर को अग्रिम	63,235.00	-	-	63,235.00
27	समन्वयक डीईसी एनएसएम को अग्रिम	10,482.00	-	-	10,482.00
28	समन्वयक डीईसी आरकेएम केएलएस को अग्रिम	72,750.00	-	-	72,750.00
29	समन्वयक डीईसी आरएनटीएम बीएलएस को अग्रिम	38,405.00	-	38,405.00	-
30	समन्वयक डीईसी आरटीसी को अग्रिम	86,142.00	-	-	86,142.00
31	समन्वयक डीईसी, अम्बेडकर को दिया गया अग्रिम	770.00	-	-	770.00
32	समन्वयक डीईसी तेलियामुड़ा को अग्रिम	16,250.00	-	-	16,250.00
33	समन्वयक डीईसी महिला महाविद्यालय को अग्रिम	26,535.00	-	26,535.00	-
34	धुब देव को अग्रिम	33,160.00	-	20,000.00	13,160.00
35	दीपानिता चक्रवर्ती को अग्रिम	25,000.00	-	25,000.00	-
36	जयन्ता चौधरी को अग्रिम	25,000.00	-	25,000.00	-
37	के एन जेना को अग्रिम	-	-	-	-
38	एलवीवाय चौधरी को अग्रिम	25,000.00	-	25,000.00	-
39	मधुसूदन मुरा सिंह को अग्रिम	25,000.00	-	25,000.00	-
40	मानिक लाल धर को अग्रिम	15,000.00	-	-	15,000.00
41	मानसी दास को अग्रिम	25,000.00	-	25,000.00	-
42	मिली सिंघा को अग्रिम	25,000.00	-	25,000.00	-
43	मिताली नाथ को अग्रिम	25,000.00	-	25,000.00	-



दूरस्थ शिक्षा निदेशालय

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा (प.)

क्र. स.	पार्टी का नाम	प्रारंभिक अधिशेष राशि (रु. में)	दिया गया अग्रिम (रु. में)	वसूला गया अग्रिम (रु. में)	समापन अधिशेष (रु. में)
44	मिठु सरकार को अग्रिम	67,700.00	-	67,700.00	-
45	मृदुल चक्रवर्ती को अग्रिम	25,000.00	-	25,000.00	-
46	निबाश शील को अग्रिम	40,000.00	-	25,000.00	15,000.00
47	प्रज्ञा मजुमदार को अग्रिम	25,000.00	-	25,000.00	-
48	प्रत्युष आर. देब को अग्रिम	25,000.00	-	25,000.00	-
49	प्रियरंजन देबबर्मा को अग्रिम	1,500.00	-	-	1,500.00
50	रत्ना रॉय को अग्रिम	25,000.00	-	25,000.00	-
51	रूपक चक्रवर्ती को अग्रिम	32,000.00	-	-	32,000.00
52	समीर चन्द्र दास को अग्रिम	21,000.00	-	21,000.00	-
53	सांतनो भट्टाचार्य को अग्रिम	14,010.00	-	14,010.00	-
54	शर्मिष्ठा भट्टाचार्य को अग्रिम	25,000.00	-	25,000.00	-
55	शेखरेश भट्टाचार्य को अग्रिम	185,180.00	-	-	185,180.00
56	सौमेन नन्दी को अग्रिम	25,000.00	-	25,000.00	-
57	सुभाष सरकार को अग्रिम	25,000.00	-	25,000.00	-
58	स्वप्ना बिश्वास को अग्रिम	45,180.00	-	25,000.00	20,180.00
59	उज्ज्वल कुमार दास को अग्रिम	25,000.00	-	25,000.00	-
60	वाहन के किराये हेतु दिया गया अग्रिम	-	-	-	-
61	अमित कुमार दास को अग्रिम	-	-	-	-
62	अरुण चौधरी को अग्रिम	20,500.00	-	20,500.00	-
	योग	2,065,534.00	-	919,766.00	1,145,768.00

TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

Suryamaninagar

Tripura - 799022



ANNUAL ACCOUNTS

2023 - 2024

(From 1st April, 2023 to 31st March, 2024)





TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

Suryamaninagar-799022

Certified that the Annual Accounts for the financial year 2023-24 has been prepared and presented as per guidelines issued by the Ministry of Human Resource Development (now Ministry of Education), Government of India vide No. 29-4/2012-IFD dated 17th April, 2015.

(Debasish Pal)

Finance Officer
Tripura University



TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

Annual Accounts 2023-2024

Table of Contents

Sl. No.	Particulars	Page No.
	Audit Report	I-XX
1	University Main Account	
1.1	Balance Sheet	1-3
1.2	Income & Expenditure Account	5-7
1.3	Schedules Forming Part of Balance Sheet	9-64
1.4	Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account	65-84
1.5	Significant Accounting Policies	85-92
1.6	Contingent Liabilities and Notes to Accounts	93-96
1.7	Receipts and Payments Account	97-100
2	Provident Fund	
2.1	Balance Sheet	103
2.2	Income & Expenditure	104
2.3	Receipts & Payments	105
3	Provident Fund (State Period)	
3.1	Balance Sheet	109
3.2	Income & Expenditure	110
3.3	Receipts & Payments	111
4	National Pension Scheme (Tier-I)	
4.1	Balance Sheet	115
4.2	Income & Expenditure	116
4.3	Receipts & Payments	117
5	Directorate of Distance Education	
5.1	Balance Sheet	121
5.2	Income & Expenditure	122-123
5.3	Receipts & Payments	124-125
5.4	Fixed Assets	126
5.5	Statement of Fixed Deposit	127
5.6	Statement of Advances	128-130





Audit Report





SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

AMG-II-A/SAR/TU/AGT/2023-24/251

Dated: 09-01-2025

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा का कार्यालय, त्रिपुरा, अगरतला
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT),
TRIPURA, AGARTALA

पिन/PIN-790006 फैक्स/Fax:381-2350158

ईमेल/email : agautripura@cag.gov.in

To
The Registrar,
Tripura University,
(A Central University)
Suryamaninagar,
Tripura(W)
PIN: 799 022,

Subject:- Separate Audit Report (SAR) on the accounts of Tripura University, Agartala for the year 2023-24.

Sir,

I am to send herewith the Separate Audit Report (SAR) of the accounts of Tripura University, Agartala for the Financial Year 2023-24 along with a management letter for further action at your end.

Hindi version of SAR will follow.

Thanking you,

Yours faithfully,

Enclo: As stated.

Sr. Deputy Accountant General AMG-II

[Handwritten signature and date 08/01/2025]





SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF THE REGISTRAR, TRIPURA UNIVERSITY, SURYAMANI NAGAR, TRIPURA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

We have audited the attached Balance Sheet of the **Tripura University (TU)**, Suryamaninagar, Tripura as on **31 March 2024**, the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Power & Conditions of Service) Act, 1971. These financial statements are the responsibility of the management of the Tripura University, Suryamaninagar, Tripura. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Reports/C&AG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii) The Balance Sheet, Income and Expenditure Account/ Receipt and Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Education, (Formerly, Ministry of Human Resources Development), the Government of India vide order No. 29-4/2012-FD dated 17 April 2015.



iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Tripura University, Suryamaninagar, Tripura as far as it appears from our examination of such books.

iv) **We further report that:**

A. Balance Sheet

Application of Fund

Fixed Asset

Capital work-in-progress (Schedule – 4) – ₹ 80.79 crore

A.1. The above includes ₹ 41.08 crore being amount paid to M/s Engineering Projects (India) Ltd. (EPIL) for the work “Construction of Phase-II project works (Part-I) at Tripura University, Agartala” and ₹ 3.36 crore paid to ACPL towards consultancy charges (total ₹ 44.44 crore). The work was completed on 31 December 2018 and the utilities were put to use since then. However, the same has not yet been capitalised since the payment of final bill is pending.

As the creation of the physical assets is already complete and the same are being used since 2018-19, it should have been capitalised and depreciation should also have been charged on the same. This has resulted in understatement of “Tangible Assets” and overstatement of “Capital Work in Progress” by ₹ 44.44 crore each. Depreciation and Prior period depreciation are also understated, the quantum of which could not be quantified due to lack of detailed sub-heads of work completed and exact dates on which those components were put to use.

Application of Fund

Loans/ Advances & Deposits (Schedule- 8)- ₹ 40.12 crore

Advances to Employee (Non-Interest Bearing) (Schedule-8A)- ₹1.81 crore

A.2. The above includes advance amounting to ₹ 47.60 lakh given to employees, which has remained unadjusted for more than one year. Further, it was noticed that out of the above balance, advance amounting to ₹ 8.18 lakh has been given to 25 nos. of employees who have either retired, deceased or left the University. Thus, the University should take necessary steps to recover the unadjusted advance amount of ₹ 47.6 lakh. Further, special attention needs to be given to the recovery of ₹ 8.18 lakh in respect of the retired/ deceased employees, the recoupment of which seems highly uncertain.

**Balance Sheet****Sources of Fund****Current Liabilities and Provisions (Schedule – 3) – ₹ 356.13 crore**

A.3. The above does not include various expenditure amounting to ₹ 0.25 crore pertaining to the year 2023-24, payment in respect of which were made during the next year. This has resulted in understatement of “Current Liabilities and Provision” by ₹ 0.25 crore with corresponding understatement of expenditure by an equal amount.

Assets**Fixed Assets****Tangible Assets (Schedule-4) – ₹ 294.82 crore**

A.4. The above includes a “Transformer” (₹ 21.19 lakh) and a “Water Purification” system (₹ 3.90 lakh) purchased and capitalised during the Financial Year 2023-24. The Transformer falls under “Electrical Installation and Equipment” category carrying a depreciation rate of 5 *per cent* while the Water Purification system falls under “Office Equipment” category carrying a depreciation rate of 7.5 *per cent*. However, both the assets were depreciated at 10 *per cent* by the University. This has resulted in an understatement of Fixed Assets by ₹ 1.16 lakh with a corresponding overstatement of Depreciation and Deficit and understatement of Corpus/Capital Fund by an equal amount.

B. Income and Expenditure Account – Nil**C. General-Nil****D. Grant-in-Aid**

As per financial statement of the year 2023-24, the University received ₹ 11317. lakh under different heads as mentioned above as Grant-in-Aid from the Government of India. Against a total available fund of ₹ 11531.lakh (opening balance of 214 lakh), the Institute could utilize only ₹ 10397. lakh (including Rs 104. lakh of grant was refunded back to Government of India as unutilized grant) and leaving a balance of Rs. 1134. Lakh

E. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Tripura University through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

5. Subject to our observation in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of Accounts.



6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the Significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

- a. In so far it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of the Tripura University as on 31.03.2024,
- b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

**For and on behalf of
Comptroller & Auditor General of India**

R. Sarkar

**Date: 09 January 2025
Place: Agartala**

**(Ranendu Sarkar)
Accountant General (Audit), Tripura**

Annexure**INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT**

Audit evaluation of internal control and internal audit system is summarised as under:

1. Adequacy of internal control system:

- (i) The University has not prepared any Accounts Manual of its own.
- (ii) The University has not prepared any Internal Control Manual of its own.
- (iii) Liability of certain expenditures was not considered while preparing the accounts.
- (iv) 19 nos. of bank accounts remained “Inoperative” during the financial year.
- (v) Advance to employees amounting to ₹ 47.60 lakh remained unadjusted for more than one year out of which ₹ 8.18 lakh pertains to 25 employees who have either retired, deceased or left the University.

2. Adequacy of internal audit system:


- (i) The University has not prepared any Internal Audit Manual.
- (ii) The University does not have any Internal Audit Wing. No Internal Audit was conducted for the year 2023-24.

3. System of physical verification of fixed assets and inventory

The physical verification of fixed assets and inventory was carried out by an Independent Committee set up by the University vide Notification dated 10 April 2024. However, only compilation of fixed assets and consumable items was done by the committee. No report was submitted even though the Notification stipulated submission of Physical Verification Report and Internal Audit Report within 30 working days from the date of Notification.

4. Regularity in payment of statutory dues:

The University has been regular in the payment of all its statutory dues.


08/01/2025

Assistant Audit Officer





No.AMG-II-A/SAR/TU/2023-24/253

Date: 09-01-2025



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा का कार्यालय, त्रिपुरा, अगरतला
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT),
TRIPURA, AGARTALA

पिन/PIN-790006 फैक्स/Fax:381-2350158

ईमेल/email : agautripura@cag.gov.in

To
The Registrar,
Tripura University,
(A Central University)
Suryamaninagar,
Tripura(W)
PIN: 799 022,

Subject: Management Letter on the annual accounts of the TU, Agartala, for the year ended March 2024.

Sir,

Certification audit on the annual accounts of TU, Agartala for the year ended 31 March 2024 was taken up by this office under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers, and Conditions of Service) Act, 1971. A Separate Audit Report (SAR) incorporating final comments of C&AG is issued along with this letter. Apart from the audit comments issued in SAR, audit has noticed 02 points which require management's action to ensure compliance to the instructions of Ministry of Education with respect to preparation of annual accounts.

Enclosed: As stated.

Yours faithfully,

Sr. Deputy Accountant General/AMG-II



**ANNEXURE TO THE MANAGEMENT LETTER**

1. Total expenditure amounting to ₹ 0.32 crore pertaining to the Financial Year 2023-24 were wrongly shown under various heads of current year expenditure instead of showing under "Prior Period Expenditure". This has resulted in understatement of Prior Period Expenditure by ₹ 32.47 lakh with a corresponding overstatement of "Annual Maintenance Contract Fees" by ₹ 18.10 lakh, "Repair and Maintenance" by ₹ 9.27 lakh, "TA/DA (Experts) Exp." by ₹ 1.90 lakh, "Printing Expenses" by ₹ 1.30 lakh, "LTC" by ₹ 0.97 lakh, "Children Education Allowance" by ₹ 0.54 lakh, "Medical Reimbursement" by ₹ 0.23 lakh and "Contingency Exp." by ₹ 0.16 lakh.
2. The head **Loans/ Advances & Deposits (Schedule – 8)** includes "Advance on Capital A/c – Civil Works" amounting to ₹ 10.89 crore. Scrutiny of records showed that an amount of ₹ 0.46 crore was shifted from this head to "Capital Work-in-Progress" citing Audit observation. However, the observation was made on "Advance on Capital account" and not on the above head. This has resulted in understatement of "Advance on Capital A/c – Civil Works" by ₹ 0.46 crore with a corresponding overstatement of "Capital Work-in-Progress" by an equal amount.


08/01/2025
Asstt. Audit Officer





Balance Sheet





TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2024

<i>(Amount in Rupees)</i>			
Particulars	Sh No.	Current Year	Previous Year
<u>SOURCES OF FUND</u>			
CORPUS FUND/CAPITAL FUND	1	989,912,143.61	1,260,205,014.78
DESIGNATED/EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	2	4,310,958.98	3,710,590.98
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	3	3,561,301,299.42	2,815,978,716.34
TOTAL		4,555,524,402.01	4,079,894,322.10
<u>APPLICATION OF FUND</u>			
<u>FIXED ASSET</u>	4		
Tangible Assets		2,066,218,585.15	2,072,640,455.15
Intangible Assets		15,945,289.19	12,013,220.19
Capital Work in Progress		807,869,371.00	731,940,371.00
<u>INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</u>	5		
Long Term		1,388,848.85	1,329,562.85
Short Term		-	-
INVESTMENTS - OTHERS	6	-	-
CURRENT ASSETS	7	1,262,937,023.50	925,110,928.73
LOANS/ADVANCES & DEPOSITS	8	401,165,284.32	336,859,784.18
TOTAL		4,555,524,402.01	4,079,894,322.10
Significant Accounting Policies	23	-	
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	24	-	





Income & Expenditure Account





TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH,2024

(Amount in Rupees)			
Particulars	Schedule No.	Current Year	Previous Year
INCOME			
ACADEMIC RECEIPTS	9	181,811,283.88	146,019,519.65
GRANTS/SUBSIDIES	10	904,619,253.00	858,074,930.00
INCOME FROM INVESTMENTS	11	42,769,095.64	42,448,074.26
INTEREST EARNED	12	9,194,767.00	5,920,953.00
OTHER INCOME	13	9,065,967.42	2,562,350.56
PRIOR PERIOD INCOME	14	1,479,600.00	-
TOTAL (A)		1,148,939,966.94	1,055,025,827.47
EXPENDITURE			
STAFF PAYMENT & BENIFITS (ESTABLISHMENT EXPENSES)	15	1,326,201,665.28	1,625,783,594.00
ACADEMIC EXPENSES	16	36,885,649.00	34,851,897.00
ADMINISTRATIVE & GENERAL EXPENSES	17	94,957,329.00	72,325,660.00
TRANSPORTATION EXPENSES	18	2,980,778.00	2,874,771.00
REPAIR & MAINTENANCE	19	10,806,759.48	22,165,556.00
FINANCE COST	20	21,601.35	133,110.74
OTHER EXPENSES	21	-	-
PRIOR PERIOD EXPENDITURE	22	-	-
DEPRECIATION	4	113,923,016.00	116,341,670.00
TOTAL (B)		1,585,776,798.11	1,874,476,258.74
Balances being excess of Income over Expenditure (A-B)		-436,836,831.17	-819,450,431.27
Transfer To/From Designated Fund			
Building Fund			
Balance Being Surplus/(Deficit) Carried to Capital Fund		-436,836,831.17	-819,450,431.27
Significant Accounting Policies	23		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	24		





Schedules Forming Part of Balance Sheet





TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

SCHEDULE 1-CORPUS /CAPITAL FUND

<i>(Amount in Rupees)</i>		
Particulars	Current Year	Previous Year
Balance at the Begining of the year	1,260,205,014.78	2,013,622,937.43
Add : Contributions towards Corpus/Capital Fund (From Directorate of Distance Education)	-	-
Add : Grant from UGC, Govt. Of India and State Govt. To the extent utilised for Capital Expenditures (Schedule - 10)	124,655,900.00	74,995,772.00
Add : Assets Purchased out of Earmarked Funds (Schedule - 2)	-	-
Add : Assets Purchased out of Sponsored Projects, where ownership vest in the Institution	44,245,106.00	7,065,132.09
Add : Assets Donated/Gifts Received	-	-
Add : Other Additions (Note - 1)	7,377,200.00	8,223,604.00
Add : Other Additions (Note - 2)	119,231.00	298,016.00
Add : Other Additions (Note - 3)	10,000.00	911,800.00
Add : Other Additions (Note -4)	2,000.00	73,701.00
Less : Other Deductions (Note-5)	-4,598,132.00	-119,230.75
Less : Other Deductions (Note-6)	-5,466,000.00	-40,000.00
Less : Other Deductions (Note-7)	-111,286.00	-
Add : Other Additions (Note-8)	309,941.00	-
Less : Excess Refund Amount Adjusted In Corpus/ Capital Fund (Note-7)	-	-25,376,285.72
Less: Transfer to Endowment Fund	-	-
Add: Excess of Income over Expenditure/(Deficit) transferred from the Income & Expenditure Account	-436,836,831.17	-819,450,431.27
BALANCE AT THE YEAR -END	989,912,143.61	1,260,205,014.78

Notes :

1. Development Fees of Rs. 73,77,200.00 which was received from the student has been added to "Corpus/Capital Fund" through "Other Additions" 2. Computer and Accessories of Rs. 9,53,847.00 were erroneously booked under the head Equipment during the FY 2021-2022 and depreciation charged at 20% (Computer and Accessories) instead of 7.5% (Equipment) and therefore corpus Fund was over stated by Rs. 1,19,231.00 and this year rectified. 3. With Held Deduction of Rs. 10,000.00 has been carried forward as same balance year to year since very long and adjusted with "Corpus Fund". 4. Received From State Fund of Rs. 2,000.00 has been carried forward as same balance year to year since very long and adjusted with "Corpus Fund". 5. "Advance on Capital A/c" of Rs. 45,98,132.00 as mentioned in "Schedule- 8" has been adjusted with "Corpus /Capital Fund" because the amount has been carried forward for more than 1 year. 6. Out of opening balance of Grant of Rs. 2,14,21,000.00 of Rs. 54,66,000.00 (Fund related to FY 2019-2020) transferred to Corpus/Capital Fund and Rs. 1,04,61,000 have been transferred to UGC on 30.10.2023. 7."Festival Advance" "Schedule - 8" Rs.1,11,286.00 adjusted in Corpus/ Capital Fund. 8. Salary- ST/SC/OBC Rs. 2,400, Salary- LIC (SAL) Rs.2,62,619, Salary - Bank- Loan- Recov- OTH Rs.12,922 and Salary- Festrecov (SOE) Rs. 32,000 of Statutory Liabilities (Salary) in "Schedule - 3" is adjusted with Corpus / Capital Fund.



TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 2 - DESIGNATED /EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount in Rupees)				
Particulars	FUND WISE BREAKUP		TOTAL	
	Employee Welfare Fund	Endowment Fund	Current Year	Previous Year
A				
a) Opening Balance	503,878.50	3,206,712.48	3,710,590.98	3,494,090.98
b) Additions during the year	80,000.00	400,000.00	480,000.00	80,140.00
c) Income from Investment made from the Funds		77,490.00	77,490.00	83,830.00
d) Accrued Interest on Investments/Advances			-	-
e) Interest on Savings Bank A/c	11,524.00	64,848.00	76,372.00	57,530.00
f) Other Additions (Specify Nature)	-	-	-	-
TOTAL (A)	595,402.50	3,749,050.48	4,344,452.98	3,715,590.98
B				
Utilisation/Expenditure towards objectives of funds				
i) Capital Expenditure	-	-	-	-
ii) Revenue Expenditure		33,494.00	33,494.00	5,000.00
TOTAL (B)	-	33,494.00	33,494.00	5,000.00
C				
Transfer to Schedule 3 (a) and Considered as Sponsored Projects	-			
TOTAL (C)	-	-	-	-
CLOSING BALANCE AT THE YEAR - END (A-B-C)	595,402.50	3,715,556.48	4,310,958.98	3,710,590.98
Represented by				
Cash & Bank Balances	433,102.50	2,326,707.63	2,759,810.13	2,298,728.13
Investment	-	1,388,848.85	1,388,848.85	1,060,661.85
Tax Deducted at Source	-	-	-	
Interest Accrued but not due				12,198.00

Notes :

Closing balance of "Employee Welfare Fund" of Rs. 4,33,102.50 has been kept under following Bank Accounts

a) TU-Salary Account (36) A/C (36885772495)

162,300.00

Total Rs/-

162,300.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 2A-ENDOWMENT FUNDS

<i>(Amount in Rupees)</i>											
1 Sr. No.	2 Name of the Endowment	Opening Balance		Addition During the Year		Total		Expenditure/ Matured	Closing Balance		
		3 Endowment	4 Accumulated Interest	5 Endowment	6 Accumulated Interest	7 Endowment (3+5)	8 Accumulated Interest (4+6)	9	10 Endowment	11 Accumulated Interest	12 Total (10+11)
1	B. Deb Memorial Award Fund	145,251.00	369,712.04	-	19,911.00	145,251.00	389,623.04	-	145,251.00	389,623.04	534,874.04
2	P L Prava Memorial Research Fellow	306,271.00	454,165.02	-	33,021.00	306,271.00	487,186.02	25,000.00	306,271.00	462,186.02	768,457.02
3	Niharkana Dutta Choudhury Scholarship	476,824.85	1,134,864.57	-	66,889.00	476,824.85	1,201,753.57		476,824.85	1,201,753.57	1,678,578.42
4	TU- Central Library Merit Scholarship	269,287.00	50,337.00	-	8,563.00	269,287.00	58,900.00		269,287.00	58,900.00	328,187.00
5	Scholarship S A Memorial			400,000.00	13,954.00	400,000.00	13,954.00	8,494.00	400,000.00	5,460.00	405,460.00
	Total	1,197,633.85	2,009,078.63	400,000.00	142,338.00	1,597,633.85	2,151,416.63	33,494.00	1,597,633.85	2,117,922.63	3,715,556.48



TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

ANNEXURE - A/1 DESIGNATED/EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

Particulars	Current Year (Amount in Rs.)					
	B. Deb Memorial Award Fund	P L Prava Memorial Research Fellow	Niharkana Dutta Choudhury Scholarship	TU-CENTRAL LIBRARY MERIT- SCHOLARSHIP	Scholarship S A Memorial	Total
I. IN SAVINGS A/C						
SBI A/C NO 10333227135 (STATE PERIOD)		446,624.02				446,624.02
SBI A/C NO 10333227282 (STATE PERIOD)			1,085,000.57			1,085,000.57
SBI A/C NO 10333227486 (STATE PERIOD)	389,623.04					389,623.04
SIRAJUDDIN AHMED TRUST FUND BANK A/C NO. 41471530037					405,460.00	405,460.00
TOTAL (A)	389,623.04	446,624.02	1,085,000.57		405,460.00	2,326,707.63
II. IN DEPOSITS A/C						-
FD A/C NO 30483264095 (STATE PERIOD)	145,251.00					145,251.00
FD A/C NO 30483460317 (STATE PERIOD)		49,460.00				49,460.00
FD A/C NO 30631094444 (STATE PERIOD)		76,530.00				76,530.00
FD A/C NO 30483265033 (STATE PERIOD)			593,577.85			593,577.85
FD A/C NO 30633371279 (STATE PERIOD)		195,843.00				195,843.00
FD A/C 41918281881 (TU-CENTRAL LIBRARY MERIT-SCHOLARSHIP)				328,187.00		328,187.00
TOTAL (B)	145,251.00	321,833.00	593,577.85	328,187.00		1,388,848.85
GRAND TOTAL (A+B)	534,874.04	768,457.02	1,678,578.42	328,187.00		3,715,556.48



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 3-CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS*(Amount in Rupees)*

Particulars	Current Year	Previous Year
A. CURRENT LIABILITIES		
1. DEPOSITS FROM STAFF	-	-
2. DEPOSITS FROM STUDENTS	3,870,200.00	4,350,600.00
3. SUNDRY CREDITORS		
A) FOR GOODS & SERVICES	6,224,341.00	4,893,642.00
B) OTHERS	15,729,386.66	13,415,616.66
4. DEPOSIT - OTHERS		
A) EARNEST MONEY		
B) SECURITY DEPOSIT	41,330,716.10	42,567,817.10
5. STATUTORY LIABILITIES (GPF TDS WC TAX - CPF - GIS - NPS)		
STATUTORY LIABILITIES (SALARY)	15,798,425.10	15,991,168.38
GROUP INSURANCE	286,393.00	243,308.00
LABOUR CESS	725,721.00	416,482.00
PROFESSIONAL TAX	294,228.00	68,698.00
CGST @1%	27,670.00	
SGST @1%	169,586.00	
IGST @2%	264,687.00	
A) OVERDUE		
B) OTHERS		
EMPLOYEE PROVIDENT FUND (TSECL)	32,648.00	5,383.00
TDS PAYABLE	799,733.00	912,050.00
WITH HELD DEDUCTION		10,000.00
6. OTHER CURRENT LIABILITIES		
A) SALARIES		
OUTSTANDING SALARY & PENSION	47,339,352.00	36,807,494.00
OUTSTANDING SALARY TO SECURITY GUARD	-	-
OUTSTANDING SALARY TO SWEEPING & CLEANING	-	-
B) RECEIPTS AGAINST SPONSORED PROJECTS (Schedule - 3A)	59,652,192.92	96,270,331.20



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year	Previous Year
C) RECEIPTS AGAINST SPONSORED FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS (Schedule - 3B)	1,812,065.64	864,027.00
D) UNUTILISED GRANTS (Schedule - 3C)	113,431,000.00	21,447,000.00
E) GRANT IN ADVANCE	-	-
F) OTHER FUNDS	-	-
<u>G) OTHER LIABILITIES</u>		
INTEREST ON NEC CONSTRUCTION A/C	1,389.00	1,349.00
INTEREST ON PMMMNMTT A/C-LIABILITY	321,713.00	321,713.00
OUTSTANDING HONARARIUM GUEST FACULTY		1,345,000.00
PRO - RATA RETIREMENT BENIFIT	39,230,958.00	37,431,016.00
RECEIVED FROM STATE FUND		2,000.00
OVERDRAWN BANK BALANCE (RBI A/C)	166,153,412.00	0.00
TUITION FEES IN ADVANCE	7,449,100.00	8,114,025.00
GROUP TOTAL (A)	520,944,917.42	285,478,720.34
<u>B) PROVISIONS</u>		
1. GRATUITY	202,749,924.00	157,722,931.00
2. SUPERANNUATION PENSION	2,566,553,391.00	2,080,146,771.00
3. ACCUMULATED LEAVE ENCASHMENT	271,053,067.00	292,630,294.00
4. TRADE WARRANTIES/CLAIMS	-	-
5. OTHER (SPECIFY)	-	-
GROUP TOTAL (B)	3,040,356,382.00	2,530,499,996.00
GRAND TOTAL (A+B)	3,561,301,299.42	2,815,978,716.34

Notes :

- Unutilised grants 6(d) will include grants received in advance for next year.
- With Held Deduction Of Rs. 10,000.00 has been carried forward as same balance year to year since very long and adjusted with "Corpus Fund".
- Received From State Fund Of Rs. 2,000.00 has been carried forward as same balance year to year since very long and adjusted with "Corpus Fund".
- Tuition Fees of Rs. 74,49,100.00 which was received from the student for the period from April,24 to June'24 has been recognised as liability.



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 3(a) SPONSORED PROJECTS

(Amount in Rupees)

1 Sr. No.	2 Name of the Project	Opening Balance		5 Receipts/ Recoveries	6 Total	7 Expenditure During the year	Closing Balance	
		3. Credit (Cr.)	4. Debit (Dr.)				8. Credit (Cr.)	9. Debit (Dr.)
1	ARFI PROJECT	3,820,272.00	-	2,081,931.00	5,902,203.00	4,097,666.72	1,804,536.28	-
2	CSIR (DR S.S.SINGH)	64,784.00	-	-	64,784.00	-	64,784.00	-
3	CSIR PROJECT (PRATAP CH ACHARYA)	158,751.00	-	-	158,751.00	80,862.00	77,889.00	-
4	CSIR PROJECT (SUROCHITA BASU)	80,371.84	-	40,354.00	120,725.84	-	120,725.84	-
5	CSIR PROJECT-II (SS SINGH)	246,218.00	-	-	246,218.00	59,471.00	186,747.00	-
6	DBT BIOINFORMATICS PROJECT	568,751.00	-	26,389.00	595,140.00	-	595,140.00	-
7	DBT BIOTECH BKD	272,257.00	-	10,958.00	283,215.00	130,546.00	152,669.00	-
8	DBT NETWORK (BKD)	761,597.00	-	10,979.00	772,576.00	70,569.00	702,007.00	-
9	DBT OMPOK (PABDA) PROJECT	4,333.00	-	259	4,592.00	-	4,592.00	-
10	DBT ORCHID BIORESOURCE PROJECT	279,613.00	-	-	279,613.00	24,987.00	254,626.00	-
11	DBT PABDA (SUKANTA BANIK)	546,453.00	-	-	546,453.00	-	546,453.00	-
12	DBT PROJECT (PROF R.K.SINHA)	1,015,630.00	-	7,734.00	1,023,364.00	-	1,023,364.00	-
13	DBT PROJECT(NE/323)- SHAON RAY CHOUDHURI	31,984.00	-	-	31,984.00	-	31,984.00	-
14	DBT TWINNING - S.SINHA	34,941.00	-	11,497.00	46,438.00	-	46,438.00	-
15	DBT TWINNING (ANTI LEUKEMIA) - B.K.DATTA	48,908.00	-	-	48,908.00	39,970.00	8,938.00	-
16	DBT TWINNING (II) - S.SINHA	714.00	-	754	1,468.00	-	1,468.00	-
17	DBT TWINNING MKB	194,940.00	-	297	195,237.00	-	195,237.00	-
18	DBT TWINNING PROJECT (II) - S.SINHA	2,463.00	-	2,536.00	4,999.00	-	4,999.00	-
19	DBT TWINNING PROJECT (MOULD SPORE) - A.K.SAHA	-	-	1,651.00	1,651.00	-	1,651.00	-
20	DBT TWINNING PROJECT (MUSHROOM) - A.K.SAHA	151,411.00	-	594	152,005.00	20,428.00	131,577.00	-
21	DBT TWINNING SB (MBB) PROJECT	354.00	-	364	718.00	-	718.00	-
22	DBT TWINNING UCD	1,884,767.00	-	410	1,885,177.00	-	1,885,177.00	-



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

1 Sr. No.	2 Name of the Project	Opening Balance		5 Receipts/ Recoveries	6 Total	7 Expenditure During the year	Closing Balance	
		3. Credit (Cr.)	4. Debit (Dr.)				8. Credit (Cr.)	9. Debit (Dr.)
23	DBT TWINNING-SKS(I)	1,072,164.00	-	-	1,072,164.00	-	1,072,164.00	-
24	DBT TWINNING-SKS(II)	86,721.00	-	525	87,246.00	-	87,246.00	-
25	DBT VRP PROJECT (DEBASISH BHATTACHARYA)	956,704.00	-	-	956,704.00	-	956,704.00	-
26	DBT-TWINNING-D MAITI	262,330.10	-	-	262,330.10	-	262,330.10	-
27	DEITY PROJECT (A.MAJUMDER)	136,136.00	-	42.16	136,178.16	-	136,178.16	-
28	DEITY PROJECT (DR. M.K.BHOWMIK)	138,870.00	-	-	138,870.00	-	138,870.00	-
29	DST CHITALA PROJECT	196.00	-	18	214.00	-	214.00	-
30	DST FAST TRACK (KUNTAL MANNA)	181,637.00	-	-	181,637.00	-	181,637.00	-
31	DST FIST BOTANY	168,664.28	-	1,504.00	170,168.28	-	170,168.28	-
32	DST FIST CHEMISTRY	119,989.20	-	144	120,133.20	-	120,133.20	-
33	DST FIST ZOOLOGY	35,763.00	-	4	35,767.00	-	35,767.00	-
34	DST INSPIRE (FAP)- GG KHAN	8,481.00	-	5,910.00	14,391.00	-	14,391.00	-
35	DST INSPIRE (PROGRAMME)	201,200.00	-	-	201,200.00	-	201,200.00	-
36	DST PROJECT (ALOK PRASAD DAS)	173,344.70	-	5,792.00	179,136.70	51,183.00	127,953.70	-
37	DST PROJECT (SERB) - SB (MBB)	2,093,832.00	-	-	2,093,832.00	-	2,093,832.00	-
38	DST PROJECT (SOURABH DEB)	34,171.00	-	-	34,171.00	30,596.00	3,575.00	-
39	DST PROJECT (SUKANTA BANIK)	508,734.00	-	-	508,734.00	-	508,734.00	-
40	DST PROJECT (SWAPAN MAJUMDER)	376,946.00	-	-	376,946.00	-	376,946.00	-
41	DST PROJECT-II (S.A.HUSSAIN)	251,105.00	-	16	251,121.00	168,000.00	83,121.00	-
42	DST SERB (JAGDISH RAI)	2,299,214.00	-	-	2,299,214.00	-	2,299,214.00	-
43	DST SERB PROJECT (GOVINDO GOPAL KHAN)	27,587.85	-	-	27,587.85	-	27,587.85	-
44	DST SERB PROJECT (K. MANNA)	206,620.00	-	120	206,740.00	84,864.00	121,876.00	-
45	GANDHI SMRITI	743,938.00	-	-	743,938.00	-	743,938.00	-



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

1 Sr. No.	2 Name of the Project	Opening Balance		5 Receipts/ Recoveries	6 Total	7 Expenditure During the year	Closing Balance	
		3. Credit (Cr.)	4. Debit (Dr.)				8. Credit (Cr.)	9. Debit (Dr.)
46	ICHR (RAJESH BHOWMIK)	29,375.00	-	-	29,375.00	-	29,375.00	-
47	ICMR PROJECT (II) - SB(MBB)	1,937.00	-	638	2,575.00	-	2,575.00	-
48	ICMR PROJECT (S. BASAK)	856,089.00	-	485	856,574.00	-	856,574.00	-
49	ICMR PROJECT-I (SB-MBB)	590.00	-	0.00	590.00	-	590.00	-
50	ICMR-II (DIPAYAN CHOWDHURY)	317.00	-	326	643.00	-	643.00	-
51	ICSSR (RAJESH BHOWMIK)	79,993.00	-	-	79,993.00	-	79,993.00	-
52	ICSSR PROJECT (DR. NANIGOPAL DEBNATH)	7,293.00	-	-	7,293.00	-	7,293.00	-
53	ICSSR PROJECT (DR. RAJESH CHATTERJEE)	60,000.00	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
54	ICSSR PROJECT (KHAWLSONKIM SAUNTAK)	15,250.00	-	-	15,250.00	-	15,250.00	-
55	ICSSR PROJECT (L.REANG)	190,569.00	-	182,513.00	373,082.00	88,268.00	284,814.00	-
56	ICSSR PROJECT (MANISH DAS)	45,960.00	-	-	45,960.00	-	45,960.00	-
57	MOES (JHIMMI DEBBARMA)	7,530,856.00	-	-	7,530,856.00	-	7,530,856.00	-
58	MOES-II (JIMMI DEBBARMA)	62,672.00	-	5,571.00	68,243.00	-	68,243.00	-
59	MOM-AO PROJECT	371,026.28	-	-	371,026.28	-	371,026.28	-
60	MRC/MCC	23,562.50	-	1,209.00	24,771.50	-	24,771.50	-
61	NIF (B.K. DATTA)	2,273.00	-	-	2,273.00	-	2,273.00	-
62	NMHS PROJECT - SOURABH DEB	149,480.68	-	7,931.00	157,411.68	-	157,411.68	-
63	OTHER PROJECT (SPONSORED)	8,179,793.64	-	691,387.00	8,871,180.64	7,104,242.00	1,766,938.64	-
64	SOCIAL EXCLUSION & INCLUSION POLICY	524,303.00	-	-	524,303.00	-	524,303.00	-
65	SSA - DR AROBINDO MAHATO	6,250.00	-	-	6,250.00	-	6,250.00	-
66	SSA - DR ASHIS NATH	112,069.00	-	-	112,069.00	-	112,069.00	-
67	ST/SC/OBC/MERIT ETC STIPEND	661,533.00	-	-	661,533.00	-	661,533.00	-
68	TEXTILE DESIGN & HANDICRAFTS	44,958.00	-	-	44,958.00	-	44,958.00	-



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

1 Sr. No.	2 Name of the Project	Opening Balance		5 Receipts/ Recoveries	6 Total	7 Expenditure During the year	Closing Balance	
		3. Credit (Cr.)	4. Debit (Dr.)				8. Credit (Cr.)	9. Debit (Dr.)
69	TRIBAL WELFARE PROJECT (NANIGOPAL DEBNATH)	97,676.00	-	-	97,676.00	29,000.00	68,676.00	-
70	TRIPURA BIODIVERSITY PROJECT (KOUSHIK MAJUMDER)			400.00	400.00		400.00	
71	TU-DBT-BIOTECH	34,856.00			34,856.00		34,856.00	
72	UGC DAE CSR (SHAON RAY CHAUDHURI)	159,504.00	-	-	159,504.00	-	159,504.00	-
73	UGC DRS BSR BOTANY	-	-	112	112.00		112.00	-
74	UGC PROJECT - ABHISHEK DAS	435,371.00	-	12,122.00	447,493.00	-	447,493.00	-
75	UGC PROJECT (PURNENDU DAS)	130,000.00	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
76	UGC PROJECT (RAJEEV DUBEY)	964.00	-	502	1,466.00	-	1,466.00	-
77	UGC PROJECT (S. S. SINGH)	38,108.00	-		38,108.00		38,108.00	-
78	UGC PROJECT (SUBRATA BHOWMIK)	997.00	-	-	997.00	-	997.00	-
79	UGC PROJECT (SUDIPTA PAL)	5,473.00	-	-	5,473.00	-	5,473.00	-
80	UGC PROJECT (V.K. MISRA)	36,806.00	-	-	36,806.00	-	36,806.00	-
81	UGC SAP BOTANY	247.00	-	24	271.00	-	271.00	-
82	UGC SAP ECONOMICS	-	-	3,724.00	3,724.00		3,724.00	
83	UGC START UP GRANT (DR. SOURABH DEB)	91,042.00	-	204	91,246.00	-	91,246.00	-
84	UGC STARTUP GRANT (DR BIMAL DEBNATH)	154,443.00	-	-	154,443.00	-	154,443.00	-
85	UGC STARTUP PROJECT (DR K. MANNA)	37,809.00		38,925.00	76,734.00	-	76,734.00	
86	UGC STARTUP PROJECT (PRATAP CH. ACHARYA)	1,113.00	-	-	1,113.00	-	1,113.00	-
87	VCP PROJECT	16,050.00	-	-	16,050.00	-	16,050.00	-
88	VCP PROJECT (II)	6,160.00	-	1,553.00	7,713.00	-	7,713.00	-
89	WOMEN STUDY CENTER	-	-431,927.50	692,561.00	260,633.50	690,786.00		-430,152.50
90	IERP PROJECT (P.K. ROUT)	612.00	-	-	612.00	0.00	612.00	
91	IERP (SABYASACHI DASGUPTA)	15,725.64	-		15,725.64		15,725.64	-



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

1 Sr. No.	2 Name of the Project	Opening Balance		5 Receipts/ Recoveries	6 Total	7 Expenditure During the year	Closing Balance	
		3. Credit (Cr.)	4. Debit (Dr.)				8. Credit (Cr.)	9. Debit (Dr.)
92	IERP PROJECT (B.K.DATTA)	198,866.64	-	5.00	198,871.64	0.00	198,871.64	-
93	DRDO PROJECT	8,252.00	-	51,771.00	60,023.00	28,000.00	32,023.00	-
94	5% SAMPLE CHECKING OF UDISE (TINKU DE)	9,260.00	-	-	9,260.00	-	9,260.00	-
95	EVALUTION OF STATE FINANCE	265,500.00	-	-	265,500.00	-	265,500.00	-
96	DBT BIORESOURCE SUSTAINABLE PROJECT (B.K. DATTA)	410,674.00	-		410,674.00	199,950.00	210,724.00	-
97	NMHS PROJECT (AJAY KRISHNA SAHA)	16,672.64	-		16,672.64	9,060.00	7,612.64	-
98	DBT PROJECT - BPMC (SURAJIT BHATTACHARJEE)	2,418,962.00	-		2,418,962.00	-	2,418,962.00	-
99	DBT PROJECT (BANANA)- R.K. SINHA	1,188,071.00	-	-	1,188,071.00	350,640.00	837,431.00	-
100	DBT TWINNING PROJECT (320) B. K. DATTA	1,555,775.00	-	9,660.00	1,565,435.00	-	1,565,435.00	-
101	DST SERB (NOBEL METAL) (RATAN DAS)			761,237.00	761,237.00		761,237.00	
102	DST SERB (SPINEL FERRITE) (RATAN DAS)	384,766.30	-	-	384,766.30	-	384,766.30	-
103	DBT TWINNING - SHAON RAY CHOUDHURI	693,701.00	-	-	693,701.00		693,701.00	-
104	ISF-UGC ANIRBAN GUHA	989.00	-		989.00		989.00	
105	ICSSR PROJECT (SIPRA ROY)	92,599.00	-	0.00	92,599.00	52,500.00	40,099.00	-
106	UGC DAE CSR (RATAN DAS)	24,970.00	-	-	24,970.00	-	24,970.00	-
107	UGC SAP PHYSICS	192,923.00	-		192,923.00	38,039.00	154,884.00	
108	DBT TWINNING SKS (373)	805,180.30	-	3,839.00	809,019.30		809,019.30	-
109	UGC SAP ECONOMICS - DRS II	988,889.00	-		988,889.00	378,818.00	610,071.00	
110	NMHS PROJECT (SACHIN BHALADHARE)	-	-	5,632.00	5,632.00		5,632.00	
111	DBT TWINNING PROJECT (P.C ACHARYA)	877,966.00	-	-	877,966.00	21,257.00	856,709.00	-
112	AICTE PROJECT (RAJAT GHOSH)	81,034.84	-	-	81,034.84	35,601.00	45,433.84	-
113	IUAC-UFR PROJECT (RATAN DAS)	67,097.00	-		67,097.00	67,097.00	-	-
114	DST PROJECT (S. MITRA)	49,661.00	-	-	49,661.00	35,868.00	13,793.00	-



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

1 Sr. No.	2 Name of the Project	Opening Balance		5 Receipts/ Recoveries	6 Total	7 Expenditure During the year	Closing Balance	
		3. Credit (Cr.)	4. Debit (Dr.)				8. Credit (Cr.)	9. Debit (Dr.)
115	DBT PROJECT(ENDOPHYTE)-A.K. SAHA	790,880.00	-	-	790,880.00	270,983.00	519,897.00	-
116	396 - TRIBAL WELFARE PROJECT (S.DAS) ECO	-	-	165,000.00	165,000.00	39,200.00	125,800.00	-
117	DBT TWINNING PROJECT (BISVA BHARATI)	231,315.00	-	1,080,403.00	1,311,718.00	1,014,083.00	297,635.00	-
118	DBT TWINNING PROJECT (ANTIDIABETOGENIC)-UCD	504,148.00	-	-	504,148.00	-	504,148.00	-
119	NMHS PROJECT (JAL ABHYARANYA-DHALAI)	35,451.00	-	-	35,451.00	-	35,451.00	-
120	UGC BSR (ASHUTOSH KUMAR)	3.00	-	-	3.00	-	3.00	-
121	DBT PROJECT (S. MITRA)	388,076.00	-	-	388,076.00	4,326.00	383,750.00	-
122	DST PROJECT (NMS)- A.CHAUHAN	8,604.00	-	-	8,604.00	-	8,604.00	-
123	TWD PROJECT (JAHAR DEBBARMA)	1,500.00	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
124	ICSSR PROJECT (SUBIR SEN)	142,663.00	-	-	142,663.00	-	142,663.00	-
125	ICSSR PROJECT-II (SAPTARSHI MITRA)	40,761.00	-	-	40,761.00	-	40,761.00	-
126	DST SPLICE PROJECT (SOURAV DEB)-412	120,352.00	-	1,357,080.00	1,477,432.00	1,021,997.00	455,435.00	-
127	TEXTILE DESIGN (II)-416	95,600.00	-	-	95,600.00	-	95,600.00	-
128	415 - NMHS PROJECT(NMSHE)	1,008,961.00	-	872,820.00	1,881,781.00	1,816,310.00	65,471.00	-
129	LOKNITI CSDS	9,793.00	-	-	9,793.00	-	9,793.00	-
130	ICSSR IMPRESS PROJECT (A. MAHATO)	481,915.00	-	100,341.00	582,256.00	-	582,256.00	-
131	ICMR PROJECT- A. CHAUHAN (419)	909,221.28	-	11,460.00	920,681.28	-	920,681.28	-
132	ICMR PROJECT- P.C. ACHARYA (420)	177,977.36	-	-	177,977.36	41,283.00	136,694.36	-
133	NITI AAYOG PROJECT	15,194.00	-	-	15,194.00	-	15,194.00	-
134	AICTE PROJECT (P. C. ACHARYA)	6,479.00	-	-	6,479.00	-	6,479.00	-
135	424-JICA PROJECT- B.K. DATTA	-	-	664,503.00	664,503.00	644,172.00	20,331.00	-
136	DBT SAHAJ PROJECT	32,802,776.07	-	7,301,576.00	40,104,352.07	40,077,516.00	26,836.07	-
137	AICTE PROJECT (ABHISHEK MAJUMDER)-422	27,181.00	-	-	27,181.00	14,019.00	13,162.00	-



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

1 Sr. No.	2 Name of the Project	Opening Balance		5 Receipts/ Recoveries	6 Total	7 Expenditure During the year	Closing Balance	
		3. Credit (Cr.)	4. Debit (Dr.)				8. Credit (Cr.)	9. Debit (Dr.)
138	TU BUSINESS INCUBATOR	650,272.56	-	209,219.00	859,491.56	448,034.00	411,457.56	-
139	SERB PROJECT (428)- SA HUSSAIN	64,543.00	-	700,000.00	764,543.00	612,335.72	152,207.28	-
140	SERB PROJECT (429)- A.CHAUHAN	467,948.00	-		467,948.00	467,832.00	116.00	-
141	DBT PROJECT-430 (M.K. BHOWMIK)	397,495.00	-	1,032,120.00	1,429,615.00	662,384.00	767,231.00	-
142	SERB PROJECT (431)- P.K.P. RUPA	2,521,137.00	-	521,101.00	3,042,238.00	2,494,736.00	547,502.00	-
143	DBT PROJECT- PANNA DAS (432)	550,180.00	-	77,751.00	627,931.00	583,779.00	44,152.00	-
144	AICTE MODROB PROJECT (433)	90,800.00	-	-	90,800.00	88,907.00	1,893.00	-
145	434-UGC DAE CSR- G G KHAN	75,688.00	-	290,368.00	366,056.00	91,280.00	274,776.00	-
146	HKN PROJECT (NMHS)	422,000.00	-		422,000.00	106,359.00	315,641.00	
147	RUDRASAGAR PROJECT (440)	36,000.00	-	84,000.00	120,000.00	100,000.00	20,000.00	
148	RUDRASAGAR PROJECT (439)	148,500.00	-	346,500.00	495,000.00	425,060.00	69,940.00	
149	SOCIAL WELFARE & EDUCATION (441)- ANJANA BHATTACHARJEE	733,300.00	-		733,300.00	560,437.00	172,863.00	
150	DR. AMBEDKAR CENTRE OF EXCELLENCE SCHEME	1,940,767.00	-	1,872.00	1,942,639.00	1,942,639.00	-	
151	NGIN (NEXT GENERATION INNOVATION NETWORK) SCHEME			2,017,653.00	2,017,653.00	1,003,413.00	1,014,240.00	
152	445-ICSSR PROJECT-M.ANJALI GAYAN			235,184.00	235,184.00	168,365.00	66,819.00	
153	447-ICSSR PROJECT-KUKI CHIN- K. SAUNTAK			500,000.00	500,000.00	158,133.00	341,867.00	
154	446-ICMR PROJECT -MKB			405,480.00	405,480.00	81,750.00	323,730.00	
155	454-NCW PROJECT- PRASANTA KR DAS			610,500.00	610,500.00	110,490.00	500,010.00	
156	455 - IUAC PROJECT- SRC			190,833.00	190,833.00	156,834.00	33,999.00	
157	442-RD TRLM PROJECT			397,200.00	397,200.00	330,984.00	66,216.00	
158	459-UGC DAE CSR (S.A. HUSSAIN)			228,120.00	228,120.00	57,986.00	170,134.00	



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

1 Sr. No.	2 Name of the Project	Opening Balance		5 Receipts/ Recoveries	6 Total	7 Expenditure During the year	Closing Balance	
		3. Credit (Cr.)	4. Debit (Dr.)				8. Credit (Cr.)	9. Debit (Dr.)
159	NHM PROJECT-453 (J. CHOWDHURY)			200,000.00	200,000.00		200,000.00	
160	457 CSIR PROJECT (S.A. HUSSAIN)			391,666.00	391,666.00	169,656.00	222,010.00	
161	456-ICSSR PROJECT (ESHITA BORAL)			375,000.00	375,000.00	240,000.00	135,000.00	
162	460-DST WTC PROJECT (SRC)			966,359.00	966,359.00	775,163.00	191,196.00	
163	461- SERB PROJECT- S. MAJUMDER, IT			1,178,900.00	1,178,900.00	29,603.00	1,149,297.00	
164	462-TRISHNA WILDLIFE PROJECT- S. DASGUPTA			400,000.00	400,000.00		400,000.00	
165	458 - CHANDRAYAAN-II AO PROJECT (A. GUHA)			360,089.00	360,089.00	249,152.00	110,937.00	
166	463- ICPR PROJECT (KS SUMAN)			360,000.00	360,000.00		360,000.00	
167	470-UGC DAE CSR PROJECT (B.K. SARMA)			228,120.00	228,120.00		228,120.00	
168	471- CSS DWH PROJECT (S. DASGUPTA)			340,000.00	340,000.00		340,000.00	
169	464 - IBITF PROJECT (ABHISHEK MAJUMDER)			5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	
170	465 - UGC DAE CSR (S. BHALADHARE)			45,000.00	45,000.00		45,000.00	
	Total	96,702,258.70	-431,927.50	34,429,331.16	130,699,662.36	71,047,469.44	60,082,345.42	-430,152.50



TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 3(b) SPONSORED FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS*(Amount in Rupees)*

1 Sr. No.	2 Name of the Sponsor	Opening Balance as on 01.04.2023		Transaction During the year		Closing Balance as on 31.03.2024	
		3	4	4	5	6	7
		Cr.	Dr.	Cr.	Dr.	Cr.	Dr.
1	DST INSPIRE FELLOWSHIP (BANDANA DAS)	979.00	-	-		979.00	-
2	DST INSPIRE FELLOWSHIP (DIPANWITA BANIK)	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
3	DST WOMEN SCIENTIST (BIJAYASREE MISRA)	160,000.00				160,000.00	
4	RTF-DCS FELLOWSHIP	139,033.00	-	-	-	139,033.00	-
5	DST WOS-A LOVELY RAHAMAN	-	-	810		810.00	-
6	ICSSR INSPIRE (LIPIKA ROY)	15,000.00			15,000.00	-	
7	UGC INSPIRE FELLOWSHIP (PINKY SAHA)	-	-	72		72.00	-
8	DST INSPIRE FELLOWSHIP (SAYANTIKA CHANDA)	260,050.00	-			260,050.00	-
9	ICSSR POST DOC FELLOW (REBEKA D/BARMA)	-	-	198,500.00	198,500.00	-	-
10	CSIR RA (MANISH DEBBARMA)	65.00				65.00	
11	ICSSR INSPIRE FELLOWSHIP (CHANDRA SAHA ROY)	-	-	240,000.00	240,000.00	-	-
12	ICSSR INSPIRE FELLOWSHIP (WAQAR AHMED)			240,000.00	240,000.00	-	
13	DST INSPIRE FELLOW (TAMANNA AKTAR)	8,900.00		527,940.00	495,858.00	40,982.00	
14	DST INSPIRE FELLOW (PUJA DAS, EC)-437			425,480.00	338,110.00	87,370.00	
15	ICSSR INSPIRE FELLOW(KOMAL)/443	130,000.00		275,000.00	260,000.00	145,000.00	
16	ICSSR INSPIRE FELLOW(SOPHIA)/449	130,000.00		260,000.00	260,000.00	130,000.00	
17	438 - DST INSPIRE FELLOW (PUJA DAS,CSE)			976,746.00	718,739.00	258,007.00	
18	450-DST INSPIRE FELLOW (KAKALI SARKAR)			123,187.00	101,370.00	21,817.00	
19	451-DST INSPIRE FELLOW (ANUBHUTI KASHYAP)			796,870.64	378,990.00	417,880.64	
20	ICMR INSPIRE FELLOW (PARTHA SAHA)			477,800.00	477,800.00	-	
21	467 - ICSSR INSPIRE FELLOWSHIP (MANAV KR CHAKMA)			130,000.00		130,000.00	
	TOTAL	864,027.00	-	4,672,405.64	3,724,367.00	1,812,065.64	-



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 3 (C) UNUTILISED GRANTS FROM UGC, GOVERNMENT OF INDIA AND STATE GOVERNMENTS

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year	Previous Year
A. Plan Grants : Government of India		
Balance B/F	-	
Add : Receipts during the year		
Total (a)	-	-
Less : Refunds		
Less : Utilised for Revenue Expenditure		
Less : Utilised for Capital Expenditure		
Total (b)	-	-
Utilised carried forward (a - b)	-	-
B. UGC Grants : Plan/Capital Assets/Specific Scheme		
Balance B/F	21,447,000.00	65,023,714.28
Add : Receipts during the year	227,100,900.00	75,021,772.00
Total (c)	248,547,900.00	140,045,486.28
Less : Refunds	10,461,000.00	43,602,714.28
Less : Utilised for Revenue Expenditure	-	-
Less : Utilised for Capital Expenditure	124,655,900.00	74,995,772.00
Total (d)	135,116,900.00	118,598,486.28
Utilised carried forward (c - d)	113,431,000.00	21,447,000.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year	Previous Year
C.UGC Grants : Non Plan/Salary/Recurring		
Balance B/F	-	-
Add : Receipts during the year	904,619,253.00	858,074,930.00
Total (e)	904,619,253.00	858,074,930.00
Less : Refunds		
Less : Utilised for Revenue Expenditure	904,619,253.00	858,074,930.00
Less : Utilised for Capital Expenditure	-	-
Total (f)	904,619,253.00	858,074,930.00
Utilised carried forward (e - f)	-	-
D. Grant from State Govt.		
Balance B/F	-	
Add : Receipts during the year		
Total (g)	-	-
Less : Refunds		
Less : Utilised for Revenue Expenditure		
Less : Utilised for Capital Expenditure		
Total (h)	-	-
Utilised carried forward (g - h)	-	-
Grand Total (A+B+C+D)	113,431,000.00	21,447,000.00

Notes :

1. Unutilised Grants include Advance on Capital Account.
2. Unutilised Grants include Grant Received in Advance for the next year.
3. Unutilized Grants are represented on the Assets side Bank Balances, Short Term Deposits with Banks and Advances on Capital Account.



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 4 -FIXED ASSETS*(Amount in Rupees)*

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	De-duction (2023-2024)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depreciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduction/Adjustment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TANGIBLE ASSETS											
AC MACHINE	123,156.00	-	-	123,156.00	7.50	123,155.00	-	-	123,155.00	1.00	1.00
ACADEMIC BUILDING - II (STATE PERIOD)	35,595,000.00	-	-	35,595,000.00	2.00	4,983,300.00	711,900.00	-	5,695,200.00	29,899,800.00	30,611,700.00
ACADEMIC BUILDING - III (STATE PERIOD)	14,160,000.00	-	-	14,160,000.00	2.00	1,982,400.00	283,200.00	-	2,265,600.00	11,894,400.00	12,177,600.00
ACADEMIC BUILDING - IV (STATE PERIOD)	12,317,000.00	-	-	12,317,000.00	2.00	1,724,380.00	246,340.00	-	1,970,720.00	10,346,280.00	10,592,620.00
ACADEMIC BUILDING - VII (STATE PERIOD)	27,503,000.00	-	-	27,503,000.00	2.00	3,850,420.00	550,060.00	-	4,400,480.00	23,102,520.00	23,652,580.00
ACADEMIC BUILDING - VIII (STATE PERIOD)	18,332,000.00	-	-	18,332,000.00	2.00	2,566,480.00	366,640.00	-	2,933,120.00	15,398,880.00	15,765,520.00
ACADEMIC BUILDING - X (STATE PERIOD)	27,144,000.00	-	-	27,144,000.00	2.00	3,800,160.00	542,880.00	-	4,343,040.00	22,800,960.00	23,343,840.00
ACADEMIC BUILDING - I (STATE PERIOD)	35,595,000.00	-	-	35,595,000.00	2.00	4,983,300.00	711,900.00	-	5,695,200.00	29,899,800.00	30,611,700.00
ACADEMIC BUILDING - IX (STATE PERIOD)	13,850,000.00	-	-	13,850,000.00	2.00	1,939,000.00	277,000.00	-	2,216,000.00	11,634,000.00	11,911,000.00
ACADEMIC BUILDING - V (STATE PERIOD)	44,890,000.00	-	-	44,890,000.00	2.00	6,284,600.00	897,800.00	-	7,182,400.00	37,707,600.00	38,605,400.00
ACADEMIC BUILDING - VI (STATE PERIOD)	23,808,000.00	-	-	23,808,000.00	2.00	3,333,120.00	476,160.00	-	3,809,280.00	19,998,720.00	20,474,880.00
ADMINISTRATIVE BUILDING (STATE PERIOD)	21,783,000.00	-	-	21,783,000.00	2.00	3,049,620.00	435,660.00	-	3,485,280.00	18,297,720.00	18,733,380.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	Deduction (2023-2024)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depreciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduction/Adjustment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33/11 KV ELECTRICAL SUB-STATION	47,037,110.00	-	-	47,037,110.00	5.00	23,518,560.00	-	-	23,518,560.00	23,518,550.00	23,518,550.00
2nd Floor of SOM	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	2.00	2,100,000.00	300,000.00	-	2,400,000.00	12,600,000.00	12,900,000.00
VCB & LA AT 33 KV TU SUB STATION	2,132,764.00	-	-	2,132,764.00	5.00	213,276.00	106,638.00	-	319,914.00	1,812,850.00	1,919,488.00
BASKETBALL COURT	1,049,105.00	-	-	1,049,105.00	2.00	41,964.00	20,982.00	-	62,946.00	986,159.00	1,007,141.00
BOOKS & JOURNALS	34,728,931.00	7,180,513.00	-	41,909,444.00	10.00	9,309,612.00	4,190,944.00	-	13,500,556.00	28,408,888.00	25,419,319.00
BOOKS & JOURNALS (FDC)	6,600.00	-	-	6,600.00	10.00	4,620.00	660.00	-	5,280.00	1,320.00	1,980.00
BOOKS & JOURNALS (NET COACHING)	79,593.00	-	-	79,593.00	10.00	67,738.00	7,959.00	-	75,697.00	3,896.00	11,855.00
BOOKS & JOURNALS (WOMEN STUDY)	145,116.00	-	-	145,116.00	10.00	145,115.00	-	-	145,115.00	1.00	1.00
BOOKS & JOURNALS (NEEPCO) NON-PLAN	422,020.00	-	-	422,020.00	10.00	400,936.00	21,083.00	-	422,019.00	1.00	21,084.00
BOOKS & JOURNALS (PLAN)	46,707,039.54	-	-	46,707,039.54	10.00	41,560,139.00	4,670,704.00	-	46,230,843.00	476,196.54	5,146,900.54
BOOKS & JOURNALS (PROJECT)	1,705,514.00	-	-	1,705,514.00	10.00	1,142,792.00	170,551.00	-	1,313,343.00	392,171.00	562,722.00
BOUNDARY WALL CITY CENTRE	493,369.00	-	-	493,369.00	2.00	78,936.00	9,867.00	-	88,803.00	404,566.00	414,433.00
BOUNDARY WALL OF CITY CENTRE	1,042,600.00	-	-	1,042,600.00	2.00	145,964.00	20,852.00	-	166,816.00	875,784.00	896,636.00
BOUNDARY WALL	11,536,012.00	415,266.00	-	11,951,278.00	2.00	366,218.00	239,026.00	-	605,244.00	11,346,034.00	11,169,794.00
BUILDING - ANIMAL HOUSE	1,849,002.00	-	-	1,849,002.00	2.00	258,860.00	36,980.00	-	295,840.00	1,553,162.00	1,590,142.00
BUILDING - HEALTH CENTER (1ST FLOOR) - PLAN	1,782,245.00	-	-	1,782,245.00	2.00	417,915.00	35,645.00	-	453,560.00	1,328,685.00	1,364,330.00
BUILDING - WOMENS HOSTEL (2ND FLOOR) - PLAN	6,196,009.00	-	-	6,196,009.00	2.00	1,452,888.00	123,920.00	-	1,576,808.00	4,619,201.00	4,743,121.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	De-duction (2023-2024)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depreciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduction/ Adjust-ment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BUILDING (PARIKSHA BHAWAN)	197,945,000.00	-	-	197,945,000.00	2.00	31,671,200.00	3,958,900.00	-	35,630,100.00	162,314,900.00	166,273,800.00
BUILDING SOLAR PLANT	198,659.00	-	-	198,659.00	2.00	41,170.00	3,973.00	-	45,143.00	153,516.00	157,489.00
BOUNDARY WALL (STATE PERIOD)	5,551,000.00	-	-	5,551,000.00	2.00	777,140.00	111,020.00	-	888,160.00	4,662,840.00	4,773,860.00
BOYS HOSTEL (STATE PERIOD)	8,351,000.00	-	-	8,351,000.00	2.00	1,169,140.00	167,020.00	-	1,336,160.00	7,014,840.00	7,181,860.00
CAMPUS DEVELOPMENT - APPROACH ROAD	4,113,694.00	-	-	4,113,694.00	2.00	164,548.00	82,274.00	-	246,822.00	3,866,872.00	3,949,146.00
CAMPUS DEVELOPMENT - LED ILLUMINATION	6,856,920.00	1,110,912.00	-	7,967,832.00	5.00	1,416,921.00	398,392.00	-	1,815,313.00	6,152,519.00	5,439,999.00
CAMPUS DEVELOPMENT LIQUID NITROGEN PLANT	-	782,398.00	-	782,398.00	5.00	-	39,120.00	-	39,120.00	743,278.00	-
CC TV	11,862,138.00	988,390.00	-	12,850,528.00	20.00	11,862,137.00	197,678.00	-	12,059,815.00	790,713.00	1.00
CENTRAL LIBRARY (STATE PERIOD)	60,132,000.00	-	-	60,132,000.00	2.00	8,418,480.00	1,202,640.00	-	9,621,120.00	50,510,880.00	51,713,520.00
COMPUTER	14,071,662.80	5,377,400.00	-	19,449,062.80	20.00	6,182,425.00	3,889,813.00	-	10,072,238.00	9,376,824.80	7,889,237.80
COMPUTER (ADDL GRANT)	138,320.00	-	-	138,320.00	20.00	138,319.00	-	-	138,319.00	1.00	1.00
COMPUTER (EOC)	238,485.00	-	-	238,485.00	20.00	238,484.00	-	-	238,484.00	1.00	1.00
COMPUTER (B.VOC)	4,086,424.00	-	-	4,086,424.00	20.00	4,086,423.00	-	-	4,086,423.00	1.00	1.00
COMPUTER (PLAN)	44,487,505.00	-	-	44,487,505.00	20.00	44,487,504.00	-	-	44,487,504.00	1.00	1.00
COMPUTER (PROJECT)	5,937,241.00	174,574.00	-	6,111,815.00	20.00	5,841,120.00	131,035.00	-	5,972,155.00	139,660.00	96,121.00
COMPUTER (STATE PERIOD)	1,078,095.00	-	-	1,078,095.00	20.00	1,078,094.00	-	-	1,078,094.00	1.00	1.00
COMPUTER (WSC)	968,840.00	-	-	968,840.00	20.00	968,839.00	-	-	968,839.00	1.00	1.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	De-duction (2023-2024)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depreciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduction/Adjustment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COMPUTER (NON-PLAN)	12,049,731.00	-	-	12,049,731.00	20.00	12,049,730.00	-	-	12,049,730.00	1.00	1.00
DAY CARE CENTRE-LIBRARY BUILDING AND OPEN AIR-THEATER	147,826,001.00	-	-	147,826,001.00	2.00	23,937,992.00	2,956,520.00	-	26,894,512.00	120,931,489.00	123,888,009.00
DIGITAL DISPLAY	2,230,200.00	-	-	2,230,200.00	7.50	334,530.00	167,265.00	-	501,795.00	1,728,405.00	1,895,670.00
ELECTRICAL INSTALLATION	3,555,927.00	-	-	3,555,927.00	5.00	1,244,572.00	177,796.00	-	1,422,368.00	2,133,559.00	2,311,355.00
EPBAX SYSTEM (NON-PLAN)	2,537,662.00	-	-	2,537,662.00	7.50	1,695,655.00	190,325.00	-	1,885,980.00	651,682.00	842,007.00
EQUIPMENT	52,909,634.94	15,000,139.00	71,538.00	67,838,235.94	7.50	10,161,798.00	5,087,868.00	-	15,249,666.00	52,588,569.94	42,747,836.94
EQUIPMENT (ADDL GRANT)	2,546,871.00	-	-	2,546,871.00	7.50	1,987,498.00	191,015.00	-	2,178,513.00	368,358.00	559,373.00
EQUIPMENT (B.VOC)	6,582,887.00	-	-	6,582,887.00	7.50	3,216,444.00	493,717.00	-	3,710,161.00	2,872,726.00	3,366,443.00
EQUIPMENT (C & C CELL)	141,350.00	-	-	141,350.00	7.50	111,765.00	10,601.00	-	122,366.00	18,984.00	29,585.00
EQUIPMENT (CENTRAL FACILITIES)	1,198,204.00	-	-	1,198,204.00	7.50	946,640.00	89,865.00	-	1,036,505.00	161,699.00	251,564.00
EQUIPMENT (EOC)	95,351.00	-	-	95,351.00	7.50	55,737.00	7,151.00	-	62,888.00	32,463.00	39,614.00
EQUIPMENT (HEALTH CENTER)	494,831.00	-	-	494,831.00	7.50	326,622.00	37,112.00	-	363,734.00	131,097.00	168,209.00
EQUIPMENT (HINDI)	37,610.00	-	-	37,610.00	7.50	22,568.00	2,821.00	-	25,389.00	12,221.00	15,042.00
EQUIPMENT (IQAC)	284,690.00	-	-	284,690.00	7.50	226,480.00	21,352.00	-	247,832.00	36,858.00	58,210.00
EQUIPMENT (NET COACHING)	156,885.00	-	-	156,885.00	7.50	121,119.00	11,766.00	-	132,885.00	24,000.00	35,766.00
EQUIPMENT (NON-PLAN)	14,619,456.00	-	-	14,619,456.00	7.50	11,672,629.00	1,096,459.00	-	12,769,088.00	1,850,368.00	2,946,827.00
EQUIPMENT (PLAN)	38,763,285.85	-	-	38,763,285.85	7.50	32,040,792.00	2,907,246.00	-	34,948,038.00	3,815,247.85	6,722,493.85



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	De-duction (2023-2024)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depre-ciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduc-tion/ Adjust-ment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EQUIPMENT (PROJECT) - INSPIRE	364,378.00	25,653.00	-	390,031.00	7.50	176,256.00	27,328.00	-	203,584.00	186,447.00	188,122.00
EQUIPMENT (SCHOOL OF EDUCATION)	743,678.00	-	-	743,678.00	7.50	416,748.00	55,776.00	-	472,524.00	271,154.00	326,930.00
EQUIPMENT (STATE PERIOD)	1,772,338.00	-	-	1,772,338.00	7.50	1,772,337.00	-	-	1,772,337.00	1.00	1.00
EQUIPMENT (XII PLAN)	87,533,576.91	-	-	87,533,576.91	7.50	46,032,492.00	6,565,018.00	-	52,597,510.00	34,936,066.91	41,501,084.91
EQUIPMENT - CLOCK	442,069.00	-	-	442,069.00	7.50	366,601.00	33,155.00	-	399,756.00	42,313.00	75,468.00
EQUIPMENT (OTHER INFRASTRUCTURE)	27,739,417.00	3,868,891.00	-	31,608,308.00	7.50	15,345,402.00	2,370,623.00	-	17,716,025.00	13,892,283.00	12,394,015.00
EQUIPMENT (PROJECT)	194,172,383.61	43,742,281.00	-	237,914,664.61	7.50	102,535,750.00	17,843,600.00	-	120,379,350.00	117,535,314.62	91,636,633.61
FAX MACHINE	46,829.00	-	-	46,829.00	7.50	46,828.00	-	-	46,828.00	1.00	1.00
FURNITURE	34,368,477.00	8,443,951.00	-	42,812,428.00	7.50	7,988,550.00	3,210,932.00	-	11,199,482.00	31,612,946.00	26,379,927.00
FURNITURE (ADDL GRANT)	332,182.00	-	-	332,182.00	7.50	243,906.00	24,914.00	-	268,820.00	63,362.00	88,276.00
FURNITURE (B.VOC)	506,226.00	-	-	506,226.00	7.50	303,736.00	37,967.00	-	341,703.00	164,523.00	202,490.00
FURNITURE (HEALTH CENTER)	751,168.00	-	-	751,168.00	7.50	543,710.00	56,338.00	-	600,048.00	151,120.00	207,458.00
FURNITURE (PROJECT) - CONT	930,006.00	-	-	930,006.00	7.50	622,222.00	69,750.00	-	691,972.00	238,034.00	307,784.00
FURNITURE (PROJECT) - OH	626,873.00	302,598.00	-	929,471.00	7.50	114,459.00	69,709.00	-	184,168.00	745,303.00	512,414.00
FURNITURE (STATE PERIOD)	1,523,544.00	-	-	1,523,544.00	7.50	1,408,249.00	114,266.00	-	1,522,515.00	1,029.00	115,295.00
FURNITURE (NON-PLAN)	38,799,230.00	-	-	38,799,230.00	7.50	26,487,569.00	2,909,942.00	-	29,397,511.00	9,401,719.00	12,311,661.00
FURNITURE (PLAN)	57,477,668.00	-	-	57,477,668.00	7.50	34,252,862.00	4,310,825.00	-	38,563,687.00	18,913,981.00	23,224,806.00
FURNITURE (SCHOOL OF EDUCATION)	1,252,305.00	-	-	1,252,305.00	7.50	690,269.00	93,923.00	-	784,192.00	468,113.00	562,036.00
FURNITURE (IAS)	154,700.00	-	-	154,700.00	7.50	52,212.00	11,603.00	-	63,815.00	90,885.00	102,488.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	De-duction (2023-2024)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depre-ciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduc-tion/ Adjust-ment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ICT ENABLED - ONLINE LEARNING	36,390,408.00	8,382,451.00	-	44,772,859.00	20.00	14,683,077.00	8,954,572.00	-	23,637,649.00	21,135,210.00	21,707,331.00
IRON REMOVAL PLANT	7,402,438.00	1,153,490.00	-	8,555,928.00	5.00	536,044.00	427,796.00	-	963,840.00	7,592,088.00	6,866,394.00
GANDHI BUILDING (STATE PERIOD)	248,000.00	-	-	248,000.00	2.00	34,720.00	4,960.00	-	39,680.00	208,320.00	213,280.00
GARBAGE CONTAINER	432,976.00	187,550.00	-	620,526.00	7.50	38,924.00	46,539.00	-	85,463.00	535,063.00	394,052.00
GRASS CUTTING MACHINE	-	393,830.00	-	393,830.00	5.00	-	19,692.00	-	19,692.00	374,138.00	-
GUEST HOUSE (STATE PERIOD)	8,108,000.00	-	-	8,108,000.00	2.00	1,135,120.00	162,160.00	-	1,297,280.00	6,810,720.00	6,972,880.00
GUEST HOUSE ANNEX (STATE PERIOD)	3,683,000.00	-	-	3,683,000.00	2.00	515,620.00	73,660.00	-	589,280.00	3,093,720.00	3,167,380.00
HEALTH CENTRE (STATE PERIOD)	2,133,000.00	-	-	2,133,000.00	2.00	298,620.00	42,660.00	-	341,280.00	1,791,720.00	1,834,380.00
LAND - STATE PERIOD	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00
LAND AT SURYAMANINAGAR	213,347,263.00	1,052,514.00	-	214,399,777.00	-	-	-	-	-	214,399,777.00	213,347,263.00
LCD PROJECTOR	102,708.00	-	-	102,708.00	7.50	102,707.00	-	-	102,707.00	1.00	1.00
LIFT (ADMINISTRATIVE BUILDING)	3,030,690.00	-	-	3,030,690.00	5.00	757,675.00	151,535.00	-	909,210.00	2,121,480.00	2,273,015.00
LIFT (ACADEMIC BUILDING IX & X)	1,533,976.00	-	-	1,533,976.00	5.00	383,495.00	76,699.00	-	460,194.00	1,073,782.00	1,150,481.00
MBA LIFT	1,672,200.00	-	-	1,672,200.00	5.00	585,270.00	83,610.00	-	668,880.00	1,003,320.00	1,086,930.00
MULTISTORIED ACADEMIC BUILDINGS- BOYS & GIRLS	860,198,089.00	-	-	860,198,089.00	2.00	120,427,734.00	17,203,962.00	-	137,631,696.00	722,566,393.00	739,770,355.00
NEW DEEP TUBE-WELL	4,361,662.00	-	-	4,361,662.00	2.00	573,453.00	87,233.00	-	660,686.00	3,700,976.00	3,788,209.00
SBI BUILDING	728,673.00	-	-	728,673.00	2.00	102,011.00	14,573.00	-	116,584.00	612,089.00	626,662.00
SOLAR PLANT	2,700,000.00	-	-	2,700,000.00	5.00	945,000.00	135,000.00	-	1,080,000.00	1,620,000.00	1,755,000.00
PA SYSTEM	420,473.00	-	-	420,473.00	7.50	420,472.00	-	-	420,472.00	1.00	1.00
QUTR TYPE - I BUILDING (STATE PERIOD)	1,637,600.00	-	-	1,637,600.00	2.00	229,264.00	32,752.00	-	262,016.00	1,375,584.00	1,408,336.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	De-duction (2023-2024)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depreciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduction/ Adjust-ment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUTR TYPE - II BUILDING (STATE PERIOD)	11,744,500.00	-	-	11,744,500.00	2.00	1,644,230.00	234,890.00	-	1,879,120.00	9,865,380.00	10,100,270.00
QUTR TYPE - III BUILDING (STATE PERIOD)	13,371,000.00	-	-	13,371,000.00	2.00	1,871,940.00	267,420.00	-	2,139,360.00	11,231,640.00	11,499,060.00
QUTR TYPE - IV BUILDING (STATE PERIOD)	7,936,000.00	-	-	7,936,000.00	2.00	1,111,040.00	158,720.00	-	1,269,760.00	6,666,240.00	6,824,960.00
RCC BRIDGE (STATE PERIOD)	36,752,000.00	-	-	36,752,000.00	2.00	5,145,280.00	735,040.00	-	5,880,320.00	30,871,680.00	31,606,720.00
SBI BUILDING (STATE PERIOD)	1,087,000.00	-	-	1,087,000.00	2.00	152,180.00	21,740.00	-	173,920.00	913,080.00	934,820.00
SOFTWARE (PROJECT)	395,667.28	-	-	395,667.28	40.00	395,666.28	-	-	395,666.28	1.00	1.00
STUDENT COMMUNITY (STATE PERIOD)	4,972,000.00	-	-	4,972,000.00	2.00	696,080.00	99,440.00	-	795,520.00	4,176,480.00	4,275,920.00
SPORTS BOATS	213,798.00	-	-	213,798.00	7.50	213,797.00	-	-	213,797.00	1.00	1.00
SPORTS GOODS	70,622.00	-	-	70,622.00	7.50	70,621.00	-	-	70,621.00	1.00	1.00
STUDENT COUNCIL BUILDING	2,229,959.00	-	-	2,229,959.00	2.00	312,193.00	44,599.00	-	356,792.00	1,873,167.00	1,917,766.00
SECURITY CONTROL ROOM	-	259,500.00	-	259,500.00	2.00	-	5,190.00	-	5,190.00	254,310.00	-
SEWERAGE & DRAINAGE	-	1,792,800.00	-	1,792,800.00	2.00	-	35,856.00	-	35,856.00	1,756,944.00	-
TRANSFORMER	-	2,118,840.00	-	2,118,840.00	10.00	-	211,884.00	-	211,884.00	1,906,956.00	-
TISSUE CULTURE LAB	3,477,000.00	-	-	3,477,000.00	7.50	2,086,200.00	260,775.00	-	2,346,975.00	1,130,025.00	1,390,800.00
TYPE- IV QTR IN CAMPUS	2,846,000.00	-	-	2,846,000.00	2.00	398,440.00	56,920.00	-	455,360.00	2,390,640.00	2,447,560.00
TOILET	5,000,137.00	-	-	5,000,137.00	2.00	200,006.00	100,003.00	-	300,009.00	4,700,128.00	4,800,131.00
TV	10,518.00	-	-	10,518.00	7.50	10,517.00	-	-	10,517.00	1.00	1.00
UPS	65,830.00	-	-	65,830.00	7.50	65,829.00	-	-	65,829.00	1.00	1.00
VEHICLES (PLAN)	5,870,052.00	-	-	5,870,052.00	10.00	2,429,378.00	587,005.00	-	3,016,383.00	2,853,669.00	3,440,674.00
VEHICLES (NON-PLAN)	1,555,442.00	-	-	1,555,442.00	10.00	1,555,441.00	-	-	1,555,441.00	1.00	1.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	De-duction (2023-2024)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depreciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduction/ Adjustment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VOLLEYBALL GROUND	8,837,591.00	-	-	8,837,591.00	2.00	1,237,264.00	176,752.00	-	1,414,016.00	7,423,575.00	7,600,327.00
HOT SPOT/ WIFI	32,246,094.50	1,479,600.00	-	33,725,694.50	20.00	30,380,724.00	3,344,969.00	-	33,725,693.00	1.50	1,865,370.50
WOMENS HOSTEL (STATE PERIOD)	7,987,000.00	-	-	7,987,000.00	2.00	1,118,180.00	159,740.00	-	1,277,920.00	6,709,080.00	6,868,820.00
WATER PURIFICATION	-	390,000.00	-	390,000.00	10.00	-	39,000.00	-	39,000.00	351,000.00	-
XEROX MACHINE	228,211.00	-	-	228,211.00	7.50	228,210.00	-	-	228,210.00	1.00	1.00
Rickshaw	14,000.00	-	-	14,000.00	10.00	1,400.00	1,400.00	-	2,800.00	11,200.00	12,600.00
Computer (FDC)	58,408.00	-	-	58,408.00	40.00	23,363.00	23,363.00	-	46,726.00	11,682.00	35,045.00
Sub Total (A)	2,843,697,781.43	104,623,541.00	71,538.00	2,948,249,784.43	-	771,057,326.28	110,973,873.00	-	882,031,199.28	2,066,218,585.15	2,072,640,455.15
INTANGIBLE ASSETS											
COMPUTER SOFTWARE	11,718,827.19	-	-	11,718,827.19	40.00	11,282,807.00	174,408.00	-	11,457,215.00	261,612.19	436,020.19
E BOOKS/ JOURNALS	105,030,418.00	6,936,840.00	12,502,419.00	99,464,839.00	40.00	101,691,070.00	-	-2,226,232.00	99,464,838.00	1.00	3,339,348.00
E-BOOK/ JOURNALS	28,929,763.00	12,502,419.00	55,628.00	41,376,554.00	40.00	22,451,884.00	2,774,735.00	2,226,232.00	27,452,851.00	13,923,703.000	6,477,879.000
E-BOOKS & JOURNALS (SCHOOL OF EDUCATION)	2,858,333.00	-	-	2,858,333.00	40.00	2,858,332.00	-	-	2,858,332.00	1.00	1.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	De-duction (2023-24)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depreciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduction/Adjustment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E-BOOKS & JOURNALS (PLAN)	14,368,757.00	-	-	14,368,757.00	40.00	14,368,756.00	-	-	14,368,756.00	1.00	1.00
E-CLASSROOM	30,550,951.00	-	-	30,550,951.00	40.00	30,550,950.00	-	-	30,550,950.00	1.00	1.00
FIREWALL	4,826,538.000	-	-	4,826,538.00	40.00	3,066,570.00	-	-	3,066,570.00	1,759,968.00	1,759,968.00
SOFTWARE (PLAN)	4,003,536.00	-	-	4,003,536.00	40.00	4,003,535.00	-	-	4,003,535.00	1.00	1.00
E BOOKS & JOURNALS (PROJECT)	11,000.00	-	-	11,000.00	40.00	10,999.00	-	-	10,999.00	1.00	1.00
Sub Total (B)	202,298,123.19	19,439,259.00	12,558,047.00	209,179,335.19	-	190,284,903.00	2,949,143.00	-	193,234,046.00	15,945,289.19	12,013,220.19
CAPITAL WORK-IN-PROGRESS											
CAPITAL WORK-IN-PROGRESS	731,940,371.00	75,929,000.00	-	807,869,371.00	-	-	-	-	-	807,869,371.00	731,940,371.00
Sub Total (C)	731,940,371.00	75,929,000.00	-	807,869,371.00	-	-	-	-	-	807,869,371.00	731,940,371.00
GRAND TOTAL (A+B+C)	3,777,936,275.62	199,991,800.00	12,629,585.00	3,965,298,490.62	-	961,342,229.28	113,923,016.00	-	1,075,265,245.27	2,890,033,245.34	2,816,594,046.34

Notes :

1. The figure in column "Addition during the year under "Capital Work In Progress" includes of Rs. 5,91,29,000.00 taken from "Advance from Capital Accounts - Civil Work "Under "Schedule- 8" during the year.
2. Advance given to CPWD amounting to Rs. 1,22,00,000.00 for construction of Phase - III project work, have been transferred to "capital work in progress" by reducing ledger balance of "advance to capital account - Civil work" "Schedule - 8" as per observation made at the of supplementary Audit.
3. Advance given to TSECL amounting to Rs. 46,00,000.00 for electrical service connection, have been transferred to "capital work in progress" by reducing ledger balance of "advance to capital account - Civil work" "Schedule - 8" as per observation made at the of supplementary Audit.
4. Construction of Phase-II Project works (Part-I) which was allotted to Contractor "Engineering Projects (India) Ltd" was completed on 31/12/2018 and handed over to the University on 05/03/2019. Due to non-payment of Final payment to the contractor till date, Assets could not be recognised in the Books and the same was kept under the CWIP.



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE-4A PLAN

(Amount in Rupees)

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	Deduction (2023-2024)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depreciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduction/ Adjustment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TANGIBLE ASSETS											
2nd Floor of SOM	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	2.00	2,100,000.00	300,000.00	-	2,400,000.00	12,600,000.00	12,900,000.00
VCB & LA AT 33 KV TU SUB STATION	2,132,764.00	-	-	2,132,764.00	5.00	213,276.00	106,638.00	-	319,914.00	1,812,850.00	1,919,488.00
BASKETBALL COURT	1,049,105.00	-	-	1,049,105.00	2.00	41,964.00	20,982.00	-	62,946.00	986,159.00	1,007,141.00
BOOKS & JOURNALS	34,728,931.00	7,180,513.00	-	41,909,444.00	10.00	9,309,612.00	4,190,944.00	-	13,500,556.00	28,408,888.00	25,419,319.00
BOOKS & JOURNALS (NET COACHING)	79,593.00	-	-	79,593.00	10.00	67,738.00	7,959.00	-	75,697.00	3,896.00	11,855.00
BOOKS & JOURNALS (WOMEN STUDY)	145,116.00	-	-	145,116.00	10.00	145,115.00	-	-	145,115.00	1.00	1.00
BOOKS & JOURNALS (FDC)	6,600.00	-	-	6,600.00	10.00	4,620.00	660.00	-	5,280.00	1,320.00	1,980.00
BOOKS & JOURNALS (PLAN)	46,707,039.54	-	-	46,707,039.54	10.00	41,560,139.00	4,670,704.00	-	46,230,843.00	476,196.54	5,146,900.54
BOUNDARY WALL CITY CENTRE	493,369.00	-	-	493,369.00	2.00	78,936.00	9,867.00	-	88,803.00	404,566.00	414,433.00
BOUNDARY WALL OF CITY CENTRE	1,042,600.00	-	-	1,042,600.00	2.00	145,964.00	20,852.00	-	166,816.00	875,784.00	896,636.00
BOUNDARY WALL	11,536,012.00	415,266.00	-	11,951,278.00	2.00	366,218.00	239,026.00	-	605,244.00	11,346,034.00	11,169,794.00
BUILDING - ANIMAL HOUSE	1,849,002.00	-	-	1,849,002.00	2.00	258,860.00	36,980.00	-	295,840.00	1,553,162.00	1,590,142.00
BUILDING - HEALTH CENTER (1ST FLOOR) - PLAN	1,782,245.00	-	-	1,782,245.00	2.00	417,915.00	35,645.00	-	453,560.00	1,328,685.00	1,364,330.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	Deduction (2023-2024)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depreciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduction/Adjustment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BUILDING - WOMENS HOSTEL (2ND FLOOR) - PLAN	6,196,009.00	-	-	6,196,009.00	2.00	1,452,888.00	123,920.00	-	1,576,808.00	4,619,201.00	4,743,121.00
BUILDING SOLAR PLANT	198,659.00	-	-	198,659.00	2.00	41,170.00	3,973.00	-	45,143.00	153,516.00	157,489.00
BUILDING (PARIKSHA BHAWAN)	197,945,000.00	-	-	197,945,000.00	2.00	31,671,200.00	3,958,900.00	-	35,630,100.00	162,314,900.00	166,273,800.00
CC TV	11,862,138.00	988,390.00	-	12,850,528.00	20.00	11,862,137.00	197,678.00	-	12,059,815.00	790,713.00	1.00
CAMPUS DEVELOPMENT - APPROACH ROAD	4,113,694.00	-	-	4,113,694.00	2.00	164,548.00	82,274.00	-	246,822.00	3,866,872.00	3,949,146.00
CAMPUS DEVELOPMENT - LED ILLUMINATION	6,856,920.00	1,110,912.00	-	7,967,832.00	5.00	1,416,921.00	398,392.00	-	1,815,313.00	6,152,519.00	5,439,999.00
CAMPUS DEVELOPMENT LIQUID NITROGEN PLANT	-	782,398.00	-	782,398.00	5.00	-	39,120.00	-	39,120.00	743,278.00	-
COMPUTER	14,071,662.80	5,377,400.00	-	19,449,062.80	20.00	6,182,425.00	3,889,813.00	-	10,072,238.00	9,376,824.80	7,889,237.80
COMPUTER (ADDL GRANT)	138,320.00	-	-	138,320.00	20.00	138,319.00	-	-	138,319.00	1.00	1.00
COMPUTER (B.VOC)	4,086,424.00	-	-	4,086,424.00	20.00	4,086,423.00	-	-	4,086,423.00	1.00	1.00
COMPUTER (PLAN)	44,487,505.00	-	-	44,487,505.00	20.00	44,487,504.00	-	-	44,487,504.00	1.00	1.00
COMPUTER (EOC)	238,485.00	-	-	238,485.00	20.00	238,484.00	-	-	238,484.00	1.00	1.00
DAY CARE CENTRE- LIBRARY BUILDING AND OPEN AIR-THEATER	147,826,001.00	-	-	147,826,001.00	2.00	23,937,992.00	2,956,520.00	-	26,894,512.00	120,931,489.00	123,888,009.00
DIGITAL DISPLAY	2,230,200.00	-	-	2,230,200.00	7.50	334,530.00	167,265.00	-	501,795.00	1,728,405.00	1,895,670.00
ELECTRICAL INSTALLATION	3,555,927.00	-	-	3,555,927.00	5.00	1,244,572.00	177,796.00	-	1,422,368.00	2,133,559.00	2,311,355.00
EQUIPMENT	52,909,634.94	15,000,139.00	71,538.00	67,838,235.94	7.50	10,161,798.00	5,087,868.00	-	15,249,666.00	52,588,569.94	42,747,836.94



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	De-duction (2023-2024)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depreciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduction/Adjustment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EQUIPMENT (ADDL GRANT)	2,546,871.00	-	-	2,546,871.00	7.50	1,987,498.00	191,015.00	-	2,178,513.00	368,358.00	559,373.00
EQUIPMENT (B.VOC)	6,582,887.00	-	-	6,582,887.00	7.50	3,216,444.00	493,717.00	-	3,710,161.00	2,872,726.00	3,366,443.00
EQUIPMENT (C & C CELL)	141,350.00	-	-	141,350.00	7.50	111,765.00	10,601.00	-	122,366.00	18,984.00	29,585.00
EQUIPMENT (CENTRAL FACILITIES)	1,198,204.00	-	-	1,198,204.00	7.50	946,640.00	89,865.00	-	1,036,505.00	161,699.00	251,564.00
EQUIPMENT (EOC)	95,351.00	-	-	95,351.00	7.50	55,737.00	7,151.00	-	62,888.00	32,463.00	39,614.00
EQUIPMENT (HEALTH CENTER)	494,831.00	-	-	494,831.00	7.50	326,622.00	37,112.00	-	363,734.00	131,097.00	168,209.00
EQUIPMENT (HINDI)	37,610.00	-	-	37,610.00	7.50	22,568.00	2,821.00	-	25,389.00	12,221.00	15,042.00
EQUIPMENT (IQAC)	284,690.00	-	-	284,690.00	7.50	226,480.00	21,352.00	-	247,832.00	36,858.00	58,210.00
EQUIPMENT (NET COACHING)	156,885.00	-	-	156,885.00	7.50	121,119.00	11,766.00	-	132,885.00	24,000.00	35,766.00
EQUIPMENT (PLAN)	38,763,285.85	-	-	38,763,285.85	7.50	32,040,792.00	2,907,246.00	-	34,948,038.00	3,815,247.85	6,722,493.85
EQUIPMENT (SCHOOL OF EDUCATION)	743,678.00	-	-	743,678.00	7.50	416,748.00	55,776.00	-	472,524.00	271,154.00	326,930.00
EQUIPMENT (XII PLAN)	87,533,576.91	-	-	87,533,576.91	7.50	46,032,492.00	6,565,018.00	-	52,597,510.00	34,936,066.91	41,501,084.91
EQUIPMENT - CLOCK	442,069.00	-	-	442,069.00	7.50	366,601.00	33,155.00	-	399,756.00	42,313.00	75,468.00
EQUIPMENT (OTHER INFRASTRUCTURE)	27,739,417.00	3,868,891.00	-	31,608,308.00	7.50	15,345,402.00	2,370,623.00	-	17,716,025.00	13,892,283.00	12,394,015.00
FURNITURE	34,368,477.00	8,443,951.00	-	42,812,428.00	7.50	7,988,550.00	3,210,932.00	-	11,199,482.00	31,612,946.00	26,379,927.00
FURNITURE (ADDL GRANT)	332,182.00	-	-	332,182.00	7.50	243,906.00	24,914.00	-	268,820.00	63,362.00	88,276.00
FURNITURE (B.VOC)	506,226.00	-	-	506,226.00	7.50	303,736.00	37,967.00	-	341,703.00	164,523.00	202,490.00
FURNITURE (HEALTH CENTER)	751,168.00	-	-	751,168.00	7.50	543,710.00	56,338.00	-	600,048.00	151,120.00	207,458.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	De-duction (2023-2024)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depre-ciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduction/ Adjust-ment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FURNITURE (PLAN)	57,477,668.00	-	-	57,477,668.00	7.50	34,252,862.00	4,310,825.00	-	38,563,687.00	18,913,981.00	23,224,806.00
FURNITURE (SCHOOL OF EDUCATION)	1,252,305.00	-	-	1,252,305.00	7.50	690,269.00	93,923.00	-	784,192.00	468,113.00	562,036.00
FURNITURE (IAS)	154,700.00	-	-	154,700.00	7.50	52,212.00	11,603.00	-	63,815.00	90,885.00	102,488.00
GARBAGE CONTAINER	432,976.00	187,550.00	-	620,526.00	7.50	38,924.00	46,539.00	-	85,463.00	535,063.00	394,052.00
GRASS CUTTING MACHINE		393,830.00		393,830.00	5.00	-	19,692.00		19,692.00	374,138.00	-
ICT ENABLED - ONLINE LEARNING	36,390,408.00	8,382,451.00	-	44,772,859.00	20.00	14,683,077.00	8,954,572.00	-	23,637,649.00	21,135,210.00	21,707,331.00
IRON REMOVAL PLANT	7,402,438.00	1,153,490.00	-	8,555,928.00	5.00	536,044.00	427,796.00	-	963,840.00	7,592,088.00	6,866,394.00
LIFT (ADMINISTRATIVE BUILDING)	3,030,690.00	-	-	3,030,690.00	5.00	757,675.00	151,535.00	-	909,210.00	2,121,480.00	2,273,015.00
LIFT (ACADEMIC BUILDING IX & X)	1,533,976.00	-	-	1,533,976.00	5.00	383,495.00	76,699.00	-	460,194.00	1,073,782.00	1,150,481.00
MBA LIFT	1,672,200.00	-	-	1,672,200.00	5.00	585,270.00	83,610.00	-	668,880.00	1,003,320.00	1,086,930.00
MULTISTORIED ACADEMIC BUILDINGS- BOYS & GIRLS	860,198,089.00	-	-	860,198,089.00	2.00	120,427,734.00	17,203,962.00	-	137,631,696.00	722,566,393.00	739,770,355.00
NEW DEEP TUBE-WELL	4,361,662.00	-	-	4,361,662.00	2.00	573,453.00	87,233.00	-	660,686.00	3,700,976.00	3,788,209.00
SBI BUILDING	728,673.00	-	-	728,673.00	2.00	102,011.00	14,573.00	-	116,584.00	612,089.00	626,662.00
SOLAR PLANT	2,700,000.00	-	-	2,700,000.00	5.00	945,000.00	135,000.00	-	1,080,000.00	1,620,000.00	1,755,000.00
SPORTS BOATS	213,798.00	-	-	213,798.00	7.50	213,797.00	-	-	213,797.00	1.00	1.00
STUDENT COUNCIL BUILDING	2,229,959.00	-	-	2,229,959.00	2.00	312,193.00	44,599.00	-	356,792.00	1,873,167.00	1,917,766.00
SECURITY CONTROL ROOM		259,500.00		259,500.00	2.00	-	5,190.00		5,190.00	254,310.00	-
SEWERAGE & DRAINAGE		1,792,800.00		1,792,800.00	2.00	-	35,856.00		35,856.00	1,756,944.00	-
TRANSFORMER		2,118,840.00		2,118,840.00	10.00		211,884.00		211,884.00	1,906,956.00	-
TISSUE CULTURE LAB	3,477,000.00	-	-	3,477,000.00	7.50	2,086,200.00	260,775.00	-	2,346,975.00	1,130,025.00	1,390,800.00
TYPE- IV QTR IN CAMPUS	2,846,000.00	-	-	2,846,000.00	2.00	398,440.00	56,920.00	-	455,360.00	2,390,640.00	2,447,560.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	Deduction (2023-2024)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depreciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduction/Adjustment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOILET	5,000,137.00	-	-	5,000,137.00	2.00	200,006.00	100,003.00	-	300,009.00	4,700,128.00	4,800,131.00
HOT SPOT/WIFI	32,246,094.50	1,479,600.00	-	33,725,694.50	20.00	30,380,724.00	3,344,969.00		33,725,693.00	1.50	1,865,370.50
VOLLEYBALL GROUND	8,837,591.00	-	-	8,837,591.00	2.00	1,237,264.00	176,752.00	-	1,414,016.00	7,423,575.00	7,600,327.00
VEHICLES (PLAN)	5,870,052.00	-	-	5,870,052.00	10.00	2,429,378.00	587,005.00	-	3,016,383.00	2,853,669.00	3,440,674.00
WATER PURIFICATION		390,000.00		390,000.00	10.00	-	39,000.00		39,000.00	351,000.00	-
Rickshaw	14,000.00	-	-	14,000.00	10.00	1,400.00	1,400.00		2,800.00	11,200.00	12,600.00
Computer (FDC)	58,408.00	-	-	58,408.00	40.00	23,363.00	23,363.00		46,726.00	11,682.00	35,045.00
Sub Total (A)	1,854,116,539.54	59,325,921.00	71,538.00	1,913,370,922.54		513,738,869.00	79,356,423.00	-	593,095,292.00	1,320,275,630.54	1,340,377,670.54
INTANGIBLE ASSETS											
COMPUTER SOFTWARE	11,718,827.19		-	11,718,827.19	40.00	11,282,807.00	174,408.00	-	11,457,215.00	261,612.19	436,020.19
E-BOOKS & JOURNALS (SCHOOL OF EDUCATION)	2,858,333.00	-	-	2,858,333.00	40.00	2,858,332.00	-	-	2,858,332.00	1.00	1.00
E-BOOK/JOURNALS	28,929,763.00	12,502,419.00	55,628.00	41,376,554.00	40.00	22,451,884.00	2,774,735.00	2,226,232.00	27,452,851.00	13,923,703.00	6,477,879.00
E-BOOKS & JOURNALS (PLAN)	14,368,757.00	-	-	14,368,757.00	40.00	14,368,756.00	-	-	14,368,756.00	1.00	1.00
E-CLASSROOM	30,550,951.00	-	-	30,550,951.00	40.00	30,550,950.00	-	-	30,550,950.00	1.00	1.00
FIREWALL	4,826,538.00		-	4,826,538.00	40.00	3,066,570.00	-	-	3,066,570.00	1,759,968.00	1,759,968.00
SOFTWARE (PLAN)	4,003,536.00	-	-	4,003,536.00	40.00	4,003,535.00	-	-	4,003,535.00	1.00	1.00
Sub Total (B)	97,256,705.19	12,502,419.00	55,628.00	109,703,496.19		88,582,834.00	2,949,143.00	2,226,232.00	93,758,209.00	15,945,287.19	8,673,871.19



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	Deduction (2023-2024)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depreciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduction/Adjustment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAPITAL WORK-IN-PROGRESS											
CAPITAL WORK-IN-PROGRESS	731,940,371.00	75,929,000.00	-	807,869,371.00	-	-	-	-	-	807,869,371.00	731,940,371.00
Sub Total (C)	731,940,371.00	75,929,000.00	-	807,869,371.00		-	-	-	-	807,869,371.00	731,940,371.00
GRAND TOTAL (A+B+C)	2,683,313,615.73	147,757,340.00	127,166.00	2,830,943,789.73		602,321,703.00	82,305,566.00	2,226,232.00	686,853,501.00	2,144,090,288.73	2,080,991,912.73

Note-1

- 1) The University Received and amount of Rs. 14,79,600.00 as user charges of Wi-Fi Network from students during the year 2022-2023 but wrongly reduced under head " Hot Spot/ Wi-Fi" and therefore now added the figure of Hot Spot/ Wifi under tangible assets by Rs. 14,79,600.00 and depreciation of Rs. 2,95,920.00 have been added and adjusted with prior period income.
- 2) E- Books / Journal (Schedule 4B) of Rs. 55,65,579.00 inadvertently shown under schedule 4B During the FY 2022-2023 instead of Schedule 4A , this year schedule have been Corrected and depreciation charged accordingly.



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE-4B NON PLAN

(Amount in Rupees)

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	Deduction (2023-24)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depreciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduction/Adjustment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TANGIBLE ASSETS											
BOOKS & JOURNALS (NEEPCO) NON-PLAN	422,020.00	-	-	422,020.00	10.00	400,936.00	21,083.00	-	422,019.00	1.00	21,084.00
COMPUTER (NON-PLAN)	12,049,731.00	-	-	12,049,731.00	20.00	12,049,730.00	-	-	12,049,730.00	1.00	1.00
EPBAX SYSTEM (NON-PLAN)	2,537,662.00	-	-	2,537,662.00	7.50	1,695,655.00	190,325.00	-	1,885,980.00	651,682.00	842,007.00
EQUIPMENT (NON-PLAN)	14,619,456.00	-	-	14,619,456.00	7.50	11,672,629.00	1,096,459.00	-	12,769,088.00	1,850,368.00	2,946,827.00
FURNITURE (NON-PLAN)	38,799,230.00	-	-	38,799,230.00	7.50	26,487,569.00	2,909,942.00	-	29,397,511.00	9,401,719.00	12,311,661.00
VEHICLES (NON-PLAN)	1,555,442.00	-	-	1,555,442.00	10.00	1,555,441.00	-	-	1,555,441.00	1.00	1.00
Sub Total (A)	69,983,541.00	-	-	69,983,541.00		53,861,960.00	4,217,809.00	-	58,079,769.00	11,903,772.00	16,121,581.00
INTANGIBLE ASSETS											
E BOOK/ JOURNALS	105,030,418.00	6,936,840.00	12,502,419.00	99,464,839.00	40.00	101,691,070.00	-	-2,226,232.00	99,464,838.00	1.00	3,339,348.00
Sub Total (B)	105,030,418.00	6,936,840.00	12,502,419.00	99,464,839.00		101,691,070.00	-	-2,226,232.00	99,464,838.00	1.00	3,339,348.00
GRAND TOTAL (A+B+C)	175,013,959.00	6,936,840.00	12,502,419.00	169,448,380.00		155,553,030.00	4,217,809.00	-2,226,232.00	157,544,607.00	11,903,773.00	19,460,929.00



TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 4C - INTANGIBLE ASSETS

(Amount in Rupees)

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	De-duction (2023-24)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depre-ciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduc-tion/ Adjust-ment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Patents & Copyrights	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Computer Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. E Journal Books	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grand Total	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-



TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 4(C) (i) - PATENTS AND COPYRIGHTS

(Amount in Rupees)

Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Gross	Amortization	Net Block	Net Block
A. Patents Granted						
1. Balance as on 31.03.23 of Patents obtained in 2008-09 (Original Value Rs...../-)	-	-	-	-	-	-
2. Balance as on 31.03.23 of Patents obtained in 2010-11 (Original Value Rs...../-)	-	-	-	-	-	-
3. Balance as on 31.03.23 of Patents obtained in 2012-13 (Original Value Rs...../-)	-	-	-	-	-	-
4. Patents granted during the Current Year	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Gross	Amortization	Net Block	Net Block
B. Patents Pending in respect of Patents applied for						
1. Expenditure incurred during 2009-10 to 2011-12	-	-	-	-	-	-
2. Expenditure incurred during 2012-13	-	-	-	-	-	-
3. Expenditure incurred during 2013-14	-	-	-	-	-	-
4. Expenditure incurred during 2014-15 to 2022-23	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
C. Grant Total (A+B)	-	-	-	-	-	-



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)
SCHEDULE 4D - OTHERS

(Amount in Rupees)

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	Deduction (2023-24)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depreciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduction/Adjustment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TANGIBLE ASSETS											
33/11 KV ELECTRICAL SUB-STATION	47,037,110.00		-	47,037,110.00	5.00	23,518,560.00	-	-	23,518,560.00	23,518,550.00	23,518,550.00
AC MACHINE	123,156.00	-	-	123,156.00	7.50	123,155.00	-	-	123,155.00	1.00	1.00
ACADEMIC BUILDING - II (STATE PERIOD)	35,595,000.00	-	-	35,595,000.00	2.00	4,983,300.00	711,900.00	-	5,695,200.00	29,899,800.00	30,611,700.00
ACADEMIC BUILDING - III (STATE PERIOD)	14,160,000.00	-	-	14,160,000.00	2.00	1,982,400.00	283,200.00	-	2,265,600.00	11,894,400.00	12,177,600.00
ACADEMIC BUILDING - IV (STATE PERIOD)	12,317,000.00	-	-	12,317,000.00	2.00	1,724,380.00	246,340.00	-	1,970,720.00	10,346,280.00	10,592,620.00
ACADEMIC BUILDING - VII (STATE PERIOD)	27,503,000.00	-	-	27,503,000.00	2.00	3,850,420.00	550,060.00	-	4,400,480.00	23,102,520.00	23,652,580.00
ACADEMIC BUILDING - VIII (STATE PERIOD)	18,332,000.00	-	-	18,332,000.00	2.00	2,566,480.00	366,640.00	-	2,933,120.00	15,398,880.00	15,765,520.00
ACADEMIC BUILDING - X (STATE PERIOD)	27,144,000.00	-	-	27,144,000.00	2.00	3,800,160.00	542,880.00	-	4,343,040.00	22,800,960.00	23,343,840.00
ACADEMIC BUILDING - I (STATE PERIOD)	35,595,000.00	-	-	35,595,000.00	2.00	4,983,300.00	711,900.00	-	5,695,200.00	29,899,800.00	30,611,700.00
ACADEMIC BUILDING - IX (STATE PERIOD)	13,850,000.00	-	-	13,850,000.00	2.00	1,939,000.00	277,000.00	-	2,216,000.00	11,634,000.00	11,911,000.00
ACADEMIC BUILDING - V (STATE PERIOD)	44,890,000.00	-	-	44,890,000.00	2.00	6,284,600.00	897,800.00	-	7,182,400.00	37,707,600.00	38,605,400.00
ACADEMIC BUILDING - VI (STATE PERIOD)	23,808,000.00	-	-	23,808,000.00	2.00	3,333,120.00	476,160.00	-	3,809,280.00	19,998,720.00	20,474,880.00
ADMINISTRATIVE BUILDING (STATE PERIOD)	21,783,000.00	-	-	21,783,000.00	2.00	3,049,620.00	435,660.00	-	3,485,280.00	18,297,720.00	18,733,380.00
BOOKS & JOURNALS (PROJECT)	1,705,514.00	-	-	1,705,514.00	10.00	1,142,792.00	170,551.00	-	1,313,343.00	392,171.00	562,722.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	Deduction (2023-24)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depreciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduction/Adjustment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BOUNDARY WALL (STATE PERIOD)	5,551,000.00	-	-	5,551,000.00	2.00	777,140.00	111,020.00	-	888,160.00	4,662,840.00	4,773,860.00
BOYS HOSTEL (STATE PERIOD)	8,351,000.00	-	-	8,351,000.00	2.00	1,169,140.00	167,020.00	-	1,336,160.00	7,014,840.00	7,181,860.00
CENTRAL LIBRARY (STATE PERIOD)	60,132,000.00	-	-	60,132,000.00	2.00	8,418,480.00	1,202,640.00	-	9,621,120.00	50,510,880.00	51,713,520.00
COMPUTER (PROJECT)	5,937,241.00	174,574.00	-	6,111,815.00	20.00	5,841,120.00	131,035.00	-	5,972,155.00	139,660.00	96,121.00
COMPUTER (STATE PERIOD)	1,078,095.00	-	-	1,078,095.00	20.00	1,078,094.00	-	-	1,078,094.00	1.00	1.00
COMPUTER (WSC)	968,840.00	-	-	968,840.00	20.00	968,839.00	-	-	968,839.00	1.00	1.00
EQUIPMENT (PROJECT) - INSPIRE	364,378.00	25,653.00	-	390,031.00	7.50	176,256.00	27,328.00	-	203,584.00	186,447.00	188,122.00
EQUIPMENT (STATE PERIOD)	1,772,338.00	-	-	1,772,338.00	7.50	1,772,337.00	-	-	1,772,337.00	1.00	1.00
EQUIPMENT (PROJECT)	194,172,383.61	43,742,281.00	-	237,914,664.61	7.50	102,535,750.00	17,843,600.00	-	120,379,350.00	117,535,314.62	91,636,633.61
FAX MACHINE	46,829.00	-	-	46,829.00	7.50	46,828.00	-	-	46,828.00	1.00	1.00
FURNITURE (PROJECT)-CONT	930,006.00	-	-	930,006.00	7.50	622,222.00	69,750.00	-	691,972.00	238,034.00	307,784.00
FURNITURE (PROJECT) - OH	626,873.00	302,598.00	-	929,471.00	7.50	114,459.00	69,709.00	-	184,168.00	745303	512,414.00
FURNITURE (STATE PERIOD)	1,523,544.00	-	-	1,523,544.00	7.50	1,408,249.00	114,266.00	-	1,522,515.00	1,029.00	115,295.00
GANDHI BUILDING (STATE PERIOD)	248,000.00	-	-	248,000.00	2.00	34,720.00	4,960.00	-	39,680.00	208,320.00	213,280.00
GUEST HOUSE (STATE PERIOD)	8,108,000.00	-	-	8,108,000.00	2.00	1,135,120.00	162,160.00	-	1,297,280.00	6,810,720.00	6,972,880.00
GUEST HOUSE ANNEX (STATE PERIOD)	3,683,000.00	-	-	3,683,000.00	2.00	515,620.00	73,660.00	-	589,280.00	3,093,720.00	3,167,380.00
HEALTH CENTRE (STATE PERIOD)	2,133,000.00	-	-	2,133,000.00	2.00	298,620.00	42,660.00	-	341,280.00	1,791,720.00	1,834,380.00
LAND AT SURYAMANINAGAR	213,347,263.00	1,052,514.00	-	214,399,777.00	-	-	-	-	-	214,399,777.00	213,347,263.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Assets Head	Gross Block				Depreciation					Net Block	
	Opening Balance as at 01.04.2023	Additions (2023-24)	Deduction (2023-24)	Closing Balance as at 31.03.2024 (2+3-4)	Rate of Depreciation	Depreciation Opening Total upto 01.04.2023	Depreciation for the year (2023-24)	Deduction/Adjustment	Depreciation Total upto 31.03.2024 (7+8)	Current Year Balance as at 31.03.2024 (5-10)	Previous Year Balance as at 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LAND - STATE PERIOD	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00
LCD PROJECTOR	102,708.00	-	-	102,708.00	7.50	102,707.00	-	-	102,707.00	1.00	1.00
PA SYSTEM	420,473.00	-	-	420,473.00	7.50	420,472.00	-	-	420,472.00	1.00	1.00
QUTR TYPE - I BUILDING (STATE PERIOD)	1,637,600.00	-	-	1,637,600.00	2.00	229,264.00	32,752.00	-	262,016.00	1,375,584.00	1,408,336.00
QUTR TYPE - II BUILDING (STATE PERIOD)	11,744,500.00	-	-	11,744,500.00	2.00	1,644,230.00	234,890.00	-	1,879,120.00	9,865,380.00	10,100,270.00
QUTR TYPE - III BUILDING (STATE PERIOD)	13,371,000.00	-	-	13,371,000.00	2.00	1,871,940.00	267,420.00	-	2,139,360.00	11,231,640.00	11,499,060.00
QUTR TYPE - IV BUILDING (STATE PERIOD)	7,936,000.00	-	-	7,936,000.00	2.00	1,111,040.00	158,720.00	-	1,269,760.00	6,666,240.00	6,824,960.00
RCC BRIDGE (STATE PERIOD)	36,752,000.00	-	-	36,752,000.00	2.00	5,145,280.00	735,040.00	-	5,880,320.00	30,871,680.00	31,606,720.00
SBI BUILDING (STATE PERIOD)	1,087,000.00	-	-	1,087,000.00	2.00	152,180.00	21,740.00	-	173,920.00	913,080.00	934,820.00
SOFTWARE (PROJECT)	395,667.28	-	-	395,667.28	40.00	395,666.28	-	-	395,666.28	1.00	1.00
SPORTS GOODS	70,622.00	-	-	70,622.00	7.50	70,621.00	-	-	70,621.00	1.00	1.00
STUDENT COMMUNITY CENTRE (STATE PERIOD)	4,972,000.00	-	-	4,972,000.00	2.00	696,080.00	99,440.00	-	795,520.00	4,176,480.00	4,275,920.00
TV	10,518.00	-	-	10,518.00	7.50	10,517.00	-	-	10,517.00	1.00	1.00
UPS	65,830.00	-	-	65,830.00	7.50	65,829.00	-	-	65,829.00	1.00	1.00
WOMENS HOSTEL (STATE PERIOD)	7,987,000.00	-	-	7,987,000.00	2.00	1,118,180.00	159,740.00	-	1,277,920.00	6,709,080.00	6,868,820.00
XEROX MACHINE	228,211.00	-	-	228,211.00	7.50	228,210.00	-	-	228,210.00	1.00	1.00
Sub Total (A)	919,597,700.89	45,297,620.00	-	964,895,320.89		203,456,497.28	27,399,641.00	-	230,856,138.28	734,039,182.62	716,141,203.61
INTANGIBLE ASSETS											
E BOOKS & JOURNALS (PROJECT)	11,000.00	-	-	11,000.00	40.00	10,999.00	-	-	10,999.00	1.00	1.00
Sub Total (B)	11,000.00	-	-	11,000.00	40.00	10,999.00	-	-	10,999.00	1.00	1.00
GRAND TOTAL	919,608,700.89	45,297,620.00	-	964,906,320.89		203,467,496.28	27,399,641.00	-	230,867,137.28	734,039,183.62	716,141,204.61



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 5 - INVESTMENTS FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS

(Amount in Rupees)

Particulars		Current Year	Previous Year
1	CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES	-	-
2	STATE GOVERNMENT SECURITIES	-	-
3	OTHER APPROVED SECURITIES	-	-
4	SHARES	-	-
5	DEBENTURES & BONDS	-	-
6	TERM DEPOSITS WITH BANK	1,388,848.85	1,329,562.85
7	OTHER INVESTMENTS	-	-
GRAND TOTAL		1,388,848.85	1,329,562.85



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 5 (A) INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS (FUND WISE)

(Amount in Rupees)

Particulars		Current Year	Previous Year
1	B. Deb Memorial Award Fund	145,251.00	145,251.00
2	P L Prava Memorial Research Fellow	321,833.00	305,032.00
3	Niharkana Dutta Choudhury Scholarship	593,577.85	519,075.85
4	TU-CENTRAL LIBRARY MERIT-SCHOLARSHIP	328,187.00	303,046.00
Grand Total		1,388,848.85	1,272,404.85

Notes :

1. The Total in this Sub Schedule will agree with the Total in Schedule 5.



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 6 -INVESTMENTS - OTHERS

(Amount in Rupees)

Particulars		Current Year	Previous Year
1	CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES	-	-
2	STATE GOVERNMENT SECURITIES	-	-
3	OTHER APPROVED SECURITIES	-	-
4	SHARES	-	-
5	DEBENTURES & BONDS	-	-
6	TERM DEPOSITS WITH BANK	-	-
7	OTHER INVESTMENTS	-	-
GRAND TOTAL		-	-



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS*(Amount in Rupees)*

Particulars	Current Year	Previous Year
<u>CURRENT ASSETS</u>		
SOFTWARE DEVELOPMENT	-	-
<u>1. STOCK</u>		
A) STORES AND SPARES	-	-
B) LOOSE TOOLS	-	-
C) PUBLICATIONS	-	-
D) LABORATORY CHEMICALS- CONSUMABLE AND GLASS WARE	-	-
E) BUILDING MATERIAL	-	-
F) ELECTRICAL MATERIAL	-	-
G) STATIONERY	-	-
H) WATER SUPPLY MATERIAL	-	-
<u>2. SUNDRY DEBTORS</u>		
A) DEBTS OUTSTANDING FOR A PERIOD EXCEEDING SIX MONTHS	-	-
B) OTHERS	-	-
<u>3. CASH AND BANK BALANCES</u>		
<u>a) WITH SCHEDULED BANKS</u>		
I. IN SAVINGS A/C	401,285,668.26	208,195,190.99
II. IN CURRENT A/C	846,601.24	2,793,058.24
III. IN DEPOSITS A/C	860,804,754.00	714,122,679.50
<u>b) WITH NON SCHEDULED BANKS</u>		
IN DEPOSITS ACCOUNTS	-	-
IN SAVINGS ACCOUNTS	-	-
4. POST OFFICE - SAVINGS ACCOUNTS	-	-
GRAND TOTAL	1,262,937,023.50	925,110,928.73

Note:

Annexure A shows the details of Bank Accounts .



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

ANNEXURE A*(Amount in Rupees)*

I. IN SAVINGS BANK		
1	GRANTS FROM UGC BANK A/C	
2	UNIVERSITY RECEIPTS BANK A/C	303,585,635.64
3.	SCHOLARSHIP BANK A/C	2,060,744.00
4.	ACADEMIC FEE RECEIPTS BANK A/C	
5.	DEVELOPMENT (PLAN) BANK A/C	73,686.70
6.	COMBINED ENTRANCE EXAMS (CBT) BANK A/C	
7.	UGC PLAN FELLOWSHIP BANK A/C	-
8.	CORPUS FUND BANK A/C	12,955,426.53
9.	SPONSORED PROJECT FUND BANK A/C	33,528,288.08
10.	SPONSORED FELLOWSHIP BANK A/C	2,662.00
11.	ENDOWMENT & CHAIR BANK A/C	2,354,350.13
12.	UGC JRF FELLOWSHIP BANK A/C	
13.	HBA FUND BANK A/C	
14.	CONVEYANCE BANK A/C	
15.	UGC RAJIB GANDHI NATIONAL FELLOWSHIP BANK A/C	
16.	DEPOSIT BANK A/C	46,719,637.78
17.	STUDENT FUND BANK A/C	
18.	STUDENT AID FUND BANK A/C	
19.	PLAN GRANTS FOR SCIENTIFIC SCHEMES BANK A/C	1,465.00
20.	NAAC	3,772.40
TOTAL IN SAVINGS BANK		401,285,668.26
II.	IN CURRENT A/C	846,601.24
III.	IN DEPOSITS A/C	860,804,754.00
TOTAL		1,262,937,023.50



TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 8 -LOANS / ADVANCES & DEPOSITS

(Amount in Rupees)

Particulars		Current Year	Previous Year
1	<u>ADVANCE TO EMPLOYEE (NON -INTEREST BEARING) (as per Sub Schdule - 8A)</u> A) SALARY B) FESTIVAL C) OTHERS (LTC- MEDICAL- TRAVEL- IMPREST ETC) (As per Schedule - 8A)	- 18,109,413.18	- 594,686.00 18,469,254.18
2	<u>LONG TERM ADVANCES TO EMPLOYEES : (INTEREST BEARING)</u> A) VEHICLE LOAN B) HOME LOAN C) OTHER (TO BE SPECIFIED)		
3	<u>ADVANCES AND OTHERS AMOUNTS RECOVERABLE IN CASH OR IN KIND OR FOR VALUE TO BE RECEIVED</u> <u>A) CAPITAL ACCOUNT</u> ADVANCE ON CAPITAL A/C ADVANCE ON CAPITAL A/C - CIVIL WORKS B) TO SUPPLIERS <u>C) OTHERS</u> GPF -ADVANCE/WITHDRAWAL LOAN PAID TO GPF A/C TDS RECEIVABLE	- 108,908,981.00 1,731,691.00 43,071,655.00 15,215,000.00 2,535,120.00	4,598,132.00 23,263,981.00 1,079,310.00 43,071,655.00 15,215,000.00 1,822,626.00
4	<u>PREPAID EXPENSES</u> A) INSURANCE B) OTHER EXPENSES	23,457.00	46,977.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

	Particulars	Current Year	Previous Year
5	<u>DEPOSITS</u> A) TELEPHONE B) LEASE RENT C) ELECTRICITY D) AICTE- IF APPLICABLE E) OTHERS (TO BE SPECIFIED)		
6	<u>INCOME ACCRUED</u> A) ON INVESTMENT FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS B) ON INVESTMENTS - OTHERS C) ON LOAN AND ADVANCE D) OTHERS (INCLUDES INCOME DUE UNREALISED)	45,416,555.14	56,131,650.00
7	<u>OTHER - CURRENT ASSET RECEIVABLE FROM UGC / SPONSORED PROJECTS</u> A) DEBIT BALANCE IN SPONSORED PROJECTS B) DEBIT BALANCE IN SPONSORED FELLOWSHIP & SCHOLARSHIP C) GRANTS RECEIVABLE D) OTHER RECEIVABLES FROM UGC	166,153,412.00	172,566,513.00
8	<u>CLAIMS RECEIVABLE</u>		
	GRAND TOTAL	401,165,284.32	336,859,784.18

1. "Advance On Capital A/c" of Rs. 45,98,132.00 has been adjusted with "Corpus Capital Fund" because the amount has been carried forward for more than 1 year.

Following are the bifurcation Of "Advance On Capital A/c"

Particulars	Year	Amount (Rs)
Tripura State Electricity Corporation	2012-2013	922,112.00
BSNL	2012-2013	490,196.00
BSNL	2012-2013	1,985,400.00
BECIL	2012-2013	351,528.00
Tripura State Electricity Corporation	2014-2015	848,896.00
		4,598,132.00



TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SUB SCHEDULE 8A - ADVANCE TO EMPLOYEE (NON -INTEREST BEARING)

(Amount in Rupees)

Schedule of Advance to Staff					
SL.	Particulars	From : '01-Apr-2023' To : '31-03-2024'			
		Opening (Dr.)	Paid	Recovery	Closing (Dr.)
	ADVANCE TO STAFF (LTC- MEDICAL- TRAVEL- IMPREST ETC)				
1	ABHIJIT CHOUDHURY	249,000.00		10,000.00	239,000.00
2	ABHISEK DAS	3,705.00	-	3,705.00	-
3	ABHISHEK MAJUMDER	19,000.00	26,336.00	28,000.00	17,336.00
4	AJAY KRISHNA SAHA	55,009.00	0.00	55,000.00	9.00
5	AJAYKUMAR MACHINDRANATH SAVANE	5,000.00	0.00	5,000.00	-
6	ALAK ROY	5,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00
7	ALOK PRASAD DAS				-
8	ANIRBAN GUHA	29,330.08	32,000.00	25,000.00	36,330.08
9	ANIRBAN KARMAKAR	75,100.00	10,000.00	0.00	85,100.00
10	ANJAN MUKHERJEE	0.75	-	-	0.75
11	ANJANA BHATTACHARJEE	110,000.00	485,000.00	545,000.00	50,000.00
12	ANJANA KALAI		35,000.00	35,000.00	-
13	AROBINDO MAHATO	26,910.00	-	-	26,910.00
14	ASHES GUPTA	5,000.00	0.00	5,000.00	-
15	ASHES KUMAR NAYAK	19,529.00	-	-	19,529.00
16	ASHISH CHOUDHURY	75,000.00	-	-	75,000.00
17	ASHISH NATH	110,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00
18	ASHWINI CHAUHAN	87,450.00	0.00	87,450.00	-
19	BABUL CHANDRA DAS	50.00	-		50.00
20	BABUL DEY	43,000.00	-	-	43,000.00
21	BADAL KUMAR DATTA	1,620,747.00	1,160,000.00	1,172,956.00	1,607,791.00
22	BALESWAR SINGH	8,269.00	-	-	8,269.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Schedule of Advance to Staff					
SL.	Particulars	From : '01-Apr-2023' To : '31-03-2024'			
		Opening (Dr.)	Paid	Recovery	Closing (Dr.)
23	BARIN KUMAR DE	11,564.00	-	11,564.00	-
24	BHUBANESWARI BAL	10,000.00	-	-	10,000.00
25	BIDHU HRISHI DAS	18,760.00	-	18,760.00	-
26	BIMAL DEBBARMA	5,000.00		5,000.00	-
27	BIMAL DEBNATH	44,500.00		-	44,500.00
28	BIMAN DEBBARMA	34,000.00	-	-	34,000.00
29	BINOD CHANDRA TRIPATHY	405,016.00		209,310.00	195,706.00
30	BIPAD DAS	17,950.00			17,950.00
31	BIPIN KUMAR SHARMA	109,537.00			109,537.00
32	BISHNU PRASAD KOIRY	384,767.00	-	-	384,767.00
33	BRIJ MOHAN PANDEY	5,000.00	-		5,000.00
34	CHAMPA NANDI	88,083.00	-	26,944.00	61,139.00
35	CHANDRIKA BASU MAJUMDER	232,238.00	-	232,238.00	-
36	DEBARSHI MUKHERJEE	185,892.00		171,892.00	14,000.00
37	DEBASISH MAITI	186,905.00	-	-	186,905.00
38	DEBASISH ROY CHOWDHURI	2.00	-	-	2.00
39	DEEPAK UPADHYAYA	5,000.00			5,000.00
40	DILIP KUMAR RANA	200,000.00	-	-	200,000.00
41	DIPAYAN CHOUDHURY	152,482.00			152,482.00
42	ESHITA BORAL	350,000.00	80,000.00	-	430,000.00
43	GAUTAM CHAKMA	5,000.00		-	5,000.00
44	GURUPRASAD CHAKRABORTY	4,000.00	-	-	4,000.00
45	HARADHAN DEBNATH	13,490.00	-	-	13,490.00
46	HARADHAN MALLA	10,000.00	-	-	10,000.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Schedule of Advance to Staff					
SL.	Particulars	From : '01-Apr-2023' To : '31-03-2024'			
		Opening (Dr.)	Paid	Recovery	Closing (Dr.)
47	HARI SANKAR CHAKRABORTY	6,980.00	-	-	6,980.00
48	HARJEET NATH	7,000.00			7,000.00
49	INDRANEEL BHOWMIK	40,760.00		40,000.00	760.00
50	JAHA DEBBARMA	1,106,190.00	-	378,818.00	727,372.00
51	JAYANTA CHOUDHURI	307,001.75	810,000.00	909,070.00	207,931.75
52	JIMMI DEBBARMA		290,859.00		290,859.00
53	JUPITOR CHAKMA	55,000.00	-	-	55,000.00
54	KALI CHARAN JHA		100,000.00	7,805.00	92,195.00
55	KASHINATH DAS	2,000.00	-	-	2,000.00
56	KASHINATH JENA	88.00	-		88.00
57	KHUMTIYA DEBBARMA	15,000.00	-		15,000.00
58	KISHALAYA ROY CHOUDHURY	460,000.00	50,000.00	500,000.00	10,000.00
59	KISHOR DEBNATH	5,000.00	-	5,000.00	-
60	KRISHNA DAS	8,120.00	24,000.00	24,000.00	8,120.00
61	KRISHNENDU DHAR	139,999.00	-		139,999.00
62	KUNTAL MANNA	22,500.00	5,000.00		27,500.00
63	LETTHUAMA DARLONG	8,755.00			8,755.00
64	LIPIKA CHAKRABORTY W/O LT. SAJAL BHATTACHARJEE	25,000.00			25,000.00
65	LOVELY RAHAMAN	129,000.00			129,000.00
66	MADHU MANIK LODH	238,872.00	458,250.00	627,059.00	70,063.00
67	MAHASWETA DAS (SAHA)		20,000.00	6,760.00	13,240.00
68	MALAY DEB	30,000.00			30,000.00
69	MAMATA DEBBARMA	240.00		240	-
70	MANAS KUMAR PAL		40,000.00	40,000.00	-



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Schedule of Advance to Staff					
SL.	Particulars	From : '01-Apr-2023' To : '31-03-2024'			
		Opening (Dr.)	Paid	Recovery	Closing (Dr.)
71	MANGAL LAXMI DEBBARMA W/O LT. SANJIT DEBBARMA	8,000.00			8,000.00
72	MANIK DEBBARMA		91,000.00	91,000.00	-
73	MANIK KUMAR SEN	10,000.00			10,000.00
74	MANISH DAS	165,800.00	20,250.00	72,000.00	114,050.00
75	MANOJ KUMAR MAURYA	11,075.00			11,075.00
76	MILAN RANI JAMATIA	75,342.00		52,002.00	23,340.00
77	MILTON DEBBARMA	5,000.00		5,000.00	-
78	MITHU ANJALI GAYAN		10,000.00		10,000.00
79	MOHAN DEBBARMA	143,805.00	5,000.00	40,584.00	108,221.00
80	MONISANKAR MISRA	20,000.00	-	-	20,000.00
81	MOUSAMI DEBBARMA	193,210.00		193,210.00	-
82	MRINAL KANTI BHOWMIK(T)	196,134.00	45,000.00	220,875.00	20,259.00
83	MUKULENDU PATHAK	410.00	-	-	410.00
84	MUNEENDRA MISHRA	1,479.00	113,500.00	114,979.00	-
85	NANDA KISHORE JAMATIA	1,000.00	-	-	1,000.00
86	NANIGOPAL DEBNATH	90,000.00			90,000.00
87	NARAYANPRASAD DAMASE	9,850.00			9,850.00
88	NARENDU BHATTACHARJEE	75,000.00			75,000.00
89	NEWIN MOG	10,000.00		10,000.00	-
90	NIBEDITA DAS (PAN)	4,000.00			4,000.00
91	NIRMAL DAS	11,396.00	-	11,396.00	-
92	NIRMALYA DEBNATH	756,550.00		374,000.00	382,550.00
93	NISHIKANT KOLGE	14,775.00	-	-	14,775.00
94	NUTANKUMAR S. THINGUJAM	14,327.00	-	-	14,327.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Schedule of Advance to Staff					
SL.	Particulars	From : '01-Apr-2023' To : '31-03-2024'			
		Opening (Dr.)	Paid	Recovery	Closing (Dr.)
95	PALLAB GHOSAL	2,000.00	-	-	2,000.00
96	PANNA DAS	50,000.00		50,000.00	-
97	PARAMITA SAHA	124,999.00	22,000.00	22,000.00	124,999.00
98	PARMINDER KAUR	8,000.00	-	-	8,000.00
99	PARTHA PRATIM BHATTACHARJEE	10,000.00	-	-	10,000.00
100	PAWAN KUMAR SINGH	1,374,020.00	1,285,000.00	1,656,265.00	1,002,755.00
101	PRADIP KUMAR DE	10,000.00			10,000.00
102	PRADIP KUMAR ROY	150,000.00		150,000.00	-
103	PRALLAD DEBNATH	32,149.00			32,149.00
104	PRANAB KUMAR PAL	105,314.00		105,314.00	-
105	PRANAB ROY	1,800.00			1,800.00
106	PRANAB ROY(ASST. MANG.)	10,000.00			10,000.00
107	PRANAY PAL	74,256.00			74,256.00
108	PRASANTA KUMAR DAS	2,712,741.00	1,177,000.00	767,000.00	3,122,741.00
109	PRASANTA KUMAR ROUT	21,884.00	35,000.00	19,000.00	37,884.00
110	PRASANTH S	14,500.00			14,500.00
111	PRATAP CHANDRA ACHARYA	15,000.00	160,000.00	100,000.00	75,000.00
112	PRAVEEN MISHRA	31,265.00	-	-	31,265.00
113	R.N. DATTA PURAKAYASTHA	91,000.00		45,000.00	46,000.00
114	RABINDRA BHARALI	328,050.00	-	-	328,050.00
115	RABINDRA KUMAR MAHAPATRA	84,000.00	95,000.00		179,000.00
116	RABINDRA KUMAR SINHA	44,416.00	-	4,480.00	39,936.00
117	RAJAT DEB	34,966.00	-	-	34,966.00
118	RAJENDRA PRASAD	47,458.00	-	-	47,458.00
119	RAJESH BANIK	30,000.00	44,000.00	50,000.00	24,000.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Schedule of Advance to Staff					
SL.	Particulars	From : '01-Apr-2023' To : '31-03-2024'			
		Opening (Dr.)	Paid	Recovery	Closing (Dr.)
120	RAJESH BHOWMIK	585,736.00	150,000.00		735,736.00
121	RAJESH CHATTERJEE	267,200.00	10,000.00	-	277,200.00
122	RAJESH DEBBARMA	63,305.00			63,305.00
123	RAJESH GANESAN	114,000.00			114,000.00
124	RANADHIR BHATTACHARJEE		20,000.00	20,000.00	-
125	RANENDU KUMAR NATH	280,627.00	10,000.00	20,000.00	270,627.00
126	RATAN DAS	71,000.00	75,000.00	25,000.00	121,000.00
127	RUPAK CHAKRABORTY	145,000.00	205,000.00	350,000.00	-
128	SABYASACHI DASGUPTA	17,576.00	100,000.00		117,576.00
129	SAGOLSEM INDRAKUMAR SINGH	3,000.00			3,000.00
130	SAMARJIT REANG	40,000.00	100,000.00	130,000.00	10,000.00
131	SAMBHU RAKHIT	2,000.00		-	2,000.00
132	SAMIR KUMAR SIL	184,541.00	50,000.00	50,000.00	184,541.00
133	SAMRAT HORE	15,000.60	-		15,000.60
134	SANTOSH GOSWAMI	4,500.00	-	-	4,500.00
135	SAPTARSHI MITRA		250,000.00	250,000.00	-
136	SATYADEO PODDAR	102,189.00	-	-	102,189.00
137	SHANKAR NATH TIWARI	14,652.00	10,000.00	-	24,652.00
138	SHAON RAY CHAUDHURI		80,000.00	20,000.00	60,000.00
139	SHARMILA CHHOTARAY	3,365.00	15,000.00	15,000.00	3,365.00
140	SHARMISTHA BHATTACHARYA (HALDER)	4,063.00	-	-	4,063.00
141	SHEKHARESH BHATTACHARJEE	5,051.00	-	-	5,051.00
142	SHIBENDU DEBBARMA	422,000.00	-	-	422,000.00
143	SIMA DASGUPTA	3,000.00	-	3,000.00	-



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Schedule of Advance to Staff					
SL.	Particulars	From : '01-Apr-2023' To : '31-03-2024'			
		Opening (Dr.)	Paid	Recovery	Closing (Dr.)
144	SINDHU POUDYAL	35,000.00	35,000.00	-	70,000.00
145	SOMDEV BANIK	20.00	182,000.00	165,000.00	17,020.00
146	SOROKKHAIBAM GAMBHINI	40,498.00	-	-	40,498.00
147	SOURABH DEB	369,000.00	465,000.00	390,000.00	444,000.00
148	SUBHASH SARKAR	30,000.00			30,000.00
149	SUBHRABARAN DAS		605,000.00		605,000.00
150	SUBIR KUMAR SEN	70.00			70.00
151	SUBRATA NANDI	62,572.00	139,000.00	129,000.00	72,572.00
152	SUDIP DAS	82,209.00	78,000.00	78,000.00	82,209.00
153	SUKHENDU DEBBARMA	10,000.00			10,000.00
154	SUNIL KALAI	109,060.00	1,000,000.00		1,109,060.00
155	SUNIL KR. DE	19,000.00		19,000.00	-
156	SUPARNA SAHA	14,000.00			14,000.00
157	SURAJIT BHATTACHARJEE	15,000.00	20,000.00	35,000.00	-
158	SURAJIT SARKAR	154,157.00	137,000.00	196,900.00	94,257.00
159	SURYA CHATTOPADHYAYA	5,000.00			5,000.00
160	SWANIRBHAR MAJUMDER	2,400.00	252,000.00	4,400.00	250,000.00
161	SWARUP NANDI	1,000.00	-	-	1,000.00
162	SYAMAL SAHA	30,000.00	90,000.00	120,000.00	-
163	SYED ARSHAD HUSSAIN	35,000.00	600,000.00	630,000.00	5,000.00
164	TANAY DAS	30,000.00			30,000.00
165	TAPAS KUMAR DEBBARMA	25,000.00	-	-	25,000.00
166	THIRU SELVAN	700.00			700.00
167	TINKU DE (GOPE)	10,000.00			10,000.00
168	UTPAL BISWAS	79,000.00	86,000.00	56,000.00	109,000.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Schedule of Advance to Staff					
SL.	Particulars	From : '01-Apr-2023' To : '31-03-2024'			
		Opening (Dr.)	Paid	Recovery	Closing (Dr.)
169	UTPAL CHANDRA DE	10,000.00			10,000.00
170	UTTAM DAS	66,000.00		16,060.00	49,940.00
171	UTTAM DEBBARMA	10,000.00		10,000.00	-
172	VINOD KUMAR MISHRA	18,000.00	-	-	18,000.00
173	Y.V. KRISHNAIAH	-	480,000.00	200,000.00	280,000.00
TOTAL		18,469,254.18	11,988,195.00	12,348,036.00	18,109,413.18





Schedules forming Part of Income & Expenditure Account





TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 9-ACADEMIC RECEIPTS

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year	Previous Year
<u>FEE FROM STUDENTS</u>		
<u>ACADEMIC</u>		
SEMISTER FEE	660,550.00	1,105,000.00
ADMISSION FEES	10,497,605.88	6,173,258.01
REGISTRATION FEE	11,585,948.00	662,591.00
TUITION FEE	30,461,325.00	31,650,025.00
P.H.D REGISTRATION FEE	238,600.00	112,700.00
ADMIT CARD FEE	300.00	1,600.00
SPORTS FEE	856,860.00	873,050.00
LIBRARY FEE	2,235,305.00	2,344,764.00
ENROLMENT FEE	1,620,700.00	2,075,500.00
LABORATORY FEE	4,365,200.00	4,931,650.00
INSURANCE FEE	1,076,700.00	
LATE FEE	-	250.00
STUDENT WELFARE FUND	2,439,000.00	2,486,800.00
Total (A)	66,038,093.88	52,417,188.01
<u>EXAMINATIONS</u>		
EXAM FEE	98,255,344.00	83,172,315.00
MARKSHEET FEE	445,583.00	498,810.00
CERTIFICATE FEE	1,630,821.00	1,867,080.00
Total (B)	100,331,748.00	85,538,205.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year	Previous Year
<u>OTHER FEES</u>		
COMPUTER/WI-FI FEE	1,408,800.00	-
HOSTEL ADMISSION FEE	-	1,082,350.00
HOSTEL SEAT RENT WITH ELECTRICITY	1,134,140.00	389,850.00
FINE AND SHORTAGE OF ATTENDANCE	-	105,500.00
IDENTITY CARD FEE	-	580.00
INSPECTION FEE	145,010.00	342,700.00
MIGRATION FEE	7,958,703.00	5,040,310.00
NON-COLLEGIATE FEE	84,800.00	219,148.00
OTHER FEE	2,296,026.00	135,345.64
Total (C)	13,027,479.00	7,315,783.64
<u>SALE OF PUBLICATION</u>		
PROSPECTUS FEE & OTHERS	0.00	0.00
COST OF FORM	0.00	0.00
Total (D)	0.00	0.00
<u>OTHER ACADEMIC RECEIPTS</u>		
REGISTRATION FEE FOR WORKSHOPS - PROGRAMMES	2,413,963.00	748343.00
REGISTRATION FEES (ACADEMIC STAFF COLLEGE)	0.00	0.00
Total (E)	2,413,963.00	748,343.00
Grand Total (A+B+C+D+E)	181,811,283.88	146,019,519.65

Notes :

1. In case fees like entrance fee, subscription etc. are material and in the nature of capital receipts, such amount has been recognised to the Capital Fund Otherwise such fees are appropriately incorporated in this Schedule.
2. Tuition Fees of Rs. 74,49,100.00 which was received from the student for the period from April,24 to June'24 has been recognised as liability.



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 10 - GRANTS / SUBSIDIES (IRREVOCABLE GRANTS RECEIVED)

(Amount in Rupees)

Particulars	Govt. of India	UGC			Salary & Recurring Grant	Current Year Total	Previous Year Total
		Plan/ Capital Assets	Specific Schemes	Total			
Balance B/F		21,421,000.00	26,000.00	21,447,000.00	-	21,447,000.00	65,023,714.28
Add : Receipts during the year		165,526,900.00	61,574,000.00	227,100,900.00	904,619,253.00	1,131,720,153.00	933,096,702.00
Total		186,947,900.00	61,600,000.00	248,547,900.00	904,619,253.00	1,153,167,153.00	998,120,416.28
Less : Refund		10,461,000.00		10,461,000.00	-	10,461,000.00	43,602,714.28
Less : Utilised for Capital Expenditure (A)		97,137,900.00	27,518,000.00	124,655,900.00	-	124,655,900.00	74,995,772.00
Balance		79,349,000.00	34,082,000.00	113,431,000.00	904,619,253.00	1,018,050,253.00	879,521,930.00
Less : Utilised for Revenue Expenditure (B)		-		-	904,619,253.00	904,619,253.00	858,074,930.00
Balance C/F		79,349,000.00	34,082,000.00	113,431,000.00	-	113,431,000.00	21,447,000.00

Notes :

- A. Appears as addition to Capital Fund as well as addition to Fixed Assets during the year.
- B. Appears as income in the Income & Expenditure Account.
- C. (i) Appears under Current Liabilities in the Balance Sheet and will become the opening balance next year.
(ii) Represented by Bank balances, Investment and Advance on the Assets side.
- D. Out of opening balance of Grant of Rs. 2,14,21,000.00 of Rs. 54,66,000.00 (Fund related to FY 2019-2020) transferred to Corpus Fund and Rs. 1,04,61,000 have been transferred to UGC on 30.10.2023.
- E. Out of opening balance of Grant of Rs. 2,14,21,000.00, includes of Rs. 5,61,000.00 carried forward from FY- 2017-2018.
- F. During the year Rs. 16,55,26,900.00 has been received by the University under the head "GRANT-IN-AID CAPITAL" in RBI A/C NO. 10671301066 and the same amount were fully disbursed. Against the receipt of Rs. 16,25,26,900.00, Rs. 9,71,37,900.00 has been shown as Utilised Capital Grant in the "Schedule - 10 & 3C" as the Rs. 6,83,89,000.00 was disburse as "Advance on Capital Account - Civil Works" and will be treated as utilisation based on the bill submitted by the vendor in future.
- G. During the year Rs. 6,15,74,000.00 has been received by the University under the head "GRANT-IN-AID CAPITAL" in "TU NEC Bank "A/c NO. 41541260377 and the same amount were fully disbursed. Against the total receipt of Rs. 6,16,00,000.00, Rs. 2,75,18,000.00 has been shown as Utilised Capital Grant in the "Schedule - 10 & 3C" as the Rs. 3,40,82,000.00 was disburse as "Advance on Capital Account - Civil Works" and will be treated as utilisation based on the bill submitted by the vendor in future.



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 11-INCOME FROM INVESTMENTS

(Amount in Rupees)

Particulars	Earmarked/Endowment Funds		Other Investments	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
<u>1. INTEREST</u>				
A) ON GOVT. SECURITIES				
B) ON OTHER BONDS/DEBENTURES	-	-	-	-
<u>2. INTEREST ON TERM DEPOSIT</u>	-	-	-	-
INTEREST ON AXIS BANK F/D A/C	-	-	-	-
INTEREST ON FIXED DEPOSIT	77,490.00	83,830.00	42,769,095.64	42,388,062.26
INTEREST ON FIXED DEPOSIT (INTERNAL RECEIPTS)	-	-	-	60,012.00
<u>3. INCOME ACCRUED BUT NOT DUE ON TERM DEPOSITS/INTEREST</u>	-	-	-	-
BEARING ADVANCES TO EMPLOYEES	-	-	-	-
<u>4. INTEREST ON SAVINGS BANK ACCOUNTS</u>	64,848.00	49,472.00	-	-
<u>5. INCOME FROM OTHERS (SPECIFY)</u>	-	-	-	-
Total	142,338.00	133,302.00	42,769,095.64	42,448,074.26
Transfer to Earmarked/Endowment Fund	142,338.00	133,302.00		
Balance	0.00	0.00		



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 12 - INTEREST EARNED

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year	Previous Year
1. ON SAVINGS ACCOUNTS WITH SCHEDULE BANKS		
INTEREST ON PMMMNMTT A/C		7,155.00
INTEREST ON STATE PERIOD BANK A/C	130,490.00	29,477.00
INTEREST ON CORPUS FUND A/C	338,443.00	326,734.00
INTEREST ON AXIS BANK A/C	123,292.00	357,705.00
INTEREST ON DEBT - DEPOSIT & ADVANCE A/C	246,067.00	200,471.00
INTEREST ON INTERNAL RECEIPTS A/C	8,097,083.00	4,541,389.00
INTEREST ON CULTURAL FESTIVAL A/C	12,908.00	12,538.00
INTEREST ON DEVELOPMENT FUND A/C		247,092.00
INTEREST ON ENGG AND MANAGEMENT AND UGC GRANT A/C	40.00	40.00
INTEREST ON MERGED SCHEME A/C	1,135.00	1,215.00
INTEREST ON NON - NET PHD A/C	1,611.00	1,497.00
INTEREST ON B.VOC A/C	2,464.00	2,297.00
INTEREST ON NAI- TALEEM A/C	11,749.00	7,828.00
INTEREST ON ICICI BANK A/C	225,695.00	181,834.00
INTEREST ON IAS COACHING CENTRE A/C	3,790.00	3,681.00
2. ON LOANS		
A) EMPLOYEES/STAFF LOAN	-	-
B) OTHERS	-	-
C) INTEREST EARNED ON EMPLOYEES/STAFF	-	-
3. ON DEBTORS AND OTHER RECEIVABLES	-	-
Grand Total	9,194,767.00	5,920,953.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 13 - OTHER INCOME*(Amount in Rupees)*

Particulars	Current Year	Previous Year
<u>A. INCOME FROM LAND & BUILDING</u>		
ATM & PREMISES RENT	251,452.00	251,452.00
GUEST HOUSE RENT	1,767,911.65	1,471,982.12
RENT RECEIPTS	74,085.00	
LICENCE FEES	635,089.00	5,580.00
<u>B. SALE OF INSTITUTES PUBLICATION</u>		
<u>C. INCOME FROM HOLDING EVENTS</u>		
1. GROSS RECEIPTS FROM ANNUAL FUNCTION/SPORTS CARNIVAL	-	-
LESS : DIRECT EXPENDITURE INCURRED ON THE ANNUAL FUNCTION/SPORTS CARNIVAL	-	-
2. GROSS RECEIPTS FROM FETES	-	-
LESS : DIRECT EXPENDITURE INCURRED ON THE FETES	-	-
3. GROSS RECEIPTS FROM EDUCATIONAL TOURS	-	-
LESS : DIRECT EXPENDITURE INCURRED ON THE TOURS	-	-
4. OTHER INCOME FROM HOLDING EVENTS (TO BE SPECIFIED AND SEPARATELY DISCLOSED)	-	-
<u>D. OTHERS</u>		
RECRUITMENT FEE	2,492,994.10	-
TENDER FEE	68,500.00	72,000.00
ENERGY BILL	-	20,686.00
TDS REFUND FROM IT DEPTT	1,945,980.00	-
OTHER RECEIPTS	234,398.00	692,600.00
SALE OF VEGETABLE AND FRUIT	197,571.67	48,050.44
<u>E. DEDUCTABLE INCOME</u>		
ENERGY BILL DEDUCTION	-	-
SALARY DEDUCTION	1,397,986.00	-
PENALTY DEDUCTION	-	-
GRAND TOTAL (A+B+C+D+E)	9,065,967.42	2,562,350.56



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 14 - PRIOR PERIOD INCOME

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year	Previous Year
1. ACADEMIC RECEIPTS	-	-
2. INCOME FROM INVESTMENT	-	-
3. INTEREST EARNED	-	-
4. OTHER INCOME (PRIOR PERIOD)	1,479,600.00	-
Grand Total	1,479,600.00	-

Note:

- 1) The University Received an amount of Rs. 14,79,600.00 as user charges of Wi-Fi Network from students during the year 2022-2023 but wrongly reduced under head com Hot Spot/ Wi-Fi (Schedule - 4A) and therefore now added the figure of Hot Spot/ Wi-Fi under tangible assets by Rs. 14,79,600.00 and depreciation have been added and adjusted with prior period income.



TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 15 -STAFF PAYMENT & BENEFITS (ESTABLISHMENT EXPENSES)

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year				Previous Year			
	Plan/ Scheme	Grant In AID SALARY	Recurring (General)	Total	Plan/Scheme	Grant In AID SALARY	Recurring (General)	Total
A. SALARIES AND WAGES								
ARREAR DA (TEACHING)	-	5,253,341.00	-	5,253,341.00	-	3,937,867.00	-	3,937,867.00
ARREAR PENSION	-	-	357,449.00	357,449.00	-	-	2,683,159.00	2,683,159.00
ARREAR DA (NON TEACHING)	-	2,135,766.00	-	2,135,766.00	-	1,620,399.00	-	1,620,399.00
ARREAR SALARY - (TEACHING)	-	32,887,272.00	-	32,887,272.00	-	42,914,873.00	-	42,914,873.00
ARREAR SALARY - (NON TEACHING)	-	329,123.00	-	329,123.00	-	827,311.00	-	827,311.00
SALARY (TEACHING STAFF)	-	379,602,724.00	-	379,602,724.00	-	348,147,949.00	-	348,147,949.00
SALARY (NON TEACHING STAFF)	-	149,206,789.00	-	149,206,789.00	-	141,782,759.00	-	141,782,759.00
SALARY(FDC)	-	-	-	-	-	-	-	-
SALARY TO CONTRACTUAL TEACHING STAFF	-	-	2,071,617.00	2,071,617.00	-	-	2,071,617.00	2,071,617.00
SALARY TO ACCOMPANIST STAFF	-	-	1,675,485.00	1,675,485.00	-	-	1,675,485.00	1,675,485.00
SALARY TO RE-EMPLOYED STAFF	-	-	-	-	-	-	-	-
SALARY TO TEMPORARY STAFF	-	2,265,252.00	-	2,265,252.00	-	2,242,392.00	-	2,242,392.00
SALARY TO CONTRACTUAL STAFF B.VOC (GEN)	-	-	-	-	-	-	81,805.00	81,805.00
SALARY TO CENTRAL PENSIONERS	-	-	-	-	-	-	-	-
SALARY TO STATE PENSIONER	-	-	-	-	-	-	-	-
WAGES	-	-	558,000.00	558,000.00	-	-	562,000.00	562,000.00
ARREAR DA	-	-	2,049,884.00	2,049,884.00	-	-	1,012,644.00	1,012,644.00
SALARY TO CONTRACTUAL STAFF (B.VOC)	896,707.00	-	-	896,707.00	768,896.00	-	-	768,896.00
SALARY TO DEPUTED STAFF FROM TSECL	-	3,425,736.00	-	3,425,736.00	-	3,051,983.00	-	3,051,983.00
SALARY TO DRW/CONTRACTUAL STAFF	-	-	104,726.00	104,726.00	-	-	-	-
SALARY-SCHOOL OF EDUCATION	-	682,373.00	-	682,373.00	-	1,536,927.00	-	1,536,927.00
SALARY TO ADJUNCT FACULTY	-	-	-	-	-	-	-	-
ARREAR SALARY (SOE)	871.00	-	-	871.00	-	-	-	-
ARREAR SALARY (TSECL)	-	50,939.00	-	50,939.00	-	-	-	-
ARREAR DA (TSECL)	-	-	-	-	-	47,230.00	-	47,230.00
OUTSOURCING STAFF SALARY (FDC)	-	-	-	-	-	-	-	-
ARREAR SALARY (CLTS)	-	155,844.00	-	155,844.00	-	-	-	-
ARREAR DA (CLTS)	-	28,992.00	-	28,992.00	-	24,744.00	-	24,744.00
SALARY TO CONTRACTUAL STAFF (NT)	-	-	19,454,594.00	19,454,594.00	-	-	18,541,588.00	18,541,588.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year				Previous Year			
	Plan/ Scheme	Grant In AID SALARY	Recurring (General)	Total	Plan/ Scheme	Grant In AID SALARY	Recurring (General)	Total
B. ALLOWANCES AND BONUS								
FESTIVAL GRANTS	-	14,400.00	-	14,400.00	-	12,000.00	-	12,000.00
O.T. A	-	-	169,781.00	169,781.00	-	-	161,429.00	161,429.00
C. CONTRIBUTION TO PROVIDENT FUND								
NPS - EMPLOYER CONTRIBUTION	-	-	40,453,027.28	40,453,027.28	-	-	39,568,725.00	39,568,725.00
D. CONTRIBUTION TO OTHER FUND (SPECIFY)								
EMPLOYER PROVIDENT FUND	-	-	1,931,075.00	1,931,075.00	-	-	1,983,386.00	1,983,386.00
E. STAFF WELFARE	-	-	-	-	-	-	-	-
F. RETIREMENT AND TERMINAL BENEFITS								
GRATUITY	-	58,767,142.00	-	58,767,142.00	-	28,933,996.00	-	28,933,996.00
COMMUTATION VALUE	-	-	18,077,701.00	18,077,701.00	-	-	12,005,206.00	12,005,206.00
LEAVE SALARY	-	-5,888,741.00	-	-5,888,741.00	-	167,961,804.00	-	167,961,804.00
PENSION A/C	-	-	573,521,162.00	573,521,162.00	-	-	770,151,144.00	770,151,144.00
G. LTC FACILITY								
LTC	-	4,285,083.00	-	4,285,083.00	-	5,156,308.00	-	5,156,308.00
LEAVE ENCASHMENT (LTC)	-	1,594,457.00	-	1,594,457.00	-	2,437,068.00	-	2,437,068.00
H. MEDICAL FACILITY								
MEDICAL REIMBURSEMENT	-	6,418,269.00	-	6,418,269.00	-	3,037,255.00	-	3,037,255.00
I. CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE	-	4,798,016.00	-	4,798,016.00	-	5,007,610.00	-	5,007,610.00
J. HONORARIUM								
HONORARIUM	-	-	1,828,109.00	1,828,109.00	-	-	1,026,785.00	1,026,785.00
HONORARIUM (FDC)	-	-	-	-	-	-	-	-
HONORARIUM (NET COACHING)	-	-	-	-	-	-	-	-
HONORARIUM (EOC)	-	-	-	-	-	-	-	-
HONORARIUM (B. VOC)	-	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00
HONORARIUM (GUEST FACULTY)	-	-	16,855,700.00	16,855,700.00	-	-	14,612,250.00	14,612,250.00
ESSENTIAL SERVICES ALLOWANCE	-	-	183,000.00	183,000.00	-	-	177,000.00	177,000.00
K. OTHER								
INTEREST REFUND TO UGC SALARY	-	-	-	-	-	-	-	-
Grant Total	897,578.00	646,012,777.00	679,291,310.28	1,326,201,665.28	788,896.00	758,680,475.00	866,314,223.00	1,625,783,594.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 15 A - EMPLOYEES RETIREMENT AND TERMINAL BENEFITS

(Amount in Rupees)

	Pension	Gratuity	Leave Encashment	Total
Opening Balance as on 01.04.2023	2,080,146,771.00	157,722,931.00	292,630,294.00	2,530,499,996.00
Additions : Capitalised value of Contributions Received from other Organization	-	-	-	-
Total (a)	2,080,146,771.00	157,722,931.00	292,630,294.00	2,530,499,996.00
Less : Actual Payment during the year (b)	87,114,542.00	13,740,149.00	15,688,486.00	116,543,177.00
Balance Available on 31.03.2024 [c=(a-b)]	1,993,032,229.00	143,982,782.00	276,941,808.00	2,413,956,819.00
Provision required on 31.03.2024 as per Actual Valuation (d)	2,566,553,391.00	202,749,924.00	271,053,067.00	3,040,356,382.00
Provision to be made in the Current Year [e=(d-c)]	573,521,162.00	58,767,142.00	-5,888,741.00	626,399,563.00
B. Contribution to New Pension Scheme	-	-	-	-
C. Medical Reimbursement to Retired Employees	-	-	-	-
D. Travel to Hometown on Retirement	-	-	-	-
E. Deposit Linked Insurance Payment	-	-	-	-
Total (A+B+C+D+E)	573,521,162.00	58,767,142.00	-5,888,741.00	626,399,563.00

Notes :

1. The Total (A+B+C+D+E) in this sub schedule is the figure against Retirement and Terminal Benefits in Schedule 15.



TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 16 - ACADEMIC EXPENSES

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan/Scheme	Grant In AID GENERAL	Total	Plan/Scheme	Grant In AID GENERAL	Total
<u>A) LABORATORY EXPENSES</u>						
CONSUMABLE		4,370,658.00	4,370,658.00		4,311,944.00	4,311,944.00
<u>B) FIELD WORK / PARTICIPATION IN CONFERENCE</u>						-
TRAVEL GRANT (UAG)			-			-
<u>C) EXPENSES ON SEMINAR / WORKSHOPS</u>						-
SEMINAR / CONFERENCE		4,207,684.00	4,207,684.00		2,051,873.00	2,051,873.00
WORKSHOP UAS		105,990.00	105,990.00			
<u>D) PAYMENT TO VISITING FACULTY</u>						-
VISITING FELLOW		150,520.00	150,520.00			-
<u>E) EXAMINATION</u>						-
EXAMINATION EXPENSES		43,939.00	43,939.00		97,263.00	97,263.00
REMUNERATION		16,355,294.00	16,355,294.00		11,030,965.00	11,030,965.00
<u>F) STUDENT WELFARE EXPENSES</u>						-
G) ADMISSION EXPENSES		1,273,360.00	1,273,360.00		1,024,450.00	1,024,450.00
H) CONVOCATION EXPENSES		1,213,539.00	1,213,539.00		296,714.00	296,714.00
I) PUBLICATION			-			-
J) STIPEND / MEANS-CUM-MERIT			-			-
K) SUBSCRIPTION EXPENSES			-			-
<u>L) OTHERS (SPECIFY)</u>						-
SCHOLARSHIP NON NET PHD.	-	8,445,145.00	8,445,145.00		14,654,724.00	14,654,724.00
CONTINGENCY (NON-NET)	-	689,520.00	689,520.00		1,289,598.00	1,289,598.00
AICTE FEE		30,000.00	30,000.00			
MEMBERSHIP FEE	-		-		94,366.00	94,366.00
GRAND TOTAL	-	36,885,649.00	36,885,649.00	-	34,851,897.00	34,851,897.00



TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 17-ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan/ Scheme	Recurring (General)	Total	Plan/Scheme	Recurring (General)	Total
<u>A. INFRASTRUCTURE</u>						
ELECTRIC BILL		9,083,082.00	9,083,082.00		2,986,007.00	2,986,007.00
SOLAR POWER BILL		1,211,939.00	1,211,939.00		1,321,483.00	1,321,483.00
<u>B. COMMUNICATION</u>			-			-
POSTAGE & COURIER		236,725.00	236,725.00		224,345.00	224,345.00
STATIONERY EXP.		7,196,118.00	7,196,118.00		1,626,510.00	1,626,510.00
TELEPHONE BILL		502,188.00	502,188.00		232,484.00	232,484.00
<u>C. OTHERS</u>			-			-
SIGN BOARD			-		1,851,920.00	1,851,920.00
USER CHARGES			-		3,823,200.00	3,823,200.00
PRINTING EXP.		16,662,952.00	16,662,952.00		8,471,974.00	8,471,974.00
TA / DA (EXPERT) EXP.		3,676,431.00	3,676,431.00		3,630,439.00	3,630,439.00
TA / DA (OFFICIAL) EXP.		2,351,200.00	2,351,200.00		1,129,530.00	1,129,530.00
PROFESSIONAL FEES		466,100.00	466,100.00		363,499.00	363,499.00
ADVERTISING & DISPLAY		832,279.00	832,279.00		230,009.00	230,009.00
ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT FEE		8,577,127.00	8,577,127.00		7,736,441.00	7,736,441.00
CAMPUS BEAUTIFICATION		2,305,559.00	2,305,559.00		2,561,742.00	2,561,742.00
CONTINGENCY EXP.		5,130,614.00	5,130,614.00		6,185,547.00	6,185,547.00
AIU FEE		59,000.00	59,000.00		88,990.00	88,990.00
EC & FC MEETING EXP.		257,365.00	257,365.00		-	-
GUEST HOUSE EXP. (FOOD)		284,216.00	284,216.00		316,200.00	316,200.00
GUEST_HOUSE_ROOM_RENT_EXP_FDC		-	-		-	-
LEGAL EXPENSES		1,107,030.00	1,107,030.00		935,116.00	935,116.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan/Scheme	Recurring (General)	Total	Plan/Scheme	Recurring (General)	Total
MISC. EXP. (MAINT. GRANT)		150,715.00	150,715.00		31,528.00	31,528.00
SPORTS BOARD EXPENSES		3,745,153.00	3,745,153.00		3,666,580.00	3,666,580.00
STUDY TOUR EXP.		1,652,147.00	1,652,147.00		135,711.00	135,711.00
WEBSITE MAINTENANCE		105,553.00	105,553.00		61,124.00	61,124.00
OUTSOURCING STAFF (OUTSOURCING EXP.)		7,906,077.00	7,906,077.00		6,024,176.00	6,024,176.00
IAS COACHING CENTER EXPENDITURE			-		0.00	-
SECURITY GUARD (OUTSOURCING EXP.)		8,875,595.00	8,875,595.00		7,500,931.00	7,500,931.00
SWEEPING & CLEANING (OUTSOURCING EXP.)		9,893,371.00	9,893,371.00		7,813,261.00	7,813,261.00
TADA (B. VOC)			-			-
CONTINGENCY (B. VOC)			-	4,959.00		4,959.00
GUEST HOUSE EXP. (ROOM RENT)		207,122.00	207,122.00		531,562.00	531,562.00
AUDIT FEE		59,000.00	59,000.00		59,000.00	59,000.00
SEMINAR (FDC)			-			-
MOCK VISIT FEE			-		272,965.00	272,965.00
INNOVATIVE RESEARCH ACTIVITIES			-		160,000.00	160,000.00
INSURANCE		76,261.00	76,261.00		468,622.00	468,622.00
TRANSPORTATION COST			-		76,797.00	76,797.00
NAAC VISIT FEE		147,852.00	147,852.00		796,500.00	796,500.00
NAAC EXPENDITURE		430,575.00	430,575.00		1,006,508.00	1,006,508.00
ALUMNI FEE		460,200.00	460,200.00			-
SPORTS FEES TO COLLEGE		61,720.00	61,720.00			
CENTRE FEE (NEP)		1,246,063.00	1,246,063.00			
<u>D. OTHERS</u>			-			-
GRAND TOTAL	-	94,957,329.00	94,957,329.00	4,959.00	72,320,701.00	72,325,660.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 18-TRANSPORTATION EXPENSES

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan/ Scheme	Recurring General	Total	Plan/ Scheme	Recurring General	Total
<u>1. VEHICLES (OWNED BY INSTITUTION)</u>	-	-			-	
A) RUNNING EXPENSES (POL GENERAL)	-		-	-	26,625.00	26,625.00
B) VEHICLES INSURANCE	-	47,466.00	47,466.00	-	85,007.00	85,007.00
C) POL & MAINTENANCE	-	449,562.00	449,562.00	-	501,824.00	501,824.00
<u>2. VEHICLES TAKEN ON RENT / LEASE</u>	-	-			-	
RENT / LEASE EXPENSES	-	-	-	-	-	-
<u>3. VEHICLE (TAXI) HIRING EXPENSES</u>	-	-	-		-	
HIRING CHARGES OF VEHICLES	-	2,483,750.00	2,483,750.00	-	2,261,315.00	2,261,315.00
GRAND TOTAL	-	2,980,778.00	2,980,778.00	-	2,874,771.00	2,874,771.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 19 - REPAIR & MAINTENANCE

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan/ Scheme	Recurring General	Total	Plan/ Scheme	Recurring General	Total
A) BUILDING	-	1,547,194.00	1,547,194.00	-	6,367,238.00	6,367,238.00
B) FURNITURE & FIXTURES	-	766,568.00	766,568.00	-	1,109,385.00	1,109,385.00
C) PLANT & MACHINERY	-	-	-	-	-	-
D) OFFICE EQUIPMENT	-	687,460.48	687,460.48	-	892,297.00	892,297.00
E) COMPUTERS	-	458,141.00	458,141.00	-	1,009,838.00	1,009,838.00
F) LABORATORY & SCIENCE EQUIPMENTS	-	1,553,450.00	1,553,450.00	-	-	-
G) AUDIO VISUAL EQUIPMENT	-	-	-	-	-	-
H) CLEANING MATERIAL & SERVICES	-	49,000.00	49,000.00	-	273,886.00	273,886.00
I) BOOKS BINDING CHARGES	-	0.00	-	-	0.00	-
J) GARDENING	-	-	-	-	-	-
K) OTHER INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	-	-
L) ELECTRICAL WORKS	-	3,602,413.00	3,602,413.00	-	12,353,071.00	12,353,071.00
M) REPAIR & MAINTENANCE	-	937,204.00	937,204.00	-	135,116.00	135,116.00
N) TRANSPORTATION	-	140,028.00	140,028.00	-	-	-
O) CAMPUS DEVELOPMENT	1,040,576.00	-	1,040,576.00	-	-	-
P) ELECTRICAL WORKS (CAPITAL ASSET)	-	-	-	-	-	-
Q) GARDENING	-	24,725.00	24,725.00	-	24,725.00	24,725.00
GRAND TOTAL	1,040,576.00	9,766,183.48	10,806,759.48	-	22,165,556.00	22,165,556.00



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 20 - FINANCE COST

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan/ Scheme	Recurring General	Total	Plan/ Scheme	Recurring General	Total
A) BANK CHARGE	-	18,247.70	18,247.70	-	31,225.74	31,225.74
B) BANK CHARGE (INTERNAL RECEIPT)	-	3,306.45	3,306.45	-	101,885.00	101,885.00
C) BANK CHARGE (B.VOC)	-	-	-	-	-	-
D) BANK CHARGES (GENERAL)	-	-	-	-	-	-
E) BANK CHARGES(SALARY)	-	47.20	47.20	-	-	-
F) BANK CHARGES (CAPITAL ASSETS)	-	-	-	-	-	-
G) OTHER (SPECIFY)	-	-	-	-	-	-
GRAND TOTAL	-	21,601.35	21,601.35	-	133,110.74	133,110.74



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 21 - OTHER EXPENSES

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan/ Scheme	Recurring General	Total	Plan/ Scheme	Recurring General	Total
A) PROVISION FOR BAD AND DOUBTFUL DEBTS / ADVANCE	-	-	-	-	-	-
B) IRRECOVERABLE BALANCES WRITTEN-OFF	-	-	-	-	-	-
C) GRANTS / SUBSIDIES TO OTHER INSTITUTIONS / ORGANIZATIONS	-	-	-	-	-	-
D) OTHERS (SPECIFY)	-	-	-	-	-	-
GRAND TOTAL	-	-	-	-	-	-

Note:

Other expenses shall be classified as write-off, provisions, miscellaneous expenses, loss on sale of investment, loss of fixed assets and loss on sale of fixed assets etc. and disclosed accordingly.



TRIPURA UNIVERSITY
(A Central University)
SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SCHEDULE 22 - PRIOR PERIOD EXPENDITURE

(Amount in Rupees)

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Plan/ Scheme	Recurring General	Total	Plan/ Scheme	Recurring General	Total
1. ESTABLISHMENT EXPENSES	-	-	-	-	-	-
2. ACADEMIC EXPENSES	-	-	-	-	-	-
3. ADMINISTRATIVE EXPENSES	-	-	-	-	-	-
4. TRANSPORTATION EXPENSES	-	-	-	-	-	-
5. REPAIR & MAINTENANCE	-	-	-	-	-	-
6. OTHER EXPENSES	-	-	-	-	-	-
GRAND TOTAL	-	-	-	-	-	-



Significant Accounting Policies





SCHEDULE : 23

TRIPURA UNIVERSITY

Year Ending: 31.03.2024

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (ILLUSTRATIVE)

1. BASIS FOR PREPARATION OF ACCOUNTS

- 1.1 The accounts are prepared under the Historical Cost Convention unless otherwise stated and generally on the Accrual method of accounting.
- 1.2 The University follows the provisions of General Financial Rules and other orders issued by the Ministry of Education, New Delhi and the University Grants Commission, New Delhi with regards to financial management and control of the University.

2. REVENUE RECOGNITION

- 2.1 Fees from Students, Sale of Admission forms, Royalty and Interest on Savings Bank account are accounted on Cash basis.
- 2.2 Income from Property and Interest on Term Deposit are accounted on accrual basis.

3. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

- 3.1 Fixed assets are stated at cost of acquisition including inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition, installation and commissioning.
- 3.2 Donated assets are recognized in the Books on the basis of present market value adjusted with physical condition of the assets.
- 3.3 Fixed assets are valued at cost less accumulated depreciation. Depreciation on fixed assets is provided on Straight line method, at the following rates.

Tangible Assets :

- | | |
|------------------|----|
| 1. Land | 0% |
| 2. Site Building | 0% |
| 3. Buildings | 2% |



4. Roads & Bridges	2%
5. Tube wells & Water Supply	2%
6. Sewerage & Drainage	2%
7. Electrical Installation & equipment	5%
8. Plant & Machinery	5%
9. Scientific & Laboratory Equipment	8%
10. Office Equipment	7.5%
11. Audio Visual Equipment	7.5%
12. Computer & Peripherals	20%
13. Furniture, Fixtures & Fittings	7.5%
14. Vehicle	10%
15. Lib. Books & Scientific Journals	10%

Intangible Assets (amortization) :

1. E-Journals/e-books	40%
2. Computer Software	40%
3. Patents and Copyrights	9 years

3.4 Depreciation is provided for the whole year on additions during the year.

3.5 Where an asset is fully depreciated, it will be carried at a residual value of Re. 1 in the Balance Sheet and will not be further depreciated. Thereafter, depreciation is calculated on the additions of each year at the rate of depreciation applicable for the asset head.



3.6 Assets created out of Earmarked Funds and funds of Sponsored Projects, where the ownership of such assets vests in the Institution, are setup by credit to Capital Fund and merged with the Fixed Assets of the Institution. Depreciation is charged at the rates applicable to the respective assets. Assets created out of Sponsored Project funds, where the ownership is retained by the sponsors but held and used by the Institution are separately disclosed in the Notes on Accounts.

3.7 Assets, the individual value of each of which is Rs. 2000 or less (except Library Books) are treated as Small Value Assets, 100% depreciation is provided in respect of such assets at the time of their acquisition. However physical accounting and control are continued by the holders of such assets.

4. Intangible Assets : Patents and copy rights, E Journals/E Books and Computer Software are grouped under Intangible Assets.

4.1 Electronic Journals (E Journals/E Books) are separated from Library Books in view of the limited benefit that could be derived from the on-line access provided. E-journals/E Books are not in a tangible form, but temporarily capitalized and in view of the magnitude of expenditure and the benefit derived in terms of perpetual knowledge acquired by the Academic and Research Staff; Depreciation is provided in respect of E-journals/E Books at a higher rate of 40% as against depreciation of 10% provided in respect of Library Books.

4.2 Expenditure on acquisition of software has been separated from computer and peripherals, as apart from being intangible assets, the rate of obsolescence in respect of these is very high. Depreciation is provided in respect of software at a higher rate of 40% as against depreciation of 20% provided in respect of Computer & Peripherals.

5. STOCKS :

Expenditure on purchase of chemicals, glassware, publications, stationery and other stores is accounted as revenue expenditure and these are treated as consumable goods.

6. RETIREMENT BENEFITS :

Current year's Provision for Retirements benefits i.e., Pension, gratuity and leave encashment etc. are accounted on the basis of actuarial valuation.

**7. INVESTMENTS :**

All investments are valued at cost. To the extent immediately not required for expenditure, the amount available against such funds are invested in Fixed deposit with Banks, etc., leaving balance in Savings Bank Account.

8. Earmarked/Endowment Funds :

The following long term funds are earmarked for specific purpose. Each of the funds has a separate bank account. The assets created out of Earmarked Funds where the ownership vests in the Institution, are merged with the assets of the Institution by crediting an equal amount of Capital Fund. The balance in the respective funds is carried forward and is represented on the assets side by the balance at Bank, Investment and accrued interest.

8.1 **CORPUS FUND** was established in the year 2007. Matching contribution from University Grants Commission, Recognition/Affiliation fee received from Colleges and other academic institution, Institution's share of Consultancy fees and contributions from Research Projects are treated as additions to Corpus fund.

Income from investments of the fund is added to the Fund. The Corpus Fund is utilized for Revenue and Capital expenditure based on the guidelines by the University Grants Commission and the Executive Council of the Institution from time to time. The assets created out of the Corpus Fund are merged with the assets of the Institution by crediting an equal amount of the Capital Fund. The balance in the Corpus Fund which is carried forward, is represented by the balance in a separate Bank account, investment in RBI Bonds and Fixed Deposits with the Bank and Accrued Interest on investment.

8.2 JRF/SRF Fund

Fund provided by the UGC/Government for the purpose of paying Fellowships to Junior/Senior Research Fellows.

9. Rajiv Gandhi National Fellowship Fund

Fund provided by University Grants Commission for fellowship to SC/ST students of the University.

**10. GOVERNMENT AND UGC GRANTS**

- 10.1 UGC grants are accounted on realization basis. However, where a sanction for release of grant pertaining to the financial year is received before 31st March and the grant is actually received in the next financial year the grant is accounted on accrual basis and an equal amount is shown as recoverable from the Grantor.
- 10.2 To the extent utilized towards capital expenditure, Government grants and grant from UGC are transferred to the Capital Fund.
- 10.3 Government and UGC grants for meeting Revenue Expenditure are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.
- 10.4 Unutilized grants (including advances paid out of such grants) are carried forward and exhibited as a Liability in the Balance Sheet.

11. INVESTMENT OF EARMARKED FUNDS AND INTEREST INCOME ACCRUED ON SUCH INVESTMENTS :

To the extent not immediately required for expenditure, the amounts available against such funds are deposited for fixed term with Banks, leaving the Balance in Savings Bank Accounts.

Interest received, interest accrued and due and interest accrued but not due on such investment are added to the respective funds and not treated as income of the Institution.

12. SPONSORED PROJECTS :

- 12.1 The University is receiving Grants-in-aid for Earmarked Specific Purpose Research Projects from various Funding Bodies such as DST, CSIR, DBT, UGC, MOE&F and ICAR, etc., in installments. The University furnishes statement of expenditure and utilization certificate to these funding bodies periodically to release next and subsequent installment of grants.
- 12.2 In addition to the Earmarked Fund for the Junior Research Fellowship funded by the University Grants Commission, Fellowship and Scholarships are also sponsored by various organizations. These are accounted in the same way as Sponsored Projects except that the expenditure generally is only on disbursement of Fellowships and Scholarships, which may include allowances for contingent expenditure by the Fellows and scholars.





Contingent Liabilities And Notes to Accounts





SCHEDULE : 24

TRIPURA UNIVERSITY

Year Ending: 31.03.2024

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (ILLUSTRATIVE)

1. CONTINGENT LIABILITIES :

- i) As on 31.03.2024, fourteen numbers of court cases were filed against the University by former employees, Scholars & third party, were pending for decision. The quantum of the contingent liability cannot be ascertained before final verdict receive from the Hon'ble Court.
- ii) No Letter of Credit established by the Bank on behalf of the University.

2. FIXED ASSETS :

- 2.1 Addition in the year to Fixed Assets in Schedule 4 include Assets purchased out of Schedule 4A Plan, Schedule 4B Non-Plan and Schedule 4D Others. The Assets have been set up by credit to Capital Fund.
- 2.2 In the Balance Sheet as on 31.03.2024 and the Balance Sheet of earlier years, Fixed Assets created out of Plan funds and Fixed Assets created out of non-plan funds were exhibited distinctly. The addition during the years from 01/04/2023, from plan, non-plan funds, and other funds, and the depreciation on those additions respectively have been exhibited distinctly in Sub-Schedule A, B, C and D to the main schedule of Fixed Assets (Schedule 4)

3. CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES AND DEPOSITS

In the opinion of the Management, the current assets, Loans, Advances and Deposits have a value on realization in the ordinary course, equal at least to the aggregate shown in the Balance Sheet.

4. The details of balances in Savings Bank Accounts, Current Accounts and Fixed Deposit Accounts with Banks are enclosed as attachment 'A' to the Schedule of Current Assets.
5. Previous year's figures have been regrouped and rearranged wherever necessary.
6. Sponsored Projects and Sponsored Fellowships & Scholarship have been shown in Schedule 3.
7. Depreciation on Intangible Assets has been shown in Schedule 4A, 4B & 4D.



8. Schedules 1 to 24 are annexed to and form as integral part of the Balance Sheet as of 31st March, 2024 and the Income & expenditure account for the year ended on that date.
9. As the Provident Fund Accounts and the New Pension Scheme Account are owned by the members of those fund and not by the Institution, these accounts were separated from the Institution's Accounts from 2007-08. A Receipts & Payments Account, and Income & Expenditure Account (on Accrual basis) and a Balance Sheet of the Provident Fund Accounts as well as the New Pension Scheme for the year 2023-24 have been attached, to the Institution's Accounts. A large portion of the New Pension Scheme funds (Rs. 5.73 Crores) in respect of 217 Employees who have been allotted PRA Numbers has been transferred up to 31/03/2024, to National Securities Depository Limited (NSDL) - Central Record keeping Agency (CRA).
10. The Accounts of the Directorate of Distance Education, Tripura University is attached with the Annual Accounts of Tripura University as the Accounts of DDE is maintained separately.
11. **Income Tax**
The income of the Institution is exempt from Income Tax under Section 10(23C) of the Income Tax Act and Central University obtained possessed exemption certificate from the Income Tax Department under section 10(23C) vide document Identification No-AACAT1043MD2022101 and Unique Registration No- AACAT1043MD2022101 dated 03.08.2022. Therefore no provision for tax is made in the accounts. Income Tax Refund for the Assessment A.Y. 2022-2023 and 2023-2024 are not assessed till 31.03.2024. TDS receivable during the financial year 2023-2024 have been added and shown under Schedule-8.
12. Amount of caution money refundable to students during 12 months form the balance sheet date have been aggregated under head deposit form students under schedule -3 current liabilities and provisions.
13. Land of Rs. 21.33 Crores depicted under Fixed Assets (Schedule-4) as possessed, controlled and managed by University is leasehold land for 99 years which was allotted and vested by Govt. of Tripura.
14. University is monitoring and following up recovery of old and long pending advance from staff.
15. All stale cheques upto financial year 2022-2023 (31.03.2023) have been adjusted in Books of Accounts by passing necessary entries during the financial year 2023-2024.



Receipts & Payments Account





TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024

(Amount in Rupees)

Receipts	Current Year	Previous Year	Payments	Current Year	Previous Year
I. Opening Balances			I. Expenses		
a) Cash in Hand			a) Establishment Expenses	668,201,903.00	582,709,203.00
b) Bank Balances			b) Academic Expenses	35,998,130.00	31,859,449.00
I) In Savings Accounts	208,195,190.99	246,482,936.67	c) Administrative Expenses	89,323,525.00	69,590,063.00
II) In Current Accounts	2,793,058.24	2,218,669.50	d) Transportation Expenses	2,856,827.00	2,855,128.00
III) In Deposit Accounts	715,452,242.35	571,810,342.85	e) Repair & Maintenance	10,761,037.00	18,699,658.00
II. Grants Received			f) Finance Cost	21,601.35	133,110.74
a) From Government of India (Including UGC)	965,958,953.00	761,667,012.00	g) Prior Period Expenses		
b) From State Government			II. Payments against Earmarked / Endowment Funds	23,494.00	5,000.00
c) From Other Sources			III. Payments against Sponsored Projects / Schemes	28,041,165.44	33,086,363.40
III. Academic Receipts	188,523,558.88	158,647,248.65	IV. Payments against Sponsored Fellowships / Scholarships	314,160.00	391,836.00
IV. Receipts against Earmarked / Endowment Funds		80,140.00	V. Investments and Deposits Made		
V. Receipts against Sponsored Projects / Schemes	35,840,816.16	19,636,153.22	a) Out of Earmarked / Endowment Funds		
VI. Receipts against Sponsored Fellowships / Scholarships	2,851,105.64	1,127,017.00	b) Out of Funds (Investments-Others)		
VII. Income from Investments			VI. Term Deposits with Scheduled Banks		
a) From Earmarked / Edowment Funds	553,862.00	141,360.00	VII. Expenditure on Fixed Assets and Capital Work		
b) Other Investments			in Progress & Advances		
VIII. Interest Received			a) Fixed Assets	109,592,200.00	84,967,179.09
a) Bank Deposits	603,328.00	11,025,202.00	b) Capital Work in Progress	59,129,000.00	0.00
b) Loans & Advances			c) Advance on Capital Account	102,445,000.00	26000.00
c) Savings Bank Accounts	9,194,807.00	5,920,953.00	VIII. Other Payments including Statutory Payments	143,959,248.00	143,541,425.00
IX. Investments Encashed			IX. Refund of Grants	15,927,000.00	68,979,000.00
X. Term Deposits with Scheduled Banks Encashed			X. Deposits & Advances	19,324,231.00	20,341,011.00
XI. Other Income including Prior Period Income	5,084,912.42	2,392,410.56	XI. Other Payments	572,741,554.00	538,313,794.40
XII. Deposits & Advances	10,427,215.00	14,179,325.00	XII. Closing Balances		
XIII. Miscellaneous Receipts including Statutory Receipts	11,457,331.72	13,788,291.00	a) Cash in Hand		
XIV. Any Other Receipts	799,896,154.74	712,821,650.76	b) Bank Balances		
			I) In Savings Accounts	235,132,256.26	208,195,190.99
			II) In Current Accounts	846,601.24	2,793,058.24
			III) In Deposit Accounts	862,193,602.85	715,452,242.35
Total	2,956,832,536.14	2,521,938,712.21	Total	2,956,832,536.14	2,521,938,712.21





Provident Fund





PROVIDENT FUND ACCOUNT
TRIPURA UNIVERSITY
 (A Central University)
 SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2024

(Amount in Rupees)

Amount Previous Year	Liabilities		Amount Current Year	Amount Previous Year	Assets	Amount Current Year
	GPF	-			INVESTMENT	
193,107,236.00	OPENING BALANCE	193,107,236.00		2,293,018.00	ACCRUED INTEREST ON INVESTMENT	10,814,728.00
	LESS : SUBSCRIPTION FOR THE MARCH - 2023	-2,637,233.00		2,637,233.00	SUBSCRIPTION DUE	
	ADD : SUBSCRIPTION DURING THE YEAR	32,960,621.00			GPF (CONTRA)	2,517,662.00
	ADD : SUBSCRIPTION ON MARCH-2024 (CONTRA)	2,517,662.00		214,966.00	AMOUNT RECEIVABLE FROM PF (STATE) A/C b/f	214,966.00
	ADD : INTEREST CREDITED	13,590,286.92		386,450.00	RECEIVABLE FROM TU A/C b/f	386,450.00
	LESS : ADVANCE & WITHDRAWAL	-43,808,842.00			CASH AT BANK	
			195,729,730.92	8,368,705.40	SBI GPF SAVING PLUS A/C (31930726546)	13,769,800.40
	INTEREST RESERVE			691,306.60	SBI S/B A/C NO.30384598214	1,302,602.72
	- OPENING BALANCE	-6,483,009.40		91,736.60	HDFC GPF A/C NO. 50100231045974	94,519.60
	LESS : EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE {THIS YEAR}	10,909,711.20	4,426,701.80	473,513.00	TGB GPF A/C NO.8001012597944	-
58,216,655.00	LOAN RECEIVED FROM TU A/C			6,459.00	ICICI GPF A/C No. 216701001138	13,628.00
	- OPENING BALANCE	58,216,655.00		7,000.00	STDR NO. 30579914332	7,000.00
	ADD : THIS YEAR	-	58,216,655.00	180,206.00	STDR NO. 30583268449	180,206.00
155,860.00	LIABLE TO PENSION FUND A/C		155,860.00	-	INVESTMENT DURING THE YEAR	-
				49,270,151.00	HDFC - 50300919351201	43950189.00
				29,473,237.00	SBI- 42709582913	15000000.00
				77,721,204.00	ICICI GPF A/C No. 216701001138	36305992.00
				33,181,556.00	SBI - 41982257953	56250000.00
				40,000,000.00	EXISTING INVESTMENT	-
					SBI - 41773502370	77721204.00
					INTEREST RESERVE	
				6,483,009.40	OPENING BALANCE	0.00
251,479,751.00	TOTAL		258,528,947.72	251,479,751.00	TOTAL	258,528,947.72



PROVIDENT FUND ACCOUNT

TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024

(Amount in Rupees)

Amount Previous year	Expenditure	Amount Current year	Amount Previous year	Income	Amount Current year
10,096,508.00	<u>INTEREST CREDITED TO</u>	13,590,286.92	7,007,551.00	<u>INTEREST EARNED ON INVESTMENT</u>	
	GPF ACCOUNT			ADD : INTEREST ACCRUED ON 31st MARCH- 2024	10,814,728.00
	CPF ACCOUNT	-	-6,048,314.00	ADD : INTEREST RECEIVED AT THE TIME OF MATURITY	13,317,467.00
	UNIVERSITY CONTRIBUTION (CPF)		<u>2,293,018.00</u>		
			3,252,255.00	LESS : ACCRUED INTEREST FOR MARCH - 2023	-20,248.00
	<u>OTHER EXPENSES - PROVIDENT FUND</u>		688,374.00	{Rs 22,93,018 minus Rs.22,72,770/- As per Note}	
-				RECEIVED AT THE TIME OF MATURITY	
				INTEREST RECEIVED FROM SAVINGS BANK A/C (GPF)	293,067.92
				TDS REFUND AND OTHER INCOME	94,983.20
-	EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	10,909,711.20	6,155,896.00	EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME	
10,096,508.00	Total	24,499,998.12	10,096,525.00	Total	24,499,998.12



PROVIDENT FUND ACCOUNT

TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023-24

(Amount in Rupees)

Receipts	Amount	Amount	Payments	Amount	Amount
Opening Balances					
SBI GPF SAVING PLUS A/C (31930726546)	8,368,705.40		GPF - ADVANCE & WITHDRAWAL (PF)		43,808,842.00
SBI S/B A/C NO.30384598214	691,306.60				
HDFC GPF A/C NO. 50100231045974	91,736.60		INVESTMENT MADE DURING THE YEAR	-	
TGB GPF A/C NO.8001012597944	473,513.00		FD MADE/BOOKED /CLOSING FIXED DEPOSIT		
ICICI GPF A/C No. 216701001138	6,459.00		From - HDFC GPF A/C NO. 50100231045974		
STDR NO. 30579914332	7,000.00		{ HDFC - 50300919351201 - Rs. 4,39,50,189 }	43950189.00	
STDR NO. 30583268449	180,206.00	9,818,926.60	SBI -41982257953	56250000.00	
OPENING FIXED DEPOSIT/MATURED FD			SBI- 42709582913	15000000.00	
HDFC - FD - - 50300658582272	40000000.00		ICICI GPF A/C No. 216701001138	36305992.00	
HDFC - FD - 50300658584901	29473237.00		SBI - 41773502370	77721204.00	229,227,385.00
TGB GPF A/C NO- 8001148085404	49270151.00				
ICICI GPF A/C No. 216713002749	33181556.00				
SBI - 41773502370	77721204.00	229,646,148.00	Closing Balance		
INTEREST RECEIVED FROM SAVINGS BANK A/C (GPF)			SBI GPF SAVING PLUS A/C (31930726546)	13,769,800.40	
INTEREST EARNED ON SB A/C			SBI S/B A/C NO.30384598214	1,302,602.72	
HDFC Bank	2783.00		HDFC GPF A/C NO. 50100231045974	94,519.60	
TGB Bank	3704.92		TGB GPF A/C NO.8001012597944	-	
ICICI Bank	7169.00		ICICI GPF A/C No. 216701001138	13,628.00	
SBI - GPF Savings Plus	247319.00		STDR NO. 30579914332	7,000.00	
SBI - 30384598214	32092.00	293,067.92	STDR NO. 30583268449	180,206.00	15,367,756.72
GPF SUBSCRIPTION					
SBI - GPF Savings Plus	31278760.00				
SBI - 30384598214	1681861.00	32,960,621.00			
TDS REFUND AND OTHER INCOME	-	94,983.20			
Any Other Receipt/Interest Received at the time of Maturity					
HDFC - FD - - 50300658582272	3950189.00				
HDFC - FD - 50300658584901	2910621.00				
ICICI GPF A/C No. 216713002749	3124436.00				
TGB GPF A/C NO - 8001148085404	5604991.00	15,590,237.00			
Total		288,403,983.72	Total		288,403,983.72





Provident Fund (State Part)





PROVIDENT FUND ACCOUNT (STATE PART)

TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

BALANCE SHEET as at 31st MARCH, 2024

Liabilities	(Amount in (Rs.))	Assets	(Amount in (Rs.))
<i>Tripura University Old PF Fund b/f</i>	215,007.50	Loan :	
		Pension Paid (Loan paid to TU) b/f	3,091,642.00
Old PF Account Deposit		Amount Paid to GPF A/c b/f	155,860.00
Opening Balance b/f	28,269,321.91	Interest Accrued :	
Reserve & Surplus		As per last A/c	21,954,037.00
Excess of Income Over Expenditure : b/d	46,259,075.00	Less: - Interest Received	0.00
Add : This Year	17,914,203.00		21,954,037.00
	64,173,278.00	Add : This Year	2,873,494.00
			24,827,531.00
		Less : TDS Deducted	359,677.00
		TDS Receivable (As per 26AS)	359,677.00
Liable to GPF A/c b/f	214,966.00	Closing Balance :	
		TU old PF Account	
		(SBI, MBBC Br. - 10333227373)	4,094,010.41
		STDR A/C	
		A/c No. 31968250836	12,206,614.00
		A/c No. 31968251080	12,206,614.00
		A/c No. 31968251148	12,206,614.00
		A/c No. 31968251193	12,206,614.00
		A/c No. 31968251262	11,877,074.00
Total	92,872,573.41	Total	92,872,573.41



PROVIDENT FUND ACCOUNT (STATE PART)

TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024

Expenditure	(Amount in Rs.)	Income	(Amount in Rs.)
To Prior Period Adjustment	1,034,562.00	By Interest Received from :	
	-	" Bank Interest on SB A/c	108,922.00
		" Prior Period Income	
		A/c No. 31968250836	3,210,605.00
		A/c No. 31968251080	3,210,605.00
		A/c No. 31968251148	3,210,605.00
		A/c No. 31968251193	3,210,605.00
		A/c No. 31968251262	3,123,929.00
		(Previous Years Accrued Interest not accounted inadvertently, now rectified)	
To Excess of Income over Expenditure	17,914,203.00	By Interest Accrued on Investment	2,873,494.00
Total	18,948,765.00	Total	18,948,765.00



PROVIDENT FUND ACCOUNT (STATE PART)

TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024

Receipts	Amount (Rs.)	Payments	Amount (Rs.)
<u>To Opening Balance</u>		By Prior Period Adjustment	1,034,562.00
T.U. Old PF Account		{SB A/c shown of Rs. 50,19,650.41	
(SBI, MBBC Br. - 10333227373)	5,019,650.41	instead of Rs. 39,85,088.41 now rectified}	
		<u>By Closing Balance :</u>	
<u>To Interest Received From :</u>		T.U. Old PF Account	
Bank Interest on SB A/c	108,922.00	(SBI, MBBC Br. - 10333227373)	4,094,010.41
Total	5,128,572.41	Total	5,128,572.41





National Pension Scheme (Tier-I)





NPS TIER-1 ACCOUNT
TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2024

(Amount in Rupees)

Amount Previous year	Liabilities		Amount Current year	Amount Previous year	Assets	Amount Current year
273,018,935.00	<u>NPS TIER - I ACCOUNT</u>		330,291,796.00	3,439,566.00	<u>NPS TIER - I ACCOUNT</u>	3,439,566.00
	OPENING BALANCE	273,018,935.00			SUBSCRIPTION AND CONTRIBUTION DUE ON NPS TIER - 1 ACCOUNT b/f	
	ADD : NPS TIER - I SUBSCRIPTION + U CONTRIBUTION	57,272,861.00			<u>INVESTMENT</u>	
		330,291,796.00			NSDL	326,852,230.00
					<u>CASH AT BANK</u>	
	<u>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</u>				- NPS TIER - 1 BANK ACCOUNT	-
-	INCOME & EXPENDITURE - (NPS TIER - 1)		-			
273,018,935.00	Total		330,291,796.00	273,018,935.00	Total	330,291,796.00



NPS TIER-1 ACCOUNT
TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024

(Amount in Rupees)

Amount Previous Year	Expenditure	Amount Current Year	Amount Previous Year	Income	Amount Current Year
-	INTEREST CREDITED TO SUBSCRIPTION ACCOUNTS	-	-	INTEREST EARNED ON INVESTMENT	-
-	BANK CHARGES	-	-	INTEREST ACCRUED BUT NOT DUE	-
-	EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	-	-		
-		-	-		-



NPS TIER-1 ACCOUNT
TRIPURA UNIVERSITY

(A Central University)

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024

(Amount in Rupees)

Receipts	Amount	Payments	Amount
Opening Balances	-	INVESTMENT FROM NPS TIER - 1 ACCOUNT	57,272,861.00
NPS TIER - I SUBSCRIPTION ACCOUNT	-		
Own Subscription	23,479,377.00		
University Subscription	32,871,146.00		
Arrear Amount (Own)	384,259.00	Closing Balances	-
Arrear Amount (TU)	538,079.00		
Total	57,272,861.00	Total	57,272,861.00





Directorate of Distance Education





DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION

TRIPURA UNIVERSITY

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2024

(Amount in Rupees)

Capital & Liabilities	Current Year	Previous Year	Assets & Properties	Current Year	Previous Year
Capital Account			Fixed Assets		
General Fund			Fixed Assets (Schedule-I)	5,725,229.00	6,257,112.00
Opening Balance	72,998,208.45	82,887,623.95	Investment		
			Fixed Deposit (Schedule - II)	57,141,276.57	54,531,418.57
			Accrued interest on Fixed Deposit (Schedule - II)	4,832,916.00	2,744,486.00
			{Column 9 minus 13 of Schedule - II}		
Less: Excess of Expenditure over Income	4,769,340.00	9,889,415.50	TDS Receivable on FD Interest (Schedule -II)	260,692.00	
	68,228,868.45	72,998,208.45	Current Assets & Advances :		
Current Liabilities:			Loan & Advance (Schedule - III)	1,145,768.00	2,065,534.00
Medical Advance	425.00	425.00	Festival Advance	17,025.00	3,025.00
Professional Tax	214,067.00	179,123.00			
VAT	203,096.00	203,096.00			
Tax Deducted at Source	121,543.00	11,083.00			
Employee EPF Contribution	307,418.00	307,418.00	Cash-at-Bank		
Earnest Money Deposit	200,000.00	200,000.00	State Bank of India A/c- 10333226981	4,037.22	3,929.22
LIC (Staff)	-	12,240.00	State Bank of India A/c- 32157404236	20,898.60	747,517.60
Other Liabilities (Stale Cheque Reverse)	556,881.00	556,881.00	State Bank of India A/c- 33217401877	1,345,420.60	4,429,039.60
Employer Contribution to EPF	49,967.00	49,967.00	HDFC A/c -50200020393191	207,263.66	3,150,013.66
Outstanding Payment for Salary & Wages	819,296.00	819,296.00	ICICI-A/c-216705000938	1,034.80	1,405,661.80
Grand Total	70,701,561.45	75,337,737.45	Grand Total	70,701,561.45	75,337,737.45



DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION

TRIPURA UNIVERSITY

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024

(Amount in Rupees)

Expenditure		Current Year	Previous Year	Income		Current Year	Previous Year
To	Advertisement Expenses	-	-	By	Admission Fees (B.A)	-	95,000.00
"	Bank Charges	354.00	1,327.50	"	Admission Fees (M.A.)	20,000.00	130,000.00
"	Contingency	276,949.00	54,676.00	"	Bank Interest Received	49,326.00	32,453.00
"	Evaluation of Assignment (B.A)	-	83,920.00	"	Examination Fees Received	53,381.00	499,840.00
"	Evaluation of Assignment (M.A., Edu)	950.00	-	"	Interest on FD on Maturity	1,704,491.00	1,091,817.00
					{As Per Fixed Deposit Schedule II}		
"	Evaluation of Assignment (M.A., Pol. Sci.)	860.00	-	"	Misc. Receipts	11,800.00	20,001.00
"	Evaluation of Assignment (M.A., Bengali)	420.00	-	"	Accrued Interest on FD	1,829,489.00	1,461,002.00
					{As Per Fixed Deposit Schedule II}		
"	Examination Expenses	67,700.00	207,062.00	"	Misc. BRS -Stale Cheque Reversed	20,726.00	0.00
"	Hiring Charges of Vehicle	212,917.00	534,541.00	"			
"	Honorarium to Study Centre	56,953.00	1,735,200.00	"			
"	Personal Contact Programme (BA)	168,400.00	833,810.00				
"	Personal Contact Programme (M.A. Edu)	8,000.00	13,000.00				
"	Personal Contact Programme (M.A. Pol. Sci.)	13,000.00	16,000.00				
"	Personal Contact Programme (M.A. Bengali)	19,500.00	31,500.00	By	Excess of Expenditure over Income	4,769,340.00	9,889,415.50
"	Printing	-	1,456,770.00				
"	Professional Fees	-	1,035,530.00				
"	EPF Payment		642,646.00				
"	Salary to Staff	4,589,352.00	5,267,174.00				
"	Labour Hiring Charges	1,624,154.00	671,605.00				
"	Telephone Expenses	-	42,844.00				
"	TA/DA	29,935.00	4,000.00				



DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION

TRIPURA UNIVERSITY

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Expenditure		Current Year	Previous Year	Income		Current Year	Previous Year
To	Pol. Imprest	32,572.00					
"	Project Paper Expenses	529,406.00					
"	Employer Cont. of EPF Payment	295,248.00					
To	Depreciation On :						
"	Computer & peripherals	57,498.00	71,872.00				
"	Furniture & Fittings	136,851.00	147,947.00				
"	Equipment	225,488.00	243,770.00				
"	Vehicle	5,521.00	6,134.00				
"	Telephone	3,887.00	4,203.00				
"	Books & Journal	101,131.00	112,368.00				
"	Signboard	1,507.00	1,629.00				
Grand Total		8,458,553.00	13,219,528.50	Grand Total		8,458,553.00	13,219,528.50



DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION

TRIPURA UNIVERSITY

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024

(Amount in Rupees)

Receipts		Current Year	Previous Year	Payments		Current Year	Previous Year
To	Opening Balance			By	Advertisement Expenses		-
"	State Bank of India A/c- 10333226981	3,929.22	3,825.22				
"	State Bank of India A/c- 32157404236	747,517.60	5,022,677.60				
"	State Bank of India A/c- 33217401877	4,429,039.60	111,752.10	"	Festival Advance	70,000.00	-
"	HDFC A/c -50200020393191	3,150,013.66	12,150,072.66				
"	ICICI-A/c-216705000938	1,405,661.80	3,405,955.80	"	Collection of EPF (Employee Deduction)		-
				"	Income Tax (TDS)	13,996.00	62,384.00
To	Admission Fees (B.A.)		95,000.00	"	LIC	24,480.00	28,560.00
"	Admission Fees (M.A.)	20,000.00	130,000.00	"	Bank Charges	354.00	1,327.50
"	Bank Interest Received	49,326.00	32,453.00	"	Contingency	276,949.00	54,676.00
"	Examination Fees Received	53,381.00	499,840.00	"	Employer Cont. of EPF Payment	576,048.00	618,042.00
"	Interest on FD		-	"	Evaluation of Assignment (M.A, Bengali)	420.00	-
"	TDS Receivable	107,432.00		"	Evaluation of Assignment (B.A)		83,920.00
"	Recovery of Advance	919,766.00	-	"	Evaluation of Assignment (M.A., Edu)	950.00	-
"	Recovery of Festivals Advance	56,000.00	60,200.00	"	Evaluation of Assignment (M.A., Pol. Sci.)	860.00	-
"	Recovery of Medical Advance		-	"	Examination Expenses	67,700.00	207,062.00
"	Fixed Deposit Receipts		-	"	Hirng Charges of Vehicle	212,917.00	534,541.00
				"	Honorarium to Study Centre	56,953.00	1,735,200.00
"	Accrued Interest on FD Received	1,184,858.00	-	"	Labour hiring charges	1,624,154.00	671,605.00
"	Collection of EPF (Employee Deduction)	280,800.00	300,960.00				
"	Income Tax (TDS)	17,024.00	69,971.00	"	Repair & Maintenance		
"	LIC	12,240.00	-	"	System Maintenance Fees		
"	Professional Tax	34,944.00	39,312.00	"	Personal Contact Programme (BA)	168,400.00	833,810.00
"	Misc. Receipts (Stale Cheque Reverse)		20,001.00	"	Personal Contact Programme (M.A. Edu)	8,000.00	13,000.00
"	Advance Recovery as per schedule (iii)		183,275.00	"	Personal Contact Programme (M.A. Pol. Sci.)	13,000.00	16,000.00



DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION

TRIPURA UNIVERSITY

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

(Amount in Rupees)

Receipts		Current Year	Previous Year	Payments		Current Year	Previous Year
"	Misc. Received	11,800.00		"	Personal Contact Programme (M.A. Beng.)	19,500.00	31,500.00
"	Misc. BRS Reversed	20,726.00		"	Printing Charges		1,456,770.00
				"	Pol. Imprest	32,572.00	
				"	Project Paper Expenses	529,406.00	
				"	Interest added with FD		
				"	Salary to Staff	4,589,352.00	4,895,362.00
				"	Security Money Refund		
				"	TA/DA	29,935.00	4,000.00
				"	Telephone Expenses		42,844.00
				"	Signboard		
				"	Stationery		
				"	Fixed Deposit made (Bank)	1,425,000.00	
				"	Fixed Deposit made (from Interest received at the time of maturity)	1,184,858.00	
				"	Professional Fees	-	1,035,530.00
				By	<u>Cash-at-Bank</u>		
				"	State Bank of India A/c- 10333226981	4,037.22	3,929.22
				"	State Bank of India A/c- 32157404236	20,898.60	747,517.60
				"	State Bank of India A/c- 33217401877	1,345,420.60	4,429,039.60
				"	HDFC A/c -50200020393191	207,263.66	3,150,013.66
				"	ICICI-A/c-216705000938	1,034.80	1,405,661.80
Grand Total		12,504,458.88	22,125,295.38	Grand Total		12,504,458.88	22,125,295.38

**DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION****TRIPURA UNIVERSITY**

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

FIXED ASSETS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024**Schedule -I**

Sl. No.	Name of Fixed Asset	Opening Balance as on 01.04.2023 (Rs.)	Addition This Year	Total (Rs.)	Rate of Depreciation	Depreciation	Closing Balance as on 31.03.2024 (Rs.)
1	Computer & Peripherals	287,490.00	-	287,490.00	20.00%	57,498.00	229,992.00
2	Furniture & Fittings	1,824,681.00	-	1,824,681.00	7.50%	136,851.00	1,687,830.00
3	Equipment	3,006,500.00	-	3,006,500.00	7.50%	225,488.00	2,781,012.00
4	Vehicle	55,208.00	-	55,208.00	10.00%	5,521.00	49,687.00
5	Telephone	51,833.00	-	51,833.00	7.50%	3,887.00	47,946.00
6	Books & Journal	1,011,308.00	-	1,011,308.00	10.00%	101,131.00	910,177.00
7	Signboard	20,092.00	-	20,092.00	7.50%	1,507.00	18,585.00
	Total	6,257,112.00	-	6,257,112.00		531,883.00	5,725,229.00



DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION

TRIPURA UNIVERSITY

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

Schedule -II

STATEMENT OF FIXED DEPOSIT AS ON 31.03.2024

Sl. No	FD No.	Value Date	Date of Matured	Rate of Interest	Principle & Maturity Amount (Rs/-)					Accrued Interest & Interest Amount (Rs/-)						
					Opening Balance (As per Opening Balance Sheet)	New FD addition	Receipt on maturity	Maturity value at the time of Maturity Date	Closing Balance (As per Balance Sheet - 2023 -24)	Opening Balance (As per Opening Balance Sheet)	Interest Received at the time of maturity	TDS De-ducted/ Receivable	Interest Received at the time of Maturity minus TDS	Accrued Interest Addition	Accrued Interest Reversed	Closing Balance of Interest (Contra Entry) Balance Sheet and I/E A/c
Col	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5+6	10	11	12	13 = 11-12	14	15	16 = 10+13+14-15
1	SBI - A/c No. 30370156281/Renew	22.08.2023	22.07.2025	6.80%	3550679.00	355146.00	3905825.00	4444725.00	3905825.00	279962.00	74985.00	0.00	74985.00	163678.00	355146.00	163479.00
2	SBI A/c No. 31591579332/Renew	31.12.2021	26.09.2024	5.10%	2355340.00	0.00	0.00	2706348.00	2355340.00	123188.00	25842.00	25842.00	0.00	103006.00		226194.00
3	SBI -A/c No. 31591579671/Renew	31.12.2021	26.06.2024	5.10%	2473190.57	0.00	0.00	2841761.00	2473190.57	129353.00	27135.00	27135.00	0.00	108160.00		237513.00
4	A/c No. 36720516666/Renew	28.03.2022	28.03.2023	5.10%		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00
	SBI- A/c No. 36720516666/Renew	28.03.2023	28.03.2024	6.80%	6906272.00	0.00	0.00	0.00	6906272.00	0.00			0.00	0.00		0.00
	SBI- A/c No. 36720516666/F. Renew	28.03.2024	28.03.2025	6.80%	0.00		7339812.00	7851791.00	0.00	4594.00	477150.00	48204.00	428946.00	4883.00	0.00	438423.00
5	HDFC -A/c No. 50300190295412/ Renew	10.04.2021	13.04.2022	4.90%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346143.00			0.00	0.00	346143.00	0.00
	HDFC - A/c No. 50300190295412/ Renewed	10.04.2022	13.04.2023	5.00%	6889577.00	0.00	381542.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
	HDFC - A/c No. 50300190295412/F. Renewed	13.04.2023	19.04.2024	6.60%	0.00	0.00	829712.00	7746451.00	7719289.00	0.00	381545.00		381545.00	104394.00	483569.00	2370.00
6	SBI - 39150769611	7.02.2022	17.02.2023	5.00%	0.00	0.00		0.00	0.00				0.00	0.00		0.00
	SBI- 39150769611/Renew	17.02.2023	17.02.2024	5.10%	11356360.00	0.00	0.00	0.00	11356360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	SBI- 39150769611/Renew (F. Renewed)	17.02.2024	17.02.2025	6.80%	0.00	0.00	0.00	12825602.00	0.00	74620.00	717834.00	159511.00	558323.00	79716.00		712659.00
8	HDFC -A/c No. 50300527346702	18.06.2021	19.06.2024	5.30%	4000000.00	0.00	0.00	4685499.00	4000000.00	385606.00	0.00		0.00	238079.00		623685.00
9	HDFC -A/c No. 50300540457853	06.08.2021	07.08.2024	5.30%	17000000.00	0.00	0.00	19912979.00	17000000.00	1401020.00	0.00		0.00	1004727.00		2405747.00
10	ICICI - 216713004816	10.01.2024	10.04.2025	7.00%	0.00	1425000.00		1556039.00	1425000.00	0.00	0.00		0.00	22846.00		22846.00
Total (Rs/-)					54531418.57	1780146.00	12456891.00	64571195.00	57141276.57	2744486.00	1704491.00	260692.00	1443799.00	1829489.00	1184858.00	4832916.00



DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION

TRIPURA UNIVERSITY

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

Schedule -III

STATEMENT OF ADVANCES

SI No.	Name of Parties	Opening Balance Amount (Rs.)	Advance Paid Amount (Rs.)	Adv. Recover Amount (Rs.)	Closing Balance Amount (Rs.)
1	Advance to R L Deb	5,005.00	-		5,005.00
2	Advance to Abhijit Chanda	15,396.00	-	15,396.00	-
3	Advance to Ajit Roga	25,000.00	-	25,000.00	-
4	Advance to Amitava Chowdhury	-	-		-
5	Advance to Babudhan Tripura	25,000.00	-		25,000.00
6	Advance to Babul Ch. Dey	25,000.00	-	25,000.00	-
7	Advance to BBMC	22,475.00	-		22,475.00
8	Advance to Biplab Lagardo	25,000.00	-		25,000.00
9	Advance to Chandrima Choudhury	25,000.00	-	25,000.00	-
10	Advance to Co-Ordination DEC Khumulwng	18,605.00	-	17,505.00	1,100.00
11	Advance to Co-Ordinator BTCTE	11,500.00	-		11,500.00
12	Advance to Co-Ordinator DEC Amarpur	23,800.00	-		23,800.00
13	Advance to Co-Ordinator DEC DDM Khowai	75,715.00	-		75,715.00
14	Advance to Co-Ordinator DEC, Dharmanagar	37,020.00	-	37,020.00	-
15	Advance to Co-Ordinator DEC, Fatikroy	56,370.00	-	-	56,370.00
16	Advance to Co-Ordinator DEC, Gandachera	24,960.00	-		24,960.00
17	Advance to Co-Ordinator DEC, Holy Cross College	13,750.00	-		13,750.00
18	Advance to Co-Ordinator DEC IASE	71,251.00	-		71,251.00
19	Advance to Co-Ordinator DEC, ICV	87,100.00	-	70,400.00	16,700.00
20	Advance to Co-Ordinator DEC, Kamalpur	41,230.00	-	20,480.00	20,750.00
21	Advance to Co-Ordinator DEC, KanchanPur	20,785.00	-	-	20,785.00



DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION

TRIPURA UNIVERSITY

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SI No.	Name of Parties	Opening Balance Amount (Rs.)	Advance Paid Amount (Rs.)	Adv. Recover Amount (Rs.)	Closing Balance Amount (Rs.)
22	Advance to Co-Ordinator DEC, KNM, Sonamura	68,820.00	-	50,815.00	18,005.00
23	Advance to Co-Ordinator DEC Longtarai Valley	48,340.00	-	-	48,340.00
24	Advance to Co-Ordinator DEC MBB College	70,003.00	-	-	70,003.00
25	Advance to Co-Ordinator DEC, (MMDC)	63,610.00	-	-	63,610.00
26	Advance to Co-Ordinator DEC Mohanpur	63,235.00	-	-	63,235.00
27	Advance to Co-Ordinator DEC NSM	10,482.00	-	-	10,482.00
28	Advance to Co-Ordinator DEC, RKM, KLS	72,750.00	-	-	72,750.00
29	Advance to Co-Ordinator DEC, RNTM, BLS	38,405.00	-	38,405.00	-
30	Advance to Co-Ordinator DEC, RTC	86,142.00	-	-	86,142.00
31	Advance to Co-Ordinator DEC, Ambedkar	770.00	-	-	770.00
32	Advance to Co-Ordinator DEC, Teliamura	16,250.00	-	-	16,250.00
33	Advance to Co-Ordinator DEC, Women's College	26,535.00	-	26,535.00	-
34	Advance to Dhruva Deb	33,160.00	-	20,000.00	13,160.00
35	Advance to Dipanita Chakraborty	25,000.00	-	25,000.00	-
36	Advance to Jayanta Choudhury	25,000.00	-	25,000.00	-
37	Advance to K N Jena	-	-	-	-
38	Advance to LVY Choudhury	25,000.00	-	25,000.00	-
39	Advance to Madhusudan Mura Singh	25,000.00	-	25,000.00	-
40	Advance to Manik Lal Dhar	15,000.00	-	-	15,000.00
41	Advance to Manoshi Das	25,000.00	-	25,000.00	-
42	Advance to Mili Singha	25,000.00	-	25,000.00	-
43	Advance to Mitali Nath	25,000.00	-	25,000.00	-



DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION

TRIPURA UNIVERSITY

SURYAMANINAGAR, TRIPURA- (W)

SI No.	Name of Parties	Opening Balance Amount (Rs.)	Advance Paid Amount (Rs.)	Adv. Recover Amount (Rs.)	Closing Balance Amount (Rs.)
44	Advance to Mithu Sarkar	67,700.00	-	67,700.00	-
45	Advance to Mridul Chakraborty	25,000.00	-	25,000.00	-
46	Advance to Nibash Shil	40,000.00	-	25,000.00	15,000.00
47	Advance to Pragna Majumder	25,000.00	-	25,000.00	-
48	Advance to Pratyush Rn Deb	25,000.00	-	25,000.00	-
49	Advance to Priya Ranjan Debbarma	1,500.00	-	-	1,500.00
50	Advance to Ratna Roy	25,000.00	-	25,000.00	-
51	Advance to Rupak Chakraborty	32,000.00	-	-	32,000.00
52	Advance to Samir Chandra Das	21,000.00	-	21,000.00	-
53	Advance to Santano Bhattacharjee	14,010.00	-	14,010.00	-
54	Advance to Sarmistha Bhattacharjee	25,000.00	-	25,000.00	-
55	Advance to Sekharesh Bhattacharjee	185,180.00	-	-	185,180.00
56	Advance to Soumen Nandi	25,000.00	-	25,000.00	-
57	Advance to Subhash Sarkar	25,000.00	-	25,000.00	-
58	Advance to Swapna Biswas	45,180.00	-	25,000.00	20,180.00
59	Advance to Ujjal Kr. Das	25,000.00	-	25,000.00	-
60	Advance Paid to Hiring Charge of Vehicle	-	-	-	-
61	Advance to Amit Kumar Das	-	-	-	-
62	Advance to Arun Choudhury	20,500.00	-	20,500.00	-
	Total	2,065,534.00	-	919,766.00	1,145,768.00



त्रिपुरा विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
TRIPURA UNIVERSITY (A Central University)



Printed by :
SHOBHAN PRINTING HOUSE,
Malaynagar, Bypass Road, Agartala